

# BHARATABHĀṢYAM

of

NĀNYABHŪPĀL

Part—I

( Chapters 1—5 )

EDITED BY  
CHAITANYA P. DESAI  
FIRST EDITION

*Indira Kala Sangit Vishwavidyalaya*

KHAIRAGARH ( M. P. )

INDIA

1961

Published By :

P. N. CHINCHORE

Vice-chancellor

I. K. Sangeeta vishwavidyalaya

KHAIRAGARH ( M. P. )

*( All rights reserved )*

Price Rs. 8-00

Printed by :  
Lakshmi Bai Narayan Chaudhan  
Narmadasagar Press  
25-28, Kolbhat Street,  
Bombay 2

श्रीनान्यभूपाल-प्रणीतम्

# भरतभाष्यम्

प्रथमः खण्डः

( अध्यायाः १-५ )

चैतन्य पुण्डरीक देसाई इत्येतैः

संशोधितं संपादितम्

हिन्दी-भाषा-टीकया टिप्पण्या च समलङ्कृतम्

प्रथमं संस्करणम्

इन्दिरा-कला-संगीत-विश्वविद्यालय

खैरागढ़ ( म० प्र० )

—: प्रकाशक :—

प्रभाकर नारायण चिंचोरे

उपदुलभति

ई० क० संगीत विश्वविद्यालय

खैरागढ़ ( म० प्र० )

# निवेदन



भरतभाष्य के प्रकाशन के लिए जब मैंने डॉ० गोडे जी से उनकी सम्मति माँगी, तब उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा था—'किसी नैसर्गिक आपत्ति के कारण अगर आपको सम्मति मिलने में विलम्ब हुआ, तो क्या आप यह महत्कार्य रोक देंगे?' उनके इस प्रत्युत्तर से आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें अपने जीवनयात्रा के अन्त होने की सूचना पहले से ही मिल चुकी थी।

खैरागढ़ विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषप्रकाशन की योजना कार्यान्वित करने का श्रेय विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति तथा मेरे गुरु पद्मभूषण डॉ० श्री० ना० रातांजनकर जी का है। इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए आवश्यक द्रव्य केन्द्रीय सांस्कृतिक मन्त्रां श्री० हुमायुन फ़रीर जी की कृपा से उपलब्ध हुआ।

खैरागढ़ विश्वविद्यालय का 'अनुसंधान विभाग' निकट भविष्य में ही प्रारंभ होनेवाला है। आगामी प्रकाशन के लिए अन्य पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं तथा भरतभाष्य का द्वितीय खण्ड तैयार हो रहा है। परन्तु प्रकाशन-कार्य के लिए आवश्यक द्रव्य का अभाव, यह विश्वविद्यालय के सामने एक विचित्र समस्या है।

आशा करता हूँ, कि पाठकगण हमारे इस कार्य को समुचित रूप से सफल बनाने के लिए अपना उचित सहयोग प्रदान करेंगे।

प्रभाकर नारायण विचोरे

## भूमिका



खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय द्वारा यह प्रथम प्रकाशन है। संगीत के कतिपय संस्कृत ग्रंथ अभी तक अनुदित हैं, भरतभाष्य उनमें प्रमुख है। भरतभाष्य की मूल हस्तलिखित प्रति बहुत ही अशुद्ध तथा खण्डित है, उसको शुद्ध करना महान् प्रयास का तथा विद्वत्ता का कार्य है। श्री० चैतन्य देसाई ने इस ग्रंथ का संशोधन तथा संपादन किया है। वे संस्कृत के पंडित तथा संगीतशास्त्र के विशेषज्ञ हैं।

संगीत का प्रथम प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यशास्त्र है, उसमें जो चर्चा है, वह नाट्यसंगीत की है, ऐसा विद्वानों का मत है। प्रचलित संगीत रागों का है, परन्तु नाट्यशास्त्र में रागों की चर्चा नहीं है। तत्पश्चात् के मतंग के बृहद्देशी ग्रंथ में रागों का विषय चर्चित है।

संगीत वास्तव में भौतिक तथा प्रायोगिक विषय है। प्राचीन संगीत के श्रुति, ग्राम, मूर्च्छना आदि मूलभूत विषय प्रायोगिक ही थे, अतः शाब्दिक वर्णन द्वारा उनका बोध होना असंभव है। वेद के खरोचार भी प्रायोगिक ही हैं, उनकी भौतिक शिक्षा अनेक शिष्य-प्रशिष्यों को प्राप्त हुई, परिणामतः खरोचार में भिन्नता आ कर वेद की अनेक शाखाएँ उत्पन्न हुईं।

प्राचीन ग्रंथोंक श्रुति, ग्राम, मूर्च्छनादि विषयों का विवेचन साजकल कतिपय विद्वान् आधुनिक विज्ञान के आधार पर करते हैं तथा विशिष्ट निष्कर्ष निकालते हैं। संगीत के संस्कृत ग्रंथ प्रायः दुर्बोध हैं और अपने अपने मतानुसार विशिष्ट अर्थ निकालने के लिए विद्वद्गण प्राचीन ग्रंथवचनों को विकृत करते हैं। अतः प्रथमतः यह आवश्यक है, कि प्राचीन मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों का सरल भाषान्तर तथा विवेचन पाठकों के सामने रखा जाय। श्री० चैतन्य देसाई के यह प्रयत्न कुछ इसी दिशा में हैं, जिसे संगीतशास्त्र के जिज्ञासुओं को काफी लाभ होगा। संगीत का इतिहास आदि Musicology के विषय समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है।

मतंग के ग्रंथ की रचना सातवीं शताब्दी में हुई, ऐसा अनुमान है। भरतभाष्य बारहवीं शताब्दी का ग्रंथ है। रत्नाकर ने भरतभाष्य से पर्याप्त सामग्री ली है; रागप्रकरण में नान्यदेव स्वयं मत्स्य का श्लेष है।

प्रकाशनकार्य में खैरागढ़ विश्वविद्यालय का यह प्रथम प्रयत्न है। पुस्तक-प्रकाशनार्थ आवश्यक द्रव्य प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय को धेर प्रयत्न करने पड़े।

खैरागढ़ विश्वविद्यालय द्वारा संगीत के संशोधन का तथा ग्रंथप्रकाशन का कार्य उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, ऐसी आशा रखते हुए देवी सरस्वती के चरणकमलों पर शतशः प्रणाम अर्पित करता हूँ।

राजभवन

भोपाल

विश्वविद्यालयों द्वारा अपेक्षित कार्यों में संशोधन कार्य प्रमुख है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय द्वारा संगीत के संशोधन की एवं संगीत ग्रंथों के प्रकाशन की योजना बनायी गयी थी, जो संगीत के विकास के लिए श्रेयस्कारक है। उक्त योजना के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा यह प्रथम प्रकाशन हो रहा है। श्री० चिंचोरे जी ने इस प्रकाशन का यह कार्य अपने हाथ में लिया है।

इस पुस्तक की हिंदी टीका में अनेक ग्रंथकारों के तथा आधुनिक विद्वानों के मतमतान्तर दे कर संपादक ने प्राचीन संगीत के कई विषयों का विवेचन किया है, वह संगीत के अभ्यासकों को उपयुक्त प्रतीत होगा।

मुझे विश्वास है कि, भविष्य में खैरागढ़ विश्वविद्यालय संगीत के संशोधन तथा प्रकाशन के कार्य में अधिकाधिक प्रगति करेगा।

ह० वि० पाटसकर

## प्रस्तावना



सैरागढ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति डॉ० रातांजनकर जी ने संगीत ग्रंथों के प्रकाशन की योजना ई० स० १९५९ में बनाई तथा भरतभाष्य के संपादन का कार्य मुझे सौंपा। पूना के साहित्य-संगीत के एक रसिक श्री० सरदार आबासाहब मुजुमदार ने भरतभाष्य की एक प्रतिलिपि लगभग २० वर्ष पहले मुझे पढ़ने के लिए दी थी, उस समय से ही भरतभाष्य के प्रति मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ था। मेरे इस कार्य में मेरे मित्र पूना भा० ओ० रि० इन्स्टिट्यूट के भूतपूर्व क्युरेटर स्व० डॉ० गोडे रुचि लेते थे। दुर्भाग्य से वे इस पुस्तक का प्रकाशन देखने के पूर्व ही इस संसार से चल बसे।

डेव्हन कॉलेज डिक्शनरी विभाग (पूना) के उपसंपादक डॉ० पळसुले तथा संगीतशास्त्र के एक विद्वान प्रो० वा० ग० परांजपे, इन्होंने प्रेसकॉपी का प्रारंभिक अंश देख कर सुधार के सुझाव दिये। पुस्तक की प्रेसकॉपी तैयार करवाने से लेकर पुस्तक प्रकाशनार्थ द्रव्य एवत्रित करने तक का कार्य विश्वविद्यालय के विद्यमान उपकुलपति श्री. चिंचोरे जी ने अत्यंत सहृदयतापूर्वक किया। यदि उनका सहकार न प्राप्त होता, तो इस पुस्तक का प्रकाशन दुष्कर हो जाता। इंदौर के मेरे एक मित्र प्रो० य० रं० विप्रदास जी तथा निर्णयसागर प्रेस के अनेकभाषातज्ञ पं० नारायण राम आचार्य जी ने पुस्तक के संस्करण पाठ का शुद्धिपत्र बनाया। इन सभी विद्वानों के प्रति मैं अतीव कृतज्ञ हूँ।

विश्वविद्यालय के कुलपति तथा म० प्र० के राज्यपाल महामहिम श्री० इ० वि० पाटसकर जी ने इस पुस्तक के प्रकाशन में बारंबार प्रोत्साहन दिया तथा अपना आशीर्वाद प्रेषित कर पुस्तक की शोभा बढ़ायी, जिसके लिए मैं हृदय से उनका ऋणी हूँ।

मेरे इतने प्रयत्नों के बावजूद पुस्तक में अनेक त्रुटियों रही हैं, जिसके लिए मैं पाठकों से क्षमायाचना करता हूँ।

चैतन्य देसाई



# ग्रंथपरिचय



## नान्यभूपाल

भरतभाष्य का कर्ता नान्यभूपाल मिथिला ( विहृत ) का नरेश था । उसने मिथिला का शासन ई० स० १०९७ से ११२३ तक किया । ई० स० ९५० से १२५० तक का युग संगीत का स्वर्णयुग था । नान्यदेव, भोज, सोमेश्वर, परमर्षी, चार्दंदेव आदि संगीतशास्त्रकार इसी युग में हुए ।

भरतभाष्य के प्रत्येक अध्याय के 'इतिश्री' ( colophon ) में 'मिथिलेश्वर' 'मिथिलाधिप' आदि स्वयं का निर्देश नान्यदेव ने किया है । 'नान्य' यह 'नारायण' नाम का दक्षिणालय लौकिक संज्ञाप होगा, कारण प्रयत्नों ने स्वयं के नारायण नाम का भी कहीं कहीं उल्लेख किया है -

'गान्धारप्राममित्येवं राजनारायणोऽभ्यधात् ।' इ०, कहीं कहीं 'नायपति' नाम भी प्रयुक्त है -  
'श्रीनान्यपति क्षितेरधिपति' इ० ( गीताध्याय ) ।

नान्यभूपाल के ज्येष्ठ पत्नी का नाम नीतिराज था, जिसका निर्देश एक स्थल पर 'नीतिराजानु-जन्मना' इस प्रकार उपलब्ध है ।

## प्रथ का नाम

इस प्रथ का वास्तविक नाम 'सरस्वती हृदयाङ्गहार' है, जिसका निर्देश 'इतिश्री' में बारंबार आया है । कतिपय अध्यायों में 'सरस्वती हृदय भूषण' नाम प्रयुक्त है ( प० ८ ) । एतद् दो अध्यायों में केवल 'भरतभाष्य' नाम निर्दिष्ट है । प्रचार में भरतभाष्य नाम ही प्रसिद्ध है ।

## ग्रंथ की श्लोकसंख्या

प्रथ का कुल अक्षर गद्यात्मक है, उसे मिला कर श्लोकसंख्या लगभग ७००० होती है । विलुप्त दो अध्यायों की श्लोकसंख्या षेड हजार मानने से कुल श्लोकसंख्या आठ से नौ हजार तक हो सकती है । सा० शा० की श्लोकसंख्या सात हजार के लगभग है ।

## हस्तलिखित का स्वरूप

भरतभाष्य की पाण्डुलिपि भाण्डारकर ओरिएण्टल् इन्स्टिट्यूट ( पूना ) में सुरक्षित है । इसकी अन्य एक प्रति सौराष्ट्र में थी, जो लुप्त हुई, ऐसा औफ्रायन्ट का कहना है ।

प्रथ की प्रति बहुत ही जाँगी तथा स्पष्ट स्थल पर क्षणित है । अक्षर सुंदर तथा सुभावदार है । प्रत्येक पद में ११ पक्षियों और प्रत्येक पक्षि में ४० से ५० तक अक्षर हैं । लिपिकार मूल प्रति को समस्त ठीक प्रकार से पढ़ न सका होगा क्योंकि उपरोक्त हस्तलिखित प्रति अत्यंत अस्पष्ट है ।

भरतभाष्य में भरतोक संगीत का विवेचन निम्नरूप से दिया है, साथ साथ मतगोक रागों की चर्चा भी विस्तार से की है । प्रत्येक विषय अनेक उदाहरण दे कर समझाया है, फलतः कहीं कहीं पुनरुक्ति भी हुई है । भाषा शुभ्र तथा मधुर है ।

शिखाध्याय में नारदी-शिक्षा-तर्गत संगीतविवेचनात्मक सभी अक्षर नान्यदेव ने उद्धृत किये हैं, उनमें नारदीशिक्षा का प्राम् रागवर्णनात्मक श्लोक — 'इत्यस्यो निषाद स्यात्' भी अवर्तित है । ( प० ७९, ८६ ) । पाणिनीय शिक्षा के श्लोक नान्यदेव द्वारा समर्पित हैं ।

## ग्रंथ में उचित विज्ञेय विषय

नान्यदेव ने अन्य अनेक ग्रंथ-ग्रंथकारों के निर्देश इस ग्रंथ में किये हैं, उदाहरणार्थः— नृहल्कश्यप (५० १११), कश्यप (६७, ९६, ९७, ३०), विशाखिला (३६, १३८, १९६, १९८ ३०), नन्दि (२९०), यादिक (१०८, ११२, ११४), देवराज वा देवराज (६९, ७०, १३४), अर्चचार्य (१७०), अमिनवगुप्त (१८४ ३०), भगवतीपुराण (१३०), कालिदासपुराण (१३२), भागवत (१३८), रत्नकोश (१६९) इत्यादि

रागप्रकरण में नान्यदेव ने अधिकप्राय कश्यप तथा मत्तंग को उद्धृत किया है। उसके विवेचन में कश्यप का संदर्भ इस प्रकार दिया है :—

‘अस्माभिरतु कश्यपादिमी रागा अभ्यनुज्ञाता’ ॥ ५० ६७ ॥

मत्तंग के ग्रंथ का वाद्यध्याय उपलब्ध नहीं है, किन्तु उसका कुछ अंश नान्यदेव ने उद्धृत किया है।

रत्नाकर ने प्राचीन संगीत के कतिपय विषय संक्षेपित किये हैं या अव्यवहार्य समझ कर बिल्कुल हटा दिये हैं। उदाहरणार्थ प्राचीन ‘पुष्कर’ (पत्तवाज) का विवेचन रत्नाकर ने टाल दिया है :—

‘श्रोक्तं मृदङ्ग शब्देन मुनिना पुष्कर-त्रयम् ।

अल्पन्ताव्यवहार्यत्वात्तन्निःशेषो न तनोति तत्’ ॥ ६ । १०२५ ॥

इसी प्रकार रत्नाकर ने प्राचीन वीणा तथा वेणु का विवेचन संक्षेपित किया है, किन्तु यह विषय नान्यदेव ने विस्तार से दिया है।

प्राचीन संगीत के कतिपय विषय नान्यदेव ने दिये हैं, जिनका विवेचन रत्नाकरादि ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। प्रारंभ के केवल ७० पत्रों में आये हुए विशेष विषयों की सूची नीचे दे रहे हैं :—

- १ वज्रा, कौर्मो, अलावू आदि वीणाएँ (५० ४)
- २ तीनों प्रामों के स्वरों का अनुक्रम (१०, १४)
- ३ छुष्टादि सामिक स्वरों का पञ्जादि स्वरों से मेल (११)
- ४ चार स्वरों के राग (१५)
- ५ नासी-संघासी आदि स्वरमेदानुरासी ४ वर्ण तथा वासी अर्थात् स्थायी स्वर की व्याख्या (२०)
- ६ पाइजी जाति के स्वरसंनिवेश का विवेचन (२०-३०)
- ७ प्रह, अंश आदि के परिवर्तन से प्राप्त पाइजी जाति के १५ मेटों के उदाहरण (२४-३४)
- ८ प्रहादि के परिवर्तन द्वारा प्राप्त पक्षमी-कम्बल के प्रकार (६२)
- ९ वीणादि श्रुतिजातियों के रस
- १० प्रामरागों के एवं गीतों के ऋतु (७६, ७७)
- ११ राग की परिभाषा (७७)
- १२ रागों के नामकरण का उद्देश्य (७७)
- १३ प्रामराग, भाषाराग आदि की परिभाषा तथा उद्देश्य (७७)

तदुपरान्त प्राचीन ध्रुवांगीत, ऋक्, गाय, असंख्य देवी गीत, एला आदि के एवं प्राचीन साल के विपुल उदाहरण; प्राचीन पणव, दुर्दुर आदि वाजों का वर्णन, प्राचीन बँगुरी के नाप, श्रुतिसंख्या के अनुसार रन्प्रान्तर तथा वादन की रीति इत्यादि विषय भरतभाग्य में विधेयित हैं। सारांश, प्राचीन

संगीत के अभ्यासकों के लिए भरतभाष्य ग्रंथ अत्यन्त महत्त्व का है। साहित्यशास्त्र के संस्कृत टीकाकारों ने भरतभाष्य से कुछ अंश उद्धृत किये हैं, उससे अनुमान लगा सकते हैं, कि भरतभाष्य का महत्त्व उस समय के संस्कृत साहित्यकार भी मानते थे।

पूना-संपादकोक्त अध्याय-क्रम

ख० डॉ० गोडे ने भरतभाष्य के विषय में B. O. RI., Cat., Vol. xii में एक लेख संक्षेप में लिखा है, उसी लेख में श्री० एम० आर० कवि के लेख का सारांश भी उद्धृत किया है। ख० डॉ० गोडे के मतानुसार अ० ८, ९ तथा १० की संयति लगती नहीं है तथा अ० १७ बौं छत है। इ० लि० के संप्रहर्ता की टिप्पणी 'Incomplete, 16th and 17th Chapters wanting' इस प्रकार है। डॉ० गोडे ने अध्यायों का विन्यस्तित्व बता कर तर्क किया है:— 'Presuming that Chapters 8, 9 and 10, which we are unable to account for, are really missing, if the English endorsement is correct' ग्रंथ में वेणु-वादन का विषय दिया नहीं है, ऐसा भी उन्होंने लिखा है:— 'The work gives full information except on Flute' (p. 379). परन्तु उन्होंने उद्धृत किये हुए श्री० कवि के लेख में 'Folios 195-201, Chapter XII सुपिराध्यायः' तथा 'Chapters—12th वीणा and flutes' स्पष्ट हैं। डॉ० गोडे ने अध्यायों का क्रम निम्नानुसार दिया है:—

पत्राङ्क	अध्याय	अध्याय का नाम
२-५	१	प्रथमोऽध्यायः
५-८	२	द्वितीयः
८-१२	३	तृतीयः
१२-१७	४	चतुर्थः
१७-१९	५	पाञ्चमः
१९-१११	६ (IV?)	षष्ठः
१११-११६	७	सप्तमः
११६-११९	८	अष्टमः
११९-१२१	९	नवमः
१२१-१२५	१०	दशमः
१२५-१२९	११	एकादशः
१२९-१३१	१२	द्वादशः
१३१-१३२	१३	त्रयोदशः

उपरोक्त के अनुपात क्रम बता के अन्त में निष्कर्ष निकाला है कि:— 'इस प्रकार केवल १३ अध्याय ही प्राप्त होते हैं। अ० ७ में तक गणवर्षी प्रतीत नहीं होती; परन्तु ११ में अध्याय के अन्त में 'तालाध्यायः चतुर्दश' इस प्रकार निर्देश आता है, तदनुसार अ० ११ में जो १४ बौं, १० में जो १२ बौं इत्यादि प्रतिलोम गणना करने पर स्पष्ट होता है, कि अ० ८, ९ तथा १० छत हैं।'

## श्री० कवि-प्रणीत अध्याय-क्रम

Chapters 1 to 4 खर, श्रुति, ग्राम, मूर्च्छना

and ताल s

× 5 th wanting (अलंकारs)	
6 th	- जाति
7 th	- of रागs
8 th	- सङ्गीत
9 th	- धृवाs and धृवा-तालs
& 10 th	
11 th	- देशी रागs
12 th	- वीणाs and Flutes
13 th	
& 14 th	- मृदङ्ग, पणव and दर्दुर
× 15 th	
& × 16 th	- (Missing)

सारांश श्री० कवि जी के मतानुसार भरतभाष्य के कुल १६ ही अध्याय हैं, जिनमें से दो छत हैं।

## नान्यदेवदृत अध्याय-सूची

नान्यदेव ने प्रथम अध्याय में विषयसूची की है, अतः उसके अनुसार ह० डि० के पत्र पढ़ कर अध्यायों का क्रम लगा सकते हैं, किन्तु यह कार्य इतना सरल नहीं है, कारण कतिपय अध्यायों के अन्त भागे पीछे के अनेक अध्यायों के साथ मिथ हो गये हैं, पर्याप्त देखने से उनका क्रम जगता नहीं है। द्रष्टे भी अधिक यह है, कि मिथ अध्यायों की इस संकीर्णता के अनुसार किसी धृष्ट लेखक ने नान्यदेवोक्त सूची में भी हस्तक्षेप कर क उसको उसी तरह विपर्यय कर डाली है।

भरतनाट्यशास्त्र में नाट्य-संबन्धित अनेक विषयों की चर्चा आयी है, उसमें नाट्य, नृत्य एवं गीत-वाद्य प्रमुख हैं। नाट्य तथा नृत्य के विषय अभिनयात्मक अर्थात् आङ्गिक हैं, एवं वैव भूवादि वा विषय 'वाच्य' हैं। अवशिष्ट तृतीय अवयव गीत वाद्य तथा उसके आनुबन्धिक छन्द इत्यादि विषय साहित्यानुगामी अतएव 'वाच्य' अन्त कहलाते हैं। भरतभाष्य वा क्षेत्र इस वाच्यिक अन्त तक संबोधित है -

'अध्यायै मतदसभिरपेडसिन्धु मरिष्यते ।

सात्र ताल्पय वैव साहशरं च वाचिसु ॥'

नान्यदेव ने सूची में कुल १७ अध्यायों के विषय बताये हैं, उदाहरणार्थ -

१. 'अलिंस्तु प्रथमाध्याये उरैःसाट्ये विधास्यते ।

.....रपाध्याये समुहैरे यथाक्रमम् ॥

आनोपस भिदा .. ...गीनय्य शुभशेषयो ।

कण्डम्य शुभशेषी च यराने गदमन्गया ॥

२. अध्याये तु द्वितीयेऽत्र दिसाट्ये कपदिभ्यते ।

कर्ण-त्रादि-भने रात्रि-देव..... ॥

इत्यादि, जो इस पुस्तक में प्रथमाध्याय को देवने से ज्ञात हो सकते हैं। नान्यदेवोक्त सूची में निर्दिष्ट अध्यायों का क्रम निम्नप्रकार है:—

१ उद्देशाध्याय, २ शिक्षाध्याय, ३ स्वराध्याय, ४ मूर्च्छना-तानाध्याय, ५ अलङ्काराध्याय, ६ जालध्याय, ७ रागोत्पत्त्याध्याय, ८ सप्तगीतराध्याय, ९ भुवाध्याय, १० तालाध्याय, ११ देशिकाध्याय, (१२ सुविराध्याय), १२ तालाध्याय, १३ सुविराध्याय, १४ तथा १५ पुष्कराध्याय, १६ छन्दोऽध्याय, १७ भाषाध्याय

हस्तलिखित में अ० १६ तथा १७ वॉं छुट हैं। ३ शुल्लघ्यान तथा ४ मूर्च्छनाध्याय अनेक पत्रों में बिखरे हुए अन्य अध्यायों के साथ युक्तमिल गये हैं, जैसा हमने टीका में स्थल स्थल पर स्पष्टीकरण कर के बताया है।

नान्यदेवोक्त सूची के अनुसार प्रायः सभी अध्यायों के विषय ठीक प्रकार से मिलते हैं, किन्तु सूची में तालाध्याय में गडबडी है तथा १३ वें 'सुविराध्याय' का निर्देश दो बार आया है। सूची में तालाध्याय को १० वॉं तथा १२ वॉं बताया है, परन्तु ह० लि० में १२ वॉं वीगाध्याय ठीक तरह से उपलब्ध है, अतः तालाध्याय का क्रम १० वॉं ही होना चाहिए। यह अध्याय खण्डित है तथा अधिम ११ वें अध्याय के साथ मिलिा हो गया है। ११ वें देशिकाध्याय में भी तालों का वर्णन है, अतः १० वें तालाध्याय को अलग निकालना दुष्कर है। ह० लि० में ११ वें अध्याय के आगे १० वें अध्याय का अंश जोड़ा गया है, शायद उसको देख कर प्रक्षेपक ने सूची में भी 'ततस्तु ह्यदनाध्याये तालाख्ये ऋषयिष्यते।' इत्यादि लिख डाला।

अ० ११ वें तक के क्रम का निर्देश भरतभाष्य में अन्य दो स्थल पर आया है, उसके अनुसार भी १० वॉं तालाध्याय एवं ११ वॉं देशीगीतराध्याय इस प्रकार क्रम निश्चित होता है:—

(१) '.....रागोत्पत्ति निवेदिता।

तेषु रागेषु 'गीतानि मन्नाद्युक्तानि तानि तु ॥

तथा शुंवल्लिधाथैव 'देशी-गीतानि सर्वशः।

तालैर्नानाविधैर्युक्तान्यत्र गेयानि तानि तु ॥' (प० १९०)

इनके पूर्व के श्लोक छुट हैं। उपरोक्त श्लोकों में अध्यायों के विषय बताये हैं, तदनुसार अ० ७ = 'रागोत्पत्ति'; ८ = 'सप्तगीतानि'; ९ = 'भुवा', १० = 'लघु' (तालाः) एवं ११ = 'देशी-गीतानि' इस प्रकार ७ वें अध्याय से ११ वें अध्याय तक का क्रम स्पष्ट होता है। इसके आगे के श्लोकों में तृतीय से दशम अध्याय तक का क्रम निर्दिष्ट है, जिसके अनुसार १० वॉं तालाध्याय निश्चित होता है:—

'शुल्लघ्याये च तानाख्येऽलङ्काराध्याय एव च।

जालध्याये रागोत्पत्तौ सप्तगीत-विधौ तथा ॥

भुवाध्याये लापे (मार्ग-)-देशी-तालधोरपि च द्वयोः।

प्रोक्तं कठेन यद् गानं त्व-ध्याये दशमे तिवम् ॥' (प० १९०)

इन श्लोकों में कठ-सगीत से संबंधित विषयों की ही गणना अभिप्रेत है, अतः प्रथम अध्याय उद्देशाध्याय का तथा द्वितीय शिक्षाध्याय का नामोल्लेख नहीं किया गया है। उपरोक्त श्लोकों की तृतीय पंक्ति में 'भुवाध्याये लापे देशी' वचन में 'लापे' अशुद्ध है, उसके आगे 'तालयोः' शब्द है, अतः 'लापे देशी-तालयोः' को 'मार्ग-देशी-तालयोः' इस प्रकार पठना ठीक रहेगा। इन श्लोकों में बताया हुआ क्रम:—अ० ३ = 'शुल्लघ्याय', ४ = 'ताना-(मूर्च्छना)-ध्याय', ५ = 'अलङ्काराध्याय'; ६ = 'जालध्याय'; ७ = 'रागोत्पत्त्याध्याय'; ८ = 'सप्तगीतराध्याय'; ९ = 'भुवाध्याय' तथा १० = 'तालाध्याय' इस प्रकार निश्चित होता है।

ह० लि० के प्रारंभ के पत्र पुंडरीकविठ्ठल-हन सद्गुरुचन्द्रोदय के हैं, जो भरतभाष्य के साथ लिपिकार ने जोड़ दिये हैं, अर्थात् भरतभाष्य का प्रारंभ का अंश छुट है। उसी प्रकार अन्तिम १९ वॉं तथा १७ वॉं, दोनों अध्याय विलुप्त हैं।

## १ से ५ तक के अध्यायों के विषय

प्रस्तुत ग्रंथ की पाण्डुलिपि के मूकम अभ्ययन से ज्ञात होता है, कि इसकी प्राप्त प्रति में ( या हो सकता है कि इसके पूर्व की प्रति में ) कई पृष्ठ संभवतः वशात् आगे पीछे लिये गये हैं, तथा इस भ्रांति के कारण कई अध्याय किसी दूसरे अध्याय में कहीं कहीं एक बार तथा कहीं कहीं एक से अधिक बार छुलनित गये हैं । संक्षेप में जो अध्याय हम विच्छात समझते आये हैं, वे सभी आगे पीछे के अध्यायों द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं । इसी दृष्टि से अनुसंधान करते हुए अध्यायों का जो सिलसिला हमें शीक लगा, वह प्राप्त हुए प्रमाणों के साथ आगे दे रहे हैं ।

१ : उद्देश्याध्याय :— इस अध्याय का प्रथम पृष्ठ खो गया है, तथा किसी अज्ञ लिपिकार राजन ने पुंडरीक चिह्नल के 'सद्रागचन्द्रोदय' से 'यथाकारैर्विरचित-वपुः' आदि २५ श्लोक ज्यों के सों उतार कर भरतभाष्य ग्रंथ का प्रथम पृष्ठ तैयार किया है । प्रथम अध्याय का प्रारंभ धात्वय में प० २ पर..... 'ध्वनि सम्बन्ध गीतिप्रयोगतः ।' यहाँ से प्रारंभ होकर प० ५ पर 'अयमुद्देश्याध्यायो रचितस्त्वेनेद नान्यदेवेन । इति महातामन्ताधिपति.....नान्यपतिविरचिते सरस्वती-हृदय-भूपणे भरतभाष्ये प्रथमोऽध्यायः ( समाप्तः ) ।' इस वाक्य के साथ समाप्त होता है ।

२ : शिक्षाध्याय :— प० ५ पर लिये हुए " अध्याय ( -ना ) समुद्देशो.....। पूर्वाध्याये प्रदर्शितो ॥ १ ॥ इदानीं वल्ल ( न- ) निष्पत्तिमुत्पत्ति-स्थानमेव च । ध्वनि स्वरादिव वक्ष्यामि शिक्षा- ( -क्षा- ) विस्तारमेव च ॥ २ ॥ "

इन श्लोकों से प्रारंभ होकर प० ८ पर " इत्येवं कश्चिन्तः सर्वैः शिक्षायां विस्तरो मया ।"..... "स्वर्गीभिर्गुणैः-बलयावनन्द-नश्यात् ।.....इति महातामन्ताधिपतिः..... भरतभाष्ये शिक्षाध्यायो द्वितीयः समाप्तः ॥ - ॥ " इन श्लोकों के साथ समाप्त होता है ।

३ : श्रुत्यध्यायः— प० ८ के अंत में " उदात्त-वादि... देवैः ( ? ) लक्षण च ( लक्ष्यानि ) सतो ध्वनेः ।" आदि श्लोकों से प्रारंभ हो कर प० १२ के प्रारंभ में—

" यतोभिः शोभन्ते सरतुः ( सरदि ? ) यमोन्मीलदमल ।" आदि श्लोकों के साथ समाप्त होता है । इस अध्याय के कई श्लोक सातवें अध्याय में पुनर्द्वय दिये गये हैं, जैसे कि— श्लोक ५६-५८; ८५; ८७-९७; १०१-११९ आदि । प० ६७-६८ पर सातवें अध्याय में श्लोक १८, १९, ३५, तथा ५१-५५ ये सब दोहराये गये हैं । सातवें रागाध्याय के प्रारंभ में प० ६४ पर

'पूर्वाध्याये स्वरादीनां निष्कष्यादि प्रकीर्तितम् ।

अतः संक्षेपतरस्तेषां किंचिदत्र निरव्यये ॥-॥ '

ये श्लोक दिये हैं; किन्तु यह संक्षेप उसके विस्तार से इतना अधिक है कि उस पर विश्राय करना ही कठिन है ।

४ : मूर्च्छनाध्यायः— प० १२ के प्रारंभ में १२ श्लोकों के पश्चात् इय अध्याय का प्रारंभ होता है—

" इदानीं प्राममेदेन मूर्च्छनामवस्थितिः ।

रामाधिदेवता चार्था ( ? ) यदावदुत्तरीर्यते ॥-॥

यह इस अध्याय का प्रारंभिक श्लोक है । प० १७ के मध्य में इसकी समाप्ति—

" एवम् प्रामप्रये..... न विस्तारितमकेन ।

तानानागतुत्थेमेन सेषमेव-मनीषिभिः ॥-॥ इति ॥

संप्राप्त-प्रतिरात्रमहसययो मूर्च्छनामवस्थिति-

प्रामोदगीत-गुणोद्देशो रिति इति प्रोतालराज-ध्वनिः ॥ "

आदि श्लोकों के पदवाच "इति.....तानाध्यायः समाप्तः" इस प्रकार की गई है । अतः इस अध्याय को हम "मूलतः-तानाध्याय" कहना उचित समझते हैं ।

सातवें अध्याय में इस अध्याय के बड़े श्लोक पुनश्च दिये गये हैं । विशेषतः मध्यमग्रामिक एवम् गान्धारग्रामिक तानविषय के "प्रत्यारकोऽयं पैशाचो जीवः सायिज एवच ।" से ले कर—

"तानाः पंचदशैर्वर्ते गांधारग्राम-संधिताः ॥" तक के श्लोक उदाहरण के स्वरूप दिखाये जा सकते हैं । उसी प्रकार से ७ वें अध्याय में पं० ६६ के मध्य से पं० ६७ के मध्य तक तान प्रकरण के—

"अथ तानाः—

तन्वन्तीश्च त्वरान् यन्मातानारतेन प्रकीर्तिताः । .....

ऊन-विंशति-साहस्री तानाः स्युः समुदायतः ॥"

इन श्लोकों तक का वर्णन, तथा अन्य २० श्लोक सातवें अध्याय में अनावश्यक ही हैं । इनके आगे श्रुतिविषयक श्लोक पुनरुक्त हुए हैं ।

५: अलंकाराध्यायः—पाण्डुलिपि में इस अध्याय के बारे में बहुत ही धांधली हुई है । ६ वें अध्याय जात्यध्याय में पं० ७३ पर विहृत जातियों का वर्णन करते समय बीच में पं० ७४ पर अचानक—

"वर्णा एव हि जातीनां देहा इत्यभिधीयते ।

अलंकाराय तद्वक्ष्ये वर्णानामेव लक्षणं ॥ १ ॥

आरोही चावरोही च स्वायि-सुचारिणां तथा ।

वर्णाश्रन्वार एवेतेष्वलंकारान्मनाध्यायः ॥ २ ॥"

आदि पाँच श्लोक न मालूम क्यों हटा दिये और उनके आगे विहृत जातियों का वर्णन पिट से

"पैवलामूलपंवाशद् भेदा उष्ण मनीषिभिः ।"

इस प्रकार से प्रारंभ दिया गया है । आगे के २५ श्लोकों में नैपाथी, पद्मत्रैशिकी, पं० ३०, पं० ३१, गान्धारी एवम् मध्यमा इन जातियों का वर्णन करने के पश्चात् पं० ७४ के अंत में—

"मध्यमायां भवत्यंशा मिला-गान्धार-सप्तमी ।

.....योहास्यं (यादवे) चाथ गान्धारै वतीत्यं तु प्रयत्नतः ॥-॥"

इस श्लोक के पश्चात्—

"(पद्म-मध्य- )वर्णास्त्वैते प्रकीर्तिताः ।

अथ वर्णशब्देन गीतिरभिधीयते । नाक्षर-विदोषाः ॥

.....नाऽपि पद्मादि-सप्तस्वराः ।

.....तथा च भरतः ।

प्रथमा मागधी तत्र द्वितीया चार्धमागधी ॥"

आदि १०-१२- श्लोकों में 'मागधी,' 'शुद्धा' एवम् गीतियों का वर्णन किया है तथा उनके आगे—

"अतस्तदाभया अलंकारा उच्यन्ते :—

नि वृत्रितमलेकारमदिनं विदुरेव च ।

प्रेङ्गोलिखमथाक्षिप्तं विपूता-रिते तथा ॥-॥"

आदि १२ श्लोकों में अलंकारों का विवरण दिया गया है । पं० ७५ पर इनके आगे ही गमकों का वर्णन—

"गमस्यनामत्रो षड्ये नाम-स्वराय-संयुतं ।

रजुरितं चरितं स्वीने त्रिरियान्दोऽपि तया ॥-॥"

आदि छान श्लोकों द्वारा किया है ।

“रसार्च्छन्दासि देवाथ ये चास्मिन् गीतके स्थिताः ।”

आदि ३२ श्लोक राग, छंद, एवम् गीति के रस, देवता तथा काल आदि के वर्णनात्मक पं० ७६-७७ के प्रारंभ में दिये हुए हैं :—

“यस्य यस्य तु रागस्य या या भाषा प्रकीर्तिता ।

तस्य तस्यैव यः कालः स तासामपि कीर्तितः ॥—॥

अपां (?) श्रेयो विज्ञेयाय कालस्य नियमः स्मृतः ।

गीयते सर्वकालेषु सर्वा निस्त्रासं-सिद्धये ॥—॥” इ०

इस अध्याय के अंतिम श्लोक विलुप्त हैं, क्योंकि उपरोक्त “गीयते सर्वकालेषु...” के आगे,

“अत्र श्रुतिस्वरग्राम-मूर्च्छना-तान-जातयः ।

सालङ्कारा लयमत्ताः पूर्वं तु गदिता मया ॥”

आदि श्लोक प्रारंभ होते हैं । मेरी संमति से इन श्लोकों का स्थान ७ वें अध्याय के प्रारंभ में होना आवश्यक था । इसका विवेचन आगे किया जायगा । पाठवें अध्याय में भी गई सूची के अनुसार—

( १ ) अलंकार, ( २ ) वर्ण, ( ३ ) गीति, ( ४ ) स्वरार्थ, रसभेद से प्राप्त काकु भेद, ( ५ ) वादी संवादी श्रुतियों की कल्पना ( ६ ) गीत-वस्तु के अंग, ( ७ ) गायक, इतने विषयों का समावेश प्रस्तुत अध्याय में होना आवश्यक था; किंतु इस अध्याय में क्रमांक ( ४ ), ( ५ ) तथा ( ६ ) इन विषयों को समाविष्ट नहीं किया गया है । जैसे काकु का विवेचन ९ वें अर्थात् षड्वाप्याय में पं० १४२ पर तथा पं० १४३ के कुछ अंश तक किया गया है । “द्विधा काकु साकार्ष्णं निराकार्ष्णम् च ॥” आदि श्लोक उसके दर्शक हैं । इसके विपरीत षड्वाध्याय की सूची में, “कापूनां विनियोगथ तदंगाल्लुक्तिस्तथा” इस प्रकार काकु-वर्णन के दर्शक श्लोक होते हुए भी यही वर्णन दो-तीन अध्यायों में उनकी विषयसूचि के अंतर्गत दिया गया है । यह भूल प्रथमज्ञा ही है, यह मानने की अपेक्षा इसे लिपिकार की भूल मानना मैं उचित समझता हूँ । संक्षेप में अध्यायों के विषय देख कर किसी अन्य व्यक्ति ने ये श्लोक रचे हैं । अन्य नई अध्यायों में भी इसके प्रमाण मिल सकते हैं । अस्तु ।

इस प्रकार एक से पाँच अध्यायों के विषय तथा उनका क्रम एवं संबन्ध हमने ऊपर बताया है ।



## संदर्भ—ग्रंथों की सूचि तथा संकेत

### I.

- Aa.—Aine-Akbari (आयने-अकबरी).
- Ab.—अष्टाविन्दु उपनिषद्
- Acoust.—Musical Acoustics, by Thorvald Kornerup.  
(ad.—अव्यार संस्करण)
- Anc. Arab. M. Instru.—Ancient Arabian Musical Instruments, by Robon & Farmer.
- Anc. Ind.—Ancient India, by R. C. Majumdar.
- Artx.—Harmonics of Aristoxenus, by Macran.
- B.—भारतनाट्यशास्त्र
- B. B.—भरतभाष्य
- B. K.—भारतनाट्यशास्त्र निर्देशभाष्य संस्करण, का.पाठ  
(Bn.—यनारण संस्करण)
- Cult. Art. Ind.—Culture and Art of India, by Radha Kamal Mukerji.
- Catg. Mus.—Catalogue of Stearn's Collection of Musical Instruments, by Stanley.
- D.—दक्षिण
- D. C. M.—Discriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts, Madras oriental Library.
- Drama.—Sanskrit Drama, by Keith.
- Encyclo. Mus.—Encyclopédie De La Musique -Part I (Paris-1913).
- Fx.—Music of Hindostan, by Fox Strangways.  
(G.—गाना 'पासुरे'-संस्करण)
- H.—The Sensations of Tone, by Helmholtz
- H. Arab. M.—History of Arabian Music, by H. G. Farmer.
- Hin. Cult.—Fundamentals of Hindu Faith and Culture, by R. S. Aiyar.
- Hist. Fact. Arab.—Historical Facts for the Arabian Musical Influence, by Farmer.
- H. M.—History of Music, by stafford,

- H. ....n.—Notes, by Ellis to the Sensations of Tone.
- Instru.—Guide to the Collection of Musical Instruments exhibited at the Calcutta Musium, by Dr. A. M. Meerworth.
- Khus.—Life & works of Amir Khusrao, by Dr. M. M. Wahid.
- Lg.—Babylonian and Hebrew Musical Terms, by S. Langton, (journal of R. A. Society, London -1921).
- M.—सतंग ( -सुद्धेशी )
- Mus. Anc. Nat.—Music of the Most Ancient Nations, by Engel.
- M. Arab.—Music & Musical Instruments of the Arabs, by Salvador-Daniel) (H. G. Farmer).
- M. Instru. Arab.—Arabian Music and Instruments, by Farmer.
- N.—नारदी शिक्षा
- Philmus.—Philosophy of Music, by Alexander Wood.
- Phymus.—Physics of Music, by Lord.
- Pp. S.—पुष्पसूत्र ( 'पुष्पसूत्र' ), by R. Simon.
- P. S.—पाणिनीया शिक्षा
- Psymus.—Psychology of Music, by Seashore.
- R.—संगीतरत्नाकर
- S.—संगीतसमयसार
- Sound.—Text-Book of Sound, by Edmund Catchpool, (1917)
- Study. Mus.—Studies in the Theory of Indian Music, by E. Clements. (1913)
- Sumer. Mus.—The Music of the Sumerians & Their Immediate Successors the Babylonians & Assyrians, by Francis W. Galpin.
- Tg. C.—Hindu Music by Various Authors, by S. M. Tagore (1875).
- Tre.—त्रैलोक्य ( याज्ञवल्क्य )
- Ved. Age.—Vedic Age, by R. C. Majumdar etc.
- Ys.—याज्ञवल्क्य शिक्षा

## II.

- अ० — अमरकोष
- अ० प० — अनुपचं ( महाभारत )
- अ० वे० — अथर्ववेद
- अष्टा० — अष्टाध्यायी
- भौ० — 'प्रणव-भारती' ( पं० ओंकारनाथ-रत्न )
- न० प्रा० — ऋग्वेद प्राविशाख्य

प्रा० वे० — प्राग्नेद

ऐ० आ० — ऐनरेय व्याख्यक

क० — कङ्किनाय ( टीका )

का० — का-पाठ, भरतनाट्यशास्त्र, निर्णयसागर संस्करण

गो० वा० — गोपब्र ब्राह्मण

च० ख० — चतुर्ध्यायी

ता० प्रा० — ताण्ड्य महाब्राह्मण

सै० प्रा० — सैन्धवीय प्रातिशाख्य

प्रे० ख० — प्रैखर्य ( याज्ञवल्क्य )

द० — दत्तिलम्

ना० शा० — भरतनाट्यशास्त्र

ना० सि० — नारदी सिद्धा

( पट० — पटवर्धन ल० ग० )

प० म० भा० — पतञ्जलि-महाभाष्य

पा० — पाणिनि ( श्रुत्याध्यायी )

फु० सू० — फुल्लम्ब ( ' युष्मत्सूत्र ' )

दृ० — ' भरत का संगीत सिद्धान्त ' ( पं० कैलासचन्द्र-देव-वृत )

वृ० दे० — वृहद्देवी ( मत्तंग )

वृ० देव० — वृहद्देवता

भ० ना० — भरतनाट्यशास्त्र

भा० सं० — ' भारतीय संगीत ' ( पं० मुळे-वृत )

भात० क० — ' हिन्दुस्थानी संगीत पद्धति ' क्रमिक मुलक मासिका

म० भा० — महाभारत

मा० सि० — माण्डूकी सिद्धा

मु० — ' भारतीय संगीत ' ( पं० मुळे-वृत )

म० वा० सं० — मनुष्येक्षित नात्रमनेय सद्धिता

रु० — रूपमाला

बा० प्रा० — बाजसनेय प्रातिशाख्य

शो० — शोभाकर ( टीकाकार )

सं० क० सि० — ' संगीत-कला-विहार ' मासिक

सं० र० — संगीत-रक्षाधर ( शारङ्गदेव )

सं० स० सा० — संगीत-पत्र-सार ( पार्थसरेव )

सा० नि० मा० — सामविधान ब्राह्मण

सि० — सिद्धमूला ( टीकाकार )

## III. अध्याय आदि के संकेत

- अ० — अध्याय  
 अनु० — अनुवाक  
 कं० — कण्डिका  
 क० — कमाङ्क  
 टी० — टीका  
 स्प० — स्पष्टीकरण  
 वि० प्र० — विषय-प्रवेश  
 ह० लि० — हस्तलिखित ( भरतभाष्य )

## IV. स्वरों के संकेत

- c: सेण्ड्स  
 n: Natural ( वैज्ञानिक )  
 r: ratio, अनुपात ( गुणोत्तर-प्रमाण )  
 v. Vibrations, कंपन-संख्या  
 अ० का० — अन्तर-काकली  
 कै० — कैशिक  
 हिं० — हिंदुस्तानी ( उत्तर-भारतीय )

## V. निम्न-कोष्ठस्य संकेत

- Ad: उद्धृत ( Adopted )  
 F: संदर्भ ( Reference )  
 M: मूल पाठ ( ह० लि० का )



[ प्रकरण-क्रमः दृष्टाहैः; विषय-क्रमः श्लोकैर्दृशितः । ]

अ० १; प्र० १-( १-३ ) संगीतस्य महती १-१०;

प्र० २-( ३-८ ) लघ्यायेषु विषय-क्रमः ११-६६

प्र० ३-( ८-११ ) वार्यं चतुर्विधमष्टविधं च ६७-७१; द्विविधस्तालः ७२; मानवी दारवी च वीणा ७३; दारवी-वीणायां श्रुति-स्वरादि-समवायः ७४-७५ शारीर-वीणायां समवायः ७६; शारीर-वीणायां श्रुत्यादीनां समवायो नास्ति ७७; दारवी-वीणायाः प्रद्योता ७८-८३; वीणाया अङ्ग-प्रलङ्गानि ८९-९०;

प्र० ४-( ११-१५ ) नारदोक्ता गीत-दोषाः ९१-९८ भरतोक्ता गीत-दोषाः ९९-१०३; कण्ठगुणाः १०४-१०८; गान्धर्वगुणाः १०९-११५

अ० २; प्र० १-( १५-१६ ) शिक्षायाः प्रयोजनम् १-३; वर्णानां लक्षणम् ४; 'शिक्षा'-शब्दस्य निरुक्तिः ५; वर्णस्य प्राधान्यम् ६-८; वर्णोत्पत्तिः; ९-१२ वर्णानां संख्या, मेधाश्च १३-१५;

प्र० २-( १७-२१ ) वर्णानां शरीरे स्थानानि; १७-२८; स्पर्शादयः २९-४१; भ्रमलः ४२-४४; सावर्ण्यम् ४८-५२; अनुनादिनः श्वासाश्च ५३-५६;

प्र० ३-( २१-२२ ) कालस्य लक्षणम् ५७-५९; हस्त-वीर्यादयः ६०-६७; काल-प्रमायः ६८

प्र० ४-( २३-२७ ) 'स्वर'-शब्दस्य निरुक्तिः ६९; उदात्तादयः स्वर-मेधाः ७०-७३; सामिकाः स्वराः ७४; सन्नतर-विक्रष्टादयः स्वराः ७५-८०

प्र० ५-( २८-४७ ) उदात्तादि-स्वरेभ्यः षड्जादि-स्वराणामुत्पत्तिः ७९-८१; 'वर्षेर्निपाद-गान्धारी' ८२-८६; षड्जादि-स्वराणां क्रुष्टादिभिः सह साम्यम् ८७; सामिक-स्वराः प्रथमादयो वेणौ मन्थनादयः ८८-८९; सामिक-स्वराणां शरीरे स्थानानि ९०-९१

प्र० ६-( ४८-५६ ) उदात्तादीनां षड्जादीनां चान्दुक्ति-स्वराणां ९२-९७;

प्र० ७-( ५७-६२ ) षडस्य लक्षणम् ९८-१०३; शब्दो नित्यानित्यौ १०३-१०८; वर्णानामुत्पत्ति-प्रकारः १०९-१२०

अ० ३; प्र० १-( ६३-७१ ) स्वराणां वर्णाः १-६; स्वराणां छन्दोवि ७-१०; दैवतानि ११-१७; मयूरादीनां कन्दने षड्जादयः स्वराः १८-२१; ईशादीनां प्रियाः स्वराः २२-२३; स्वराणामुत्पत्ति-स्थानानि २४-३१

प्र० २-( ७२-७६ ) ग्रामाणां लक्षणम् ३२-३८; प्रतिग्रामे स्वर-क्रमः १९-४४; ग्रामाक्षय एव ४५-५३; गान्धारग्रामस्यानुपलब्धिरपेक्षता च ५४-५६

प्र० ३-( ७६-८१ ) ष० ग्रामे स्वराणां श्रुतिसंख्या ५७-५९; म० ग्रामे श्रुते-विवर्त्यः ६०-६२; गान्धारग्रामे श्रुति-संख्या ६३-६६

प्र० ४-( ८२-८६ ) ष० ग्रामिकं स्वर-चक्रम् ६७-७१; म० ग्रामिकं स्वर-चक्रम् ७२-७५; गान्धारग्रामिकं स्वर-चक्रम् ७८-८०

प्र० ५-( ८६-१०४ ) 'श्रुति'-शब्दस्य निरुक्तिः ८२; श्रुतीनां पञ्च ज्ञानयः ८३-८७; स्वरेषु वीतादीनां विन्यासः ८८-९२; श्रुतीनां नामानि, जातयश्च ९३-९५; तासां षड्जादिषु क्रमः ९६-११३;

- म० ६-(१०५-१०६) खरलोपे श्रुतिलोपः ११४; पञ्जप्रामे लोप्याः श्रुतयः ११५-१२३  
म० ग्रामे लोप्याः श्रुतयः १२४-१३१; गान्धारग्रामे लोप्याः श्रुतयः १३२-१३३
- म० ७-(१०७) दीप्तादि-श्रुतिर्जातीनां रसेषु विनियोगः १३४-१३५
- म० ८-(१०८-११०) काकत्वतन्त्रयोः श्रुति-व्यवस्था १३६-१४२; त्रिविधं साधारणम्  
१४२-१४३; साधारणौ पक्षपैमथौ १४४-१४५; म० ग्रामे खर-साधारणम् १४६;  
गान्धारग्रामे खर-साधारणस्य निषेधः १४७; साधारण-विषये क्षारस्वोदाहरणम्  
१४८; घटाकाशस्योदाहरणम् १४९; साधारणस्य विषये भरतस्य वचनम् १५०;  
दत्तिलस्य वचनम् १५१-१५२
- अ० ४; म० १ -(१११-११५) 'मूर्च्छना'-संज्ञाया निरुक्तिः २; चतुर्विधा मूर्च्छना ३; ग्रामत्रये  
मूर्च्छना एकविंशतिः ४-५; ५० ग्रामे सप्त मूर्च्छनाः; तासां खर-क्रमः ६-१५;  
म० ग्रामे मूर्च्छनासु स्वर-क्रमः १६-२४; गान्धारग्रामे मूर्च्छनाः २५-२७;  
मध्यमोऽलोप्यः २८; नारदोक्त-मूर्च्छनानां ३५-४१
- म० २-(११५-१३४) ५० ग्रामे मूर्च्छनानां खर-संनिवेशः ४२-४७; म० ग्रामे मूर्च्छनानां  
खर-संनिवेश ४८-५०; गान्धारग्रामे मूर्च्छनानां खर-संनिवेशः ५१-५३; ग्रामत्रये  
मूर्च्छनानां साम्ये कथं भेदः? ५४-५५; अनाशी मध्यमः ५६-५९; चतुर्विधा  
मूर्च्छना ६०-६१ पाञ्चवीडवाद्य मूर्च्छनासु लोप्याः खराः ६२-६३
- म० ३-(१२०-१३४) 'तान'-शब्दस्य निरुक्तिः ६४-६६ प्रस्तार-क्रमेण तानानां संख्या  
६८-७०, त्रिषु ग्रामेषु तानानां संख्या ७१-८९; त्रिषु ग्रामेषु तानानां पुनरुक्तिः  
९१-९९; तानानां प्रस्तारः १००-१०४; ग्रामद्वये तान-संख्या १३९-१४६;  
गान्धारग्रामे वदयप-भवे तान-संख्या १४७-१५२; पाञ्चवीडव-तानेषु लोप्याः खराः  
१५३-१६३; त्रिषु ग्रामेषु तानानां संख्या १६४-१६८
- अ० ५; म० १ -(१३५-१३८) चत्वारः षोडशदश वर्णाः १-१; गीतेष्वलङ्काराणां महत्त्वम् ६;  
त्रयस्त्रिंशदलङ्काराः ५-१५; ध्रुवा-गाने अलङ्काराणां निषेधः १६-१७
- म० २ -(१३९-१४०) गमकानां नामानि १८-१९; स्फुरितादि-गमकानां लक्षणानि २०-२३
- म० ३ -(१४०-१४८) पञ्चादि-खराणां रसाः २५-२६; अंश-खर-जनितो रसः २७;  
जातीनां रसाः २७-३६; गीते छन्दसां योजना ३७-४२;
- म० ४ -(१४९-५०) अष्टाणां प्रामाणां देवताः ४३-४४; ग्रामरागाणां देवताः ४५-५१;  
ग्रामरागाणामृतनः ५२-५६; रागाणां रसाः ५७-५९
- म० ५ -(१५०-१५६) कावृत्तां सामान्य-लक्षणम् ६०-६२; पाठ्यगुणाः ६३-६८;  
रसेषूदात्तादि-वर्णानां विनियोगः ६९; द्विविधा वाजुः ६९-७०; तासां मन्द्रादीनि  
स्थानानि ७१; पाठ्यस्यालङ्कारास्त्रेषां विनियोगश्च ७२; कावृत्तां रसेषु विनियोगः  
८७-८८; कावृत्तामङ्गानि ८९-९२; तेषां रसयोगः ९३-९४ इत्यादयो व्याप्त्येषां  
रसेषु प्रयोगः ९५; विरामस्य प्रयोगः काल-मानस्य ९६-१०८
- म० ६-(१५६-१५७) वर्ण-संज्ञिता चतुर्विधा गतिः १०९-११४; गीतिषु लघ्यादि-  
परिकल्पना ११५-११७; अन्याः पञ्चविधा गीतयः शुद्धादयश्च ११८-१२०;
- म० ७-(१५७-१५९) सप्तानां वाजादि-चतुर्विधत्वम् १२१; वाजादीनां स्पर्श, शुल्लन्त-  
रानि च १२२-१२६; एतद्विषये भरतस्य मतम् १२७-१२८; दत्तिलस्य च  
मतम् १२९-१३०
- म० ८-(१५९-१६१) षडश गेयपदानि १३१-१३२ तेषां लक्षणानि १३३-१४४

135

सुतो वनीति करुणामधकः सदीर्घां सुषो पियथा कर्त्तुं। इयावती रजनो समस्योति पिका पिकां क्षान्ते पितृदीमाया आया  
नाया अपि अमालो सदीर्घात्ता क्षच ना। मति द्वितीयं मरुदाद्वी। मथरामचक्रना हीना

कृतिवा सुदु मध्यमयवानोचकरणाया अर्चमादि तिरुक्तरया सुवपिन्याना पिनोति वा। शिवेते कृष्णा।  
अध्या सदीर्घां क्यथाः कर्त्तुं नोदिनी। त्वादिणी रस्यानी। पिनो मा। निजा नेता। सिद्योद वतथा दीमा यता सु। न्या चक्रुवा तां। क्य। प। ज्ञानि  
पी। विदनाम। द्वि। तय। म। गि। ता। ङ। अथ। यामान। दा। ग। अ। रता। या। मते। दो। र। अना। एन्या। वि। क्ष। म्भुत। प। च। मान। थ। म्भु। या। म। स। वि। से। व। म। लु। व। म। त्वा।  
मु। बी। न। अ। म। न। च। द। ल्या। पृ। ष्ठ। म। था। मा। य। अ। च। था। म। वे। पी। क्ति। क्ती। अ। ति। न्या। स। य। थ। त्वा। म्भु। पा। वि। ता। नी। क्ष। म्भु। के। य। म्भु। अ। ति। क्त्वा।  
वा। ज्ञ। म। अ। वि। श्रु। ता। या। सु। स्रु। व। षे। इ। र्षे। व। न्ना। म्भु। इ। च। च। पृ। ष्ठ। म। द। नि। क्ष। इ। त्वा।  
म। लु। गे। द्या। य। ति। ति। ना। दी। म। नि। क्ष। म्भु। इ। क्त्वा। क्त्वा। अ। ति। पृ। ष्ठ। म्भु। स्या। भ। रण। सु। दा। प। च। गो। व। पे। ति। क्त्वा। न्य। नि। क्ष। म्भु। य। द। र। गी। क्ष। र। म्भु। ति।  
म। र्भु। वा। त्वा। र। क्ष। उ। च। ति। प्र। ल। वि। व। य। दा। गे। ङे। दी। म्भु। इ। द्या। वद। का। वि। क्ष। म्भु। ग। क्ष। म्भु। स्या। नदा। यत्तु। च। स्या। म्भु। ले। न। था। ए। वं। म। थ। म। गी। क्ष। र। म्भु। य। म्भु।  
नया। र। पि। श। क। ली। तर। ग्या। गे। लु। र्सा। भ। रण्य। पि। च। म्भु। गी। क्ष। रण्य। वि। प। दे। न। वि। दी। न। र्का। उ। ले। य। दा। ग। य। स्व। र। ष्ठ। ग। र्थ। ता। अ। न्ते। यो। वि। क्ष। ति।  
व। यो। क्त्वा। च। न। ष। ण। वि। दी। ता। ये। पि। व। ये। ना। थ। पा। ड। नं। न। त्वा। र। व। स्या। र। ष्ठ। सु। अ। त। य। त्वा। त्वा। वि। क्ष। ति। अ। न्ते। न। पे। वे। मे। ना। यो। वि। क्ष। म्भु। स। य। उ। वा। य। या।

गाविश्रीयतिनास्ये

— भरतभण्ड, पत्र - ११—

अ० ३

एतन्नाशति १० मुनतानसंख्यंथापुत्रविधुक्रमात ॥ प्रहारेण्यमन्तयानामन्तयस्यस्य तपद्गुरुपुत्रांश्च मध्यमपंचम  
 विवताशनिपादेवक्रमादवेषद्गुणामके श्यापत्स्वरामे श्यापत्स्वरामे श्यापत्स्वरामे श्यापत्स्वरामे श्यापत्स्वरामे  
 स्वरकर्म गमपथमिसरीतिशामागां धारउच्यते ॥ अत्राप्यनुक्रमेणैव च यत्सप्तनिवशात्तान्त्रियद्विशत्यरायैवसाद्भीष्ट  
 संसंख्यया विद्याया म एकस्मिन्तानानोवानसदितिः स विद्याति म भ्याती प्रथमकमपि पाउलो अत्यकामोऽरविशाल्यधिकेऽत्र  
 तमियात्किंविद्वावच्छुद्धवाद्वावापवागन्तः ॥ उः स्वश्रवणात्सुमुनिनामपरदितिः किंयोगाच्चस्यस्त्वुवादिशानीवत  
 याजनाच्च धिकमप्रनक्यास्त्वानादरुः ॥ एवंयाममभ्यमास्यविसिरेव पाउलोऽनु उवदितयनापिन श्यावः स्वराण्य  
 १० संनिनयत्समसाद्भीनिनादरुः ॥ उः श्यतीतथा म संस्ययासद्कप्यता ॥ तामानीस जनवति सद्म्राण्यसंघ सद्भव ॥ गीधारयाम  
 नादिने स्तुवया उः स्वराण्य ॥ शसन्ति च तन्नानं संस्ययासद्कप्यता ॥ तामानीस जनवति सद्म्राण्यसंघ सद्भव ॥ गीधारयाम  
 यासाध्य संस्यये ननु चाद्यतं यामत्र प्यपिते व स्यात् संस्यया सद्गुस्यता ॥ एकपंचचारधिकारै न लद्वयातीतया द्वाविद्याति  
 लद्वयातीतनासुः उन्नरुक्ति तं अत्रच उन्नरुक्ति तं ॥ अत्र विचारिता मपरियोगात्तारुद्वयसंघ सन्नम फनयत्तया कृत्वा  
 अत्र एकीकृतं नाद्यद्वयानाः प्रदक्षितान् श्यराचार्यालिपिप्रव्यागोगतया पुनरुक्तिः परं व विशाङ्कः ॥ सद्गामुद्रयैवैरमलि

अत्र भरत भाष्य अ० ४, प० १४ 86



॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

श्री - नान्यभूपाल - प्रणीतम्

## भरत - भाष्यम्

श्री - चैतन्य - देसाई - विरचितया संजीवन्त्याय्य - टीक्या समेतम्

प्रथम उद्देशाध्यायः

१ तत्रादिमं संगीतप्रयोजनाख्यं प्रकरणम्

॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

.....यन्ति सम्यग् गीति-प्रयोगतः ॥ १ ॥  
जानीन (?)...मा कोऽपि यासां शुद्धप्रयोगतः ।  
काश्मीर-तीरतो.....मुनीश्वरः ॥ २ ॥

टी०— जयति स्वरतालतनुर्धुवपदन्यासः कलारामकसदङ्गः ।

संगीत-समाधि-मग्नो विश्वरूप-नटन् नटराजः ॥ १ ॥

शारदां च गणेशं च नमस्कृत्य मुनिं तथा ।

भरत-भाष्यं व्याख्यातुं नान्यदेवस्य ह्युसहे ॥ २ ॥

आसीन्मृदुर्यस्य श्रुतेर्विदासः ।

शिलामपि द्वात्रयितुं समर्थः ॥

क्षणे क्षणे यस्य कला नधीना ।

अन्दुल्करीमं च गुरुं नमामि ॥ ३ ॥

शान्तां तु संगीतकलां विमृश्य ।

शास्त्राणि लक्ष्यानुगतान्यतानीत् ॥

प्रानीप्यवधान् भरतागतारः ।

श्रीभातखण्डेश्वरितं स्मरामि ॥ ४ ॥

दक्षिलो भारती वाणी सूत्रयामास पुत्रकः ।

भतंगो वार्तिकं चक्रे, भाष्यं तु नान्यदेवदत्त् ॥ ५ ॥

स्प०—अंय का प्रारम्भिक भाग प्रायः लुप्त सा है । इसका उल्लेख 'अंगपरिचय'  
प्रकरण में किया जा चुका है ।

अन्यान्यपि हि गीतानि प्रयुक्तान्यपि लुब्धकैः ।  
अरण्येह..... ॥ ३ ॥

यथाविधानेन पठन् सामगो' यत्र मध्यमम् ।  
सावधानस्तदभ्यासात्परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ४ ॥

( तथा च याज्ञवल्क्यः )

“द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये, शब्दब्रह्म परं च यत् ।

( शब्दब्रह्मणि निष्णातः ) परं ब्रह्माधिगच्छति” ॥ ५ ॥

अपरान्तकमुह्योप्यं मदकं प्रकरी तथा !.....

॥ ओवेणकं च रोविन्दमुत्तरं गीतकानि तु ॥ ६ ॥

ऋग्गाथा पाणिका दक्षविहितं ब्रह्मगीतकम् ।

ज्ञेयमेतत्तदभ्यास-करणाच्चोक्त-संज्ञितम् ॥ ७ ॥

गीतं वार्धं नाट्ययोग्यं च पाठ्यम् ।

शास्त्रेऽथोचद् भारतीये मुनिर्यत् ॥

संक्षिप्तत्वाद् दुर्ग्रहं तस्य तत्त्वम् ।

भाष्ये स्त्रीये व्याकरोन् नाम्यदेवः ॥ ६ ॥

शीर्णस्य तस्य ग्रन्थस्य शुद्धिः सयोजनं कृतम् ।

चैतन्येन तथा भाषाटीका 'संजीवनी' कृता ॥ ७ ॥

महाराष्ट्रे रत्नगिरौ ग्रामः कुदाल-मण्डले ।

नेरुरो नाकप्रतिमः कालेश्वर-कृपादतः ॥ ८ ॥

'प्रभु-देसाई'ति तत्र पुरा गौडाप्रतिष्ठितः ।

वंशोऽस्ति तस्मिञ्जातेन पुण्डरीकात्मजेन हि ॥ ९ ॥

कृतये भरतभाष्य-टीका चैतन्य-धर्मणा ॥

शास्त्राभ्यालोच्य सर्वाणि निर्मथ्य निमतानि च ॥ १० ॥

प्राचां मनोगतं शुद्धं टीकायां चात्र कथ्यते ।

सारं गृह्यन्तु तुष्यन्तु सन्तास्तु शुद्धबुद्धयः ॥ ११ ॥

Ad: (५) Ab. १०

“वीणा-वादन-तत्त्वज्ञः श्रुति-जाति-विशारदः ।  
तालज्ञश्चाप्रयत्नेन मोक्षमार्गानुगो भवेत्” ॥ ८ ॥

योऽधीतेऽहन्यहन्येतांस्त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः ।  
स ब्रह्म परमभ्येति वायुर्भूतः स्वमूर्तिमान् ॥ ९ ॥

गीतज्ञो यदि गीतेन नाम्नोति परमं पदम् ।

१. रुद्रस्यानुचरो भूत्वा तेनैव सह मोदते ॥ १० ॥

२ अथ द्वितीयं पदार्थ-संग्रहाख्यं प्रकरणम्

॥ १ ॥ अध्यायैः सप्तदशभिरग्रेऽस्मिंश्च करिष्यते ।

साङ्गं सलक्षणं चैव सालङ्कारं च वाचिकम् ॥ ११ ॥

॥ १ ॥ अथाध्याये ‘समुद्देशे’ (ऽध्यायानां च) यथाक्रमम् ।

आतोद्यस्य भिदाश्चैव गीतस्य गुणदोषयोः ।

॥ १२ ॥ कण्ठस्य गुणदोषौ च यादृशो गायिनस्तथा ॥ १२ ॥

अध्याये तु द्वितीयेऽत्र ‘शिक्षाख्ये’ कथयिष्यते ।

वर्णात्पत्तिर्वर्ण-संख्या वर्णस्थानानि यानि च ॥ १३ ॥

वायोऽरुदयहेतुश्च स्थानं तथैव वाहभिः (?) ।

स्थानान्यथ ध्वनिश्चैव तस्योदात्तादि-वर्मता (?) ॥ १४ ॥

स्वरत्वमपि च स्वर.....त ।

॥ १५ ॥ एवं द्वितीयेऽध्याये च संग्रहः कथयिष्यते ॥ १५ ॥

ततोऽध्याये तृतीये च ‘स्वराणां’ कथयिष्यते ।

॥ १६ ॥ वर्ण-जाति-ध्वनिं सप्तर्षि-देव-(छन्दांसि).....॥ १६ ॥

श्रुतिमण्डलती ग्रामत्रयश्च श्रुतिभेदतः ।

ग्रामत्रयविभागश्च, ग्रामेषु च स्वरक्रमः ॥ १७ ॥

स्प०—श्लोक ५ से १० तक के प. १८३ (अ. ११) ऊपर पुनरुक्त हैं ।

Ad: (c) 1s. 1115

श्रीः १-मूर्तिः २ म- ३-राम ४ प- ५-गा ६-स- ७-पो ८-वा.

श्रुतीनां संनिवेशश्च तासां संख्या च..... ।  
 यावत्स्यः श्रुतयो नाम.....तस्य तत् ॥ १८ ॥  
 ततश्चतुर्थेऽस्याध्याये चतुर्धा 'मूर्च्छना'-विधिः ।  
 पाडवौडर्व-भेदेन स्वरसाधारणं तथा ॥ १९ ॥  
 संख्या.....नाम च वक्ष्यते ।  
 प्रस्तारयोगस्तानानां संनिवेश-क्रमस्तथा ॥ २० ॥  
 पाडवौडव्रपूर्णेश्च तथा चतुःखरेण च ।  
 यावती तान.....य-विकल्पजा ॥ २१ ॥  
 एवं च पञ्चमेऽध्याये 'ऽलङ्काराख्ये' च वक्ष्यते ।  
 सलक्षणा च पञ्चाशत्स्वरालङ्कार-पद्धतिः ॥ २२ ॥  
 ये चाष्टौ नारदप्रोक्ता ऋग्यजुःसामवेदिकाः ।  
 पाणिनीया अलङ्कारा ये चोक्ताः सप्तविंशतिः ॥ २३ ॥  
 \*अष्टादशस्तु वर्णाश्च गीतयस्तु तथा \*दश ।  
 स्वरार्थ-रस-भेदेन कालभेदास्त्वनैकशः ॥ २४ ॥  
 †(स्वराणामपि संवाद-विवादौ श्रुतिकल्पितौ ।  
 अनुवादस्तथा चात्र ग्रामत्रय-विभागतः ॥ २५ ॥)  
 अङ्गानि गीतवस्तूनां स्युरष्टाविंशतिः क्रमात् ।  
 गमकाः सप्तधा चात्र वक्ष्यन्ते नातिविस्तरात् ॥ २६ ॥  
 'जात्यध्याये' च षष्ठेऽपि दशलक्षण-लक्षिताः ।  
 जातयः सप्त शुद्धाश्च विकृताश्च तथाऽपराः ॥ २७ ॥

२१०— \*अष्टादश' या 'अष्टादश' वर्णों की संख्या ठीक नहीं है, तथा 'गीति' भी 'दश' उपयुक्त प्रतीत नहीं होती ।

† यहा 'काकु' शब्द उचित नहीं लगता ।

‡ श्लोक २५ यहा प्रक्षिप्त लगता है ।

एकादश; चतु.....ता अष्टादश च नामतः ।

संकीर्णोत्पन्न-भेदाश्च जातीनां समुदाहृताः ॥ २८ ॥

ग्रहादंशादपन्यासात्, पाडवौडवितादपि ।

संख्या चैतावतामेव; कपालानि च पाणिकाः ॥ २९ ॥

लक्षणं चैतयोः, सप्त-कम्बलानां तथैव च ।

वक्ष्यते विस्तरोऽध्याये पष्ठे जात्यभिधे मया ॥ ३० ॥

अथ 'रागोत्पत्ति'नामन्यध्याये सप्तमे पुनः ।

लक्षणं मूलरागाणां तथा च ग्रामरागयोः ॥

उत्पन्नयोर्मूलपद्धे तथा भाषा-विभार्ययोः ॥ ३१ ॥

एवमन्तरभाषाणां क्रियाङ्गाणां चै सर्वशः ।

उपरागजानामेवं च देशाख्यानां तथा पृथक् ॥ ३२ ॥

ग्रहादंशादपन्यासाद्यासाद्यापि पृथक् पृथक् ।

रागाणां रूपनिष्पत्तिस्तथाऽऽलापक-रूपके ॥ ३३ ॥

\*(विनियोगोऽलङ्कृतीनां गमकानां तथैव च ।)

संक्षेपाद् वक्ष्यते सम्यक् सर्वमेतदनुक्रमात् ॥ ३४ ॥

ततोऽष्टमेऽपि चाध्याये 'सप्तगीतक'-संज्ञके ।

आसारितानि सर्वाणि वर्धमानानि यानि च ॥ ३५ ॥

अपरान्तकमुल्लोप्यं मद्रकं प्रकरी तथा ।

'ओषेणकं सरोविन्दमुत्तरारण्यं च सप्तमम् ॥ ३६ ॥

स्प०— \*यह पक्ति यहां प्रक्षिप्त है, कारण अलंकार और गमक का विषय इस अध्याय में न आकर पाँचवे अध्याय में आया है ।

( ३६ ) 'ओषेणक' पाठ शुद्ध रहेगा ।

F: (३६) B. 'अरेणक, उषे०' ३११९८८, २७१ ६०

B. ५११२, १४२, B. B. अ० ८ में 'ओषेणक' दिया है ।

M: १ एकद्वित्रि ११ ऋषादेगध २ वैषाध, ३ ममुमावातवाया ४-न् ५ संविशवपि  
६-वना- ७-नाया ८-क ९-या १०-यां ११ शिवाजाना १२ ज  
१३ शारोवाउ मनभ्याया १४ उषेणक; १५ श्ये

सामानि चाप्यनेकानि ऋचो गाथास्तथा पुनः ।  
 सामाङ्गानि च सर्वाणि ऋग्गाथाङ्गानि यानि च ॥३७॥  
 गीताङ्गानि तथैवात्र विनिर्दिष्टानि चाप्यथ ।  
 अष्टमाध्यायविषये विस्तरः कथयिष्यते ॥ ३८ ॥  
 ततोऽपि नवमेऽध्याये 'ध्रुवाख्ये' कथयिष्यते ।  
 ध्रुवाणां लक्षणं सम्यक् नामानि च यथाक्रमम् ॥ ३९ ॥  
 आक्षिप्तिकी ध्रुवा या च तथा प्रावेशिकी च या ।  
 प्रासादिकी चान्तराख्या नैर्ऋमिकी क्रमात्तथा ॥४०॥  
 नियमोऽथ विरामाणां रसानां च विशेषतः ।  
 याश्च ह्यक्षरसंख्याताः प्रयोक्तव्या हि (जातयः) ॥४१॥  
 \*(निरूपणं च रागाणां तालानां च निरूपणम् ।)  
 पाठ्यं च पुष्पगण्डादि स्थानत्रय-निरूपणम् ॥ ४२ ॥  
 काकूनां विनियोगश्च तदङ्गालङ्कृतिस्तथा ।  
 सर्वमेतदशेषेण ध्रुवाध्याये विधास्यते ॥ ४३ ॥  
 ततस्तु दशमेऽध्याये('ताला)ख्ये' कथयिष्यते ।  
 तालानां लक्षणं सम्यक् तथा भङ्गोपभङ्गयोः ॥ ४४ ॥  
 विभङ्गस्य च कात्स्न्येन तालानां च निरूपणम् ।  
 सशब्द-निःशब्दतया तालानां च यथाविधि, ॥ ४५ ॥  
 ध्रुवादीनां तु वर्णानां सशब्दे विनिवेशनम् ।  
 चतुर्णामपि पादानां निःशब्दे संनिवेशनम् ॥ ४६ ॥  
 ध्रुवाश्रितानां तालानां लययोगानुकीर्तनम् ।  
 नामयोगश्च तालानां तथा संख्या च सर्वशः ॥ ४७ ॥

स्प०— \*यह पक्ति यह प्रक्षिप्त है ।

F: (५०) B K. ३२।२७-२८

M: १ दशुच २ अक्षिप्त ३ प्रावेशिका ४ प्रसादि ५ पंचमीति ६ विषयाणां ७ द-  
 ८ रणं ९ द्वादशे १०-द्व- ११ पृथया-

तत एकादशेऽध्याये 'देशिकारख्ये' विधास्यते ।  
 लक्षणं देशिगीतानां तालयोगस्तथैव च ॥ ४८ ॥  
 एलानां लक्षणं सम्यक् संख्यानि च पदानि च ।  
 तालानां विनियोगश्च तथैवासु पृथक् पृथक् ॥ ४९ ॥  
 पदं च विरुद्धं चैव तेनस्तालस्तथैव च ।  
 पादस्वरौ च पदपि प्रोक्तान्यङ्गानि यानि च ॥ ५० ॥  
 देशिगीत-प्रयोगज्ञेयैर्दङ्कि-कौञ्चपदौ तथा ।  
 नियमस्तालयोगेन स्तोभैरश्च पदैरपि ॥ ५१ ॥  
 X(.....निःशब्दे संनिवेशनम् ।  
 वृत्ताश्रितानां तालानां लय-योगानुकीर्तनम् ॥ ५२ ॥  
 नामयोगश्च तालानां तथा संख्या च सर्वशः । )  
 अथ त्रयोदशेऽध्याये 'सुपिरारख्ये' च कथ्यते ।  
 वेणूनां ग्रामभेदेन तथा रन्ध्राङ्गुलि-क्रमः ॥ ५३ ॥  
 सर्वार्ध-किञ्चिन्मुक्तत्वाद् वेणुरन्ध्राङ्गुलीकृतः ।  
 स्वराणां श्रुतिभेदश्च संक्षेपात्कथयिष्यते ॥ ५४ ॥  
 शङ्खादीनां च वाद्यानां सुपिरान्त-निवेशनम् ॥ ५५ ॥  
 ततश्चाध्याययुग्मेन 'पुष्करारख्ये'न वक्ष्यते ।  
 चतुर्दशेन चान्यत्र तथा पञ्चदशेन च ॥ ५६ ॥  
 पुष्कराणां ग्रभेदश्च चर्मनद्धपुटस्तथा ।  
 पृथग्नद्धपुटत्वाच्च वाद्यभाण्डस्य वाऽप्यथ ॥ ५७ ॥

स्प०—उपरोक्त तीनों पदियों यह प्रक्षिप्त और पुनरुक्त हैं; कारण, वे तालाध्याय की सूची में पहलेही आ चुकी हैं ।

• १२ वे अध्याय की सूची के श्लोक छत हैं ।

१ (५०) B. ४११२

1 : 1 सु २-६ ३ तेन पञ्चाङ्ग एव च । ४ पाद स्वर ५-का०; ६ शार्ङ्ग-  
 ७ देशीयः ८ कृष्णा- ९ सुपिरारख्य १० वामारख्ये ११ पुष्करा

पाटाक्षराणि षोडश; जातयोऽष्टादशापराः ।

॥ गतयश्च तथा तिस्रः सामाद्या याः प्रकीर्तिताः ॥ ५८ ॥

मार्गाणां चैव भेदाश्च करणानि लयैः सह ।

सर्वमेतदशेषेण वक्ष्यते नातिविस्तरात् ॥ ५९ ॥

‘छन्दोऽध्याये’ षोडशे तु वक्ष्यते च ततः परम् ।

सममर्धसमं चैव विषमं च तथा पुनः ॥ ६० ॥

मात्रावृत्तान्यशेषेण प्रस्तारविधिरेव च ।

संख्यानं छन्दसां चैव प्रत्ययाः पट्ट तथा च ये ॥ ६१ ॥

उक्तादिसंस्कृत्यन्तं च विस्तरौ नाम नामतः ।

संक्षेपात्सर्वमेतत्तु छन्दोऽध्याये विधास्यते ॥ ६२ ॥

ततः सप्तदशोऽध्याये ‘भाषाविध्य’भिधे पुनः ।

भाषाणां चैव सर्वासां विस्तरौ वक्ष्यते क्रमात् ॥ ६३ ॥

संस्कृतं प्राकृतं चापि मिश्रं पैशाचिकं तथा ।

अपभ्रंश-विधिश्चैव भेदाः प्राकृत-संस्कृताः ॥ ६४ ॥

यत्संस्कृत-भवं चैव तत्समं प्राकृतं तथा ।

देशी-शब्दाश्च ये तद्वद् भेदाः पैशाचिकस्य ये ॥ ६५ ॥

लक्षणानि च सर्वेषामथापभ्रंशजातिजाः ।

नाट्योक्ताश्चापि ये शब्दाः संस्कृते प्राकृते तथा ॥ ६६ ॥

एतत्सर्वं तु विज्ञेयं वाचिकाङ्गस्य संग्रहे ।

३ अथ तृतीयमतोच-विस्तराख्यं प्रकरणम्

यदुक्तं प्राङ्गयाऽऽतोद्यं तस्य वक्ष्यामि विस्तरम् ।

चतुर्विधत्वादेकैकं द्वैविध्यादष्टधा पुनः ॥ ६७ ॥

स्प०—१७ अध्यायो की सूची यहा पूर्ण होती है ।



ततं तु सुपिरं चैवमवनद्धं घनं तथा ।

चतुर्विधमिहातोद्यं, प्रत्येकं द्विविधं पुनः ॥ ६८ ॥

ततं तन्त्रीगतं ज्ञेयं, सुपिरं वंश उच्यते ।

पौष्करं त्ववनद्धं स्याद्, घनं तालोऽभिधीयते ॥ ६९ ॥

दारवी गात्रवीणा च ततं द्विविधमिष्यते ।

गीत-वाद्य-प्रभेदेन वेणु-शङ्ख-समाश्रयम् ॥ ७० ॥

द्विविधं सुपिरं नाम कथितं गीतवेदिभिः ।

चर्मनद्धं-पुटं चैपां पृथग्गद्गपुटं तथा ॥ ७१ ॥

अवनद्धस्य च प्रोक्तमैवं भेदद्वयं तथा ।

यो निःशब्दः सशब्दश्च तालोऽपि द्विविधः स्मृतः ॥ ७२ ॥

तननावुच्यते तन्त्री र्मानवी दारवी च या ।

द्विज्ञायन्ते खरान् ग्रामानुभे वीणे प्रकीर्तिते ॥ ७३ ॥

श्रुतयोऽथ स्वरा ग्रामा मूर्च्छनास्तानसंयुताः ।

स्थानानि वृत्तयश्चैव शृङ्गसाधारणे तथा ॥ ७४ ॥

जातयश्चैव वर्णाश्च नानालङ्कारसंयुताः ।

दारव्यां (समवायोऽयं वीणायां) समुदाहृतः ॥ ७५ ॥

टी०—( ६९ ) यहां 'घन'की व्याख्यामें 'ताल' शब्द 'फरताल' जैसे बाघों का बोधक है ।

( ७३ ) इस श्लोकमें 'तन्त्री' और 'वीणा' शब्दों की निरुक्ति दी है ।

( ७४-७६ ) i 'शरीर' और 'दारवी' इस तरह वीणाके दो भेदकी कल्पना ना. शा. में कुछ अस्पष्ट थी, वह नान्यमूपालने स्पष्ट की है ।

ii यह वर्णन ना. शा. २८।१२-१८ में आया है । यहां खर, ग्राम, मूर्च्छना आदिकी व्यवस्था वीणा ऊपर कर लेनी पडती है, किन्तु फंठमें उसकी आवश्यकता नहीं है, यह कहनेका आशय है ।

iii श्लो. ७६ की प्रथम पंक्तिमें 'जातिः' शब्द अधिक प्रयुक्त है ।

F: ( ६८ ) B २८।१ B ६।४; ( ६९ ) B. २८।२; B. १।५-६

M: १ ततः २ घनं; ३ सुपिरो ४ घनः ५ तं- ६-दं; ७-स्तेमेवं ८ तानया  
९ व्याख्यानयो १० पुष्क-

स्वरा ग्रामाः स्थानविधिर्जातिः साधारणे तथा ।

स्वरालङ्कार-वर्णाश्च जातयश्च शरीरजाः ॥ ७६ ॥

Xश्रुतयो मूर्च्छनास्तानाः शुष्कं धातुश्च वृत्तयः ।

कण्ठे सत्यपि न ह्येता व्यक्तिमायान्ति कर्हिचित् ॥७७॥

Xयत्किञ्चिन्मनसा गम्यं यच्च कण्ठादि-दुष्करम् ।

दारुवीणासु तत्सर्वं कण्ठहीनोऽपि गायति ॥ ७८ ॥

Xरहः परपुरप्रवेशं कृत्वा योगेन गायिनो निपुणाः ।

महसा खं पुरा प्रकाशतेरपि (?) ॥ ७९ ॥

\*(तत्कलाभिरभिनीतो योगीव मनोऽनुरञ्जयति ॥)

.....रद्वायति (?) मनो न खलु योगी ।

यां नारदोऽपि नो.....तिको (?)

नापि समाधिना क्षणार्धमपि ॥ ८० ॥

यैचलुद्धं काष्ठमात्रं स्रवति.....श्रवणपुटपेयम् ॥ ८१ ॥

छिन्नेषु नवसु मूर्धसु न तथा तपसा तोषितः स्थाणुः ।

दशवदनस्य यथाऽसौ वीणागीतस्वरैर्मुदितः ॥ ८२ ॥

वाग्देवता भगवती न विना विज्ञायते मया घटितमूर्तिः ।

को वैकुं हि गुणान् तस्याः शक्नोति नारदात्परः ॥ ८३ ॥

टी०:— ( ७७ ) श्रुति और मूर्च्छनाके विषयमें नान्यदेवका यह कथन श्रुतिविषयक अनुसंधानकर्ताओं हेतु महत्त्वपूर्ण है ।

स्प०— X चिह्नान्कित श्लोक प. १८३ ऊपर ( अ. ११ ) पुनरुक्त है ।

† ( ८० ) इसी अर्थका एक श्लोक अ. ११ में आया है ।

\* pb प. १८३

F: ( ७४-७६ ) B. २८१२-१८

M: १ त्रियालङ्कार- २ स्वच्छंदा ३ धीतुश्च ४ रहा [ ३ लाह ( प. १८३ ) ] ५ यत्तुद्धः  
६ धक्त्रं गुणवासितत्वा ७ नारदपरः

दारवी या तु तत्रापि' नाम तत्रैी समन्विता ।

वक्त्रा कौर्मी तथाऽलावू त्रीण्यङ्गानि भवन्ति वै ॥८४॥

विपञ्ची वह्नकी मैत्तकोकिला च प्रकीर्तिता ।

चित्रा सारस्वती चैव गान्धर्वी ब्राह्मिकेत्यपि ॥ ८५ ॥

एवमादीनि वैक्त्रायाः प्रत्यङ्गानि श्रुतानि वै ।

ततः संवादिनी ज्ञेया तथैव परिवादिनी ॥ ८६ ॥

बह्नीसका तु किन्नरी कौर्म्या अन्यैवमादयः ।

विज्ञानो—(?)नकुला चेद्, अङ्गानि च मनीषिभिः ॥८७॥

अलावू कौर्म्या वीणायाः प्रत्यङ्गानि प्रचक्षते ।

इत्येवमादयो भेदा दारव्याः समुदाहृताः ॥ ८८ ॥

शारीर्यास्त्वङ्गप्रत्यङ्गं हृत्कण्ठ—तालु—दन्तकम् ।

जिब्हानासोरश्च तानि स्थानानि संवेदन्त्यपि ॥ ८९ ॥

प्राणवाय्वभिघातान्नानावर्णव्यक्तिर्भवति ।

दारव्यां पुनरुरःकण्ठ-शिरःप्रभृतीनामसम्भवेऽपि

तथा वर्णव्यक्तिरिति ॥ ९० ॥

४ अथ चतुर्थं स्वर-गीत-गुण-दोष-वर्णनाख्यं प्रकरणम्

गीतदोषा यथा—

“शङ्कितं, भीतमुद्धृष्टमव्यक्तमनुनासिकम् ।

काकस्वरं, शिरोगतं, तथा स्थान-विवर्जितम्” ॥ ९१ ॥

टी०:—श्लोक ८४ से ८८ तक वीणा के भेद कहे हैं ।

( ९१, ९२ ) ये श्लोक मूलमें त्रै. स्वर. के होने चाहिये; कारण, नारदने

‘भवन्ति चात्र श्लोकाः ।’ कहा है ।

Ad: (९१) N. ४११; P. ९ ३४; TP २५

MI: १—पि २ गीण्यर्थाणि ३ मते ४ तथैी ५ चक्रायाः ६ पट्टियका ७ नि- ८ मन्व्यानि

९ कायां १० दातव्या ११ प्रत्यक्षं १२ नातोरा १३ नाप्रचक्षते १४—वाप-

१५ दातव्या १६ य-

“विस्वरं, विरसं चैव, विश्लिष्टं, विपमाहृतम् ।  
 व्याकुलं, तालहीनं च गीतदोषाश्चतुर्दश” ॥ ९२ ॥  
 शङ्कितं कम्पितं ज्ञेयं, भीतं नाम भयात्स्फुटम् ।  
 रूक्षवर्णमथोद्धृष्टं; अगीतं गुणवर्जितम् ॥ ९३ ॥  
 अव्यक्तं दन्तसन्देष्टं नासोक्तमनुनासिकम् ।  
 काकस्वरमतारं स्यान्मन्द्रहीनं शिरोगतम् ॥ ९४ ॥  
 त्रिस्थान-विकलं गीतं भवेत्स्थानविवर्जितम् ।  
 विस्वरं घर्घरं चैव द्विरसं रूक्षित-स्वरम् ॥ ९५ ॥  
 संयोग-विच्युतं वर्णं विश्लिष्टं प्रवदन्ति तत् ।  
 नासौष्ठ-दन्त-जिह्वादि-वर्णानां विपमाहृतेः ॥  
 विपमाहृतमित्येव ब्रूयुर्वेदविदो जनाः ॥ ९६ ॥  
 असंगतार्तावृतं यच्च व्याकुलं तत्प्रचक्ष्यते ।  
 अतालं मानहीनं च तालहीनं विदुर्बुधाः ॥ ९७ ॥  
 अमी चतुर्दशेत्येवं गीतदोषा भवन्ति हि ।  
 सामगानां प्रयोगे हि नारदेन प्रकीर्तिताः ॥ ९८ ॥

भरतः पुनराह—

“कैपिलोऽव्यवस्थितश्चैव तथा संदेष्ट एव च ।  
 काकी च तुम्बुकी चैव कण्ठदोषा भवन्ति हि ॥ ९९ ॥

स्प०—( ९३ ) श्लो० ९१-९२ की व्याख्या श्लो० ९३-९७ में की हुई है ।  
 ( ९९-११३ ) ना. शा. अ. ३३ से उद्धृत हैं ।

Ad: ( ९२ ) N. ४१२ Tr. २६  
 ( ९९ ) B. ३३१५-१६

M: १ -रू- २ -मायादृष्टं ३ -ट- ४ नामोच- ५ विस्वरं ६ नासोष्ठे  
 ७ द्विरसं- ८ -तो- ९ कैपिलाव्यवस्थितः १० -ट- ११ तुम्बुकी

वैस्वर्यं च भवेद्यत्र तथैव घर्घरायितम् ।

कपिलः स तु मन्तव्यः श्लेष्मकण्ठस्तथैव च ॥ १०० ॥

ऊनताऽधिकता वाऽपि स्वराणां यत्र दृश्यते ।

कण्ठदोषहतश्चैव ज्ञेयः स त्वव्यवस्थितः” ॥ १०१ ॥

‘स्वरो यो....लक्ष्यान्त (?) दन्तान्तरविनिःसृतः ।

कण्ठदेशे प्रतिहृतः स संदष्ट इति स्मृतः’ ॥ १०२ ॥

‘यो न विशृणुते भावं स्वर उच्चारणे गतः ।

तथा रूक्षस्वरश्चैव स काकीत्यभिधीयते’ ॥ १०३ ॥

\* (‘नासागतस्वरो यस्तु विज्ञेयः स तु तुम्बकः’ ।)

कण्ठगुणाः,—

‘श्रावकोऽथ घनः स्निग्धो मधुरो हृवधानवान् ।

त्रिस्थान-शोभीत्येवं पट् कण्ठस्य च गुणाः स्मृताः’ ॥१०४॥

‘दूरतः श्रूयते यश्च स वै श्रावक उच्यते ।

श्रावकः सुस्वरो यस्मादच्छिद्रः स घनः स्मृतः’ ॥१०५॥

‘अरूक्ष-ध्वनि-संयुक्तः स्निग्धस्तज्ज्ञैः प्रकीर्तितः ।

‘घनः प्रस्फोटजनकः स वै मधुर उच्यते’ ॥ १०६ ॥

स्प०—( १०२ ) नान्यदेवोक्त पाठ अच्छा है ।

( १०३ ) B. A. ३३११६ \*यह पंक्ति हमने यहां ना. आ. से उद्धृत की है ।

Ad: ( १०० ) B. ३३११९-१७

( १०१ ) B. ३३११७; उपरोक्त श्लो० १०१ की द्वितीय पंक्ति नाट्यशास्त्र में इत प्रसार है:—

“वृत्तान्तोपपद्येय श्लेषः स स्वतःस्थितः” ॥ १७ ॥

इस प्रकार अन्य श्लोकीयें भी यत्र तत्र अन्तर हैं ।

( १०३ ) B. pb:—\*‘निवारति स्थाने’ ‘मन्तुवारणगतम् ।’

( १०५ ) B. ३३१११-१२

( १०६ ) B. ३३११२ pb:—\*‘मानप्र-हारनकर.’

F: ( १०२ ) B. ३३११८ “दन्त-प्रयोगाद्येन्द्रः ग्राहयति. परिहीयते ।”

Al: १ -६ १ अजना ३ गन्तविसर्जितः ४-भित्तः ५ -वाः ६ -दृष्टाः ७ स्वमुतोपपत्तो

‘स्वरेऽधिके च हीने च ह्यविरक्तोऽवधानवान् ।  
शिरःकण्ठेष्वभिहतं त्रिस्थान-मधुर-स्वरैः’ ॥ १०७ ॥  
‘त्रिस्थान-शोभीत्येवं तु स हि तज्ज्ञैः प्रकीर्तितः’ ॥१०८॥

अथ गान्त्वगुणानाह भरतः,

“पूर्णस्वरं तत्र विलम्बि-वर्णम् ।  
त्रिस्थान-शोभि \*त्रिलयं त्रिमार्गगम् ॥  
रक्तं समं श्लक्ष्णमलङ्कृतं च ।  
सुखं प्रसन्नं मधुरं च गानम्” ॥ १०९ ॥

“गीते तु यत्नैः प्रथमं हि कार्यः ।

शैल्यां हि नाट्यस्य वदन्ति गीतम्”, इति ॥ ११० ॥

“गाता प्रत्यग्रवयाः स्निग्ध-मधुर-मांसलोपचित-कण्ठः ।  
लय-ताल-कला-मान-प्रयोग-मार्गेषु तच्चज्ञः” ॥ १११ ॥

“रूप-गुण-कान्तियुक्ता माधुर्योपेत-सत्व-सम्पन्नाः ।

पेशल-मधुर-स्निग्धानुनाद-समरक्त-शुभकण्ठाः ॥ ११२ ॥

अवहित-शरीर-मनसः संनिवेशित-ताल-मधुर-स्वराः ।

औतोद्यार्पित-करणा विज्ञेया गायिकाः श्यामाः” ॥ ११३ ॥

एवं गुण-विशिष्टो यः श्रद्धायुक्तश्च गायति ।

स ज्ञानी शुद्ध(स्व)र(व)र्णः सकपालः सपाणिकाः ॥ ११४ ॥

स्प०—( ११० ) आगे की पंक्ति ‘गीते च वाचे०’ इत्यादि होनी चाहिए ।

Ad : ( १०७, १०८ ) B. ३३।१२-१५

( १०९ ) B. ३२।४४०; pb :- \*‘प्रितयं’; †‘सुखप्रयुक्तम्’

( ११० ) B. ३२।४४१;

( १११ ) B. ३३।२

( ११२, ११३ ) B. ३३।३, ४

M : १ शीर्षोः कण्ठे च हतं २ त्रिं २ विशो ४ -गी- ५ -तः ६ -मे ७ शि-  
८ गी- ९ चपाः १० पा- ११ भू- १२ शतोद्यमितिति

आसारितानि सर्वाणि वर्धमानान्यथैव च ।

मद्रकाणि च सर्वाणि, तस्य शम्भुः प्रसीदति ॥ ११५ ॥

मुखरयति भुवनमखिलम्

प्रसन्नमनिशमापयद् गणो देशः ।

अयमुद्देशाध्यायो रचित-

-स्तेनेह नान्यदेवेन ॥ ११६ ॥

इति महासामन्ताधिपति-धर्मावलोक-श्रीमन्नान्यपति-विरचिते सरस्वती-  
हृदय-भूषणे भरतभाष्ये प्रथमाध्यायः ॥



### द्वितीयः शिक्षाध्यायः ।

१ तत्रादिमं वर्णान्पत्ति-प्रकरणम्

अध्यायाणां समुद्देशो गीतदोषगुणाश्च ये ।

गुणागुणौ च कण्ठस्य पूर्वाध्याये प्रदर्शितौ ॥ १ ॥

इदानीं वर्णनिष्पत्तिमुत्पत्ति-स्थानमेव च ।

ध्वनिं स्वरांश्च वक्ष्यामि शिक्षाविस्तरमेव च ॥ २ ॥

घालमन्मनलहानां (?) ये चान्ये तद्विधा नराः ।

वर्णनिष्पत्तये तेषां शिक्षाध्यायं प्रवक्ष्महे ॥ ३ ॥

स्थानात्प्रयत्नात् कालाच्च स्वराच्चानुप्रदानतः ।

उच्चारयन्ति ते वर्णास्तथा शिक्षाऽभिधीयते ॥ ४ ॥

शिक्ष-धातुर्हि विद्यानामुपादानार्थं इष्यते ।

अकारप्रत्यये चापि शिक्षा-शब्दस्य सम्भवः ॥ ५ ॥

परश्रुत्ययनं वाक्ये लोके सर्वत्र दृश्यते ।  
 तानि चोच्चार्यमाणानि जनयन्त्यथ संविदम् ॥ ६ ॥  
 न विना वर्णनिष्पत्तिं पदं लोके प्रवर्तते ।  
 पदानि च विना वाक्यं कुत्रचिन्नोपलभ्यते ॥ ७ ॥  
 अतः प्रधानभूतत्वाद् वर्णानामेव सर्वशः ।  
 तेषां शिक्षाऽभ्यासमाना मुनीनां वचनादियम् ॥ ८ ॥  
 “आत्मा बुद्ध्या सैमेत्यर्थान्मनो युक्ते विवक्षया ।  
 मनः कायाग्निमाहन्ति, स प्रेरयति मारुतम्” ॥ ९ ॥  
 “मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम् ।  
 (गायत्रमाश्रितं छन्दः) प्रातः सवनयुग्भवेत्” ॥ १० ॥  
 कण्ठे माध्यन्दिनयुतः स्रुतो यः शिरसि स्थितः ॥ ११ ॥  
 “सोदीर्णो मूर्ध्न्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः ।  
 वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः” ॥ १२ ॥  
 “त्रिपष्टिश्चतुःपष्टिर्वा वर्णाः शैम्भुमते मताः ।  
 प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयम्भुवा” ॥ १३ ॥  
 “स्वरा विंशतिरेकश्च, स्पर्शानां पञ्चविंशतिः ।  
 यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ, चत्वारश्च यमाः स्मृताः” ॥ १४ ॥  
 “अनुस्वारो विसर्गश्च ऋऋणौ चापि पराश्रितौ ।  
 दुःस्पृष्टैश्चेति विज्ञेयो लृकारः प्लुत एव च” ॥ १५ ॥

स्प०—(९) यह श्लोक और आगेके कितनेक श्लोक पा० शि० से उद्धृत हैं

Ad: (९) P S ६ (१०) P S ७

(१२) P S ९ (१३) P S ३ (१४) P S ४

(१५) P S ५

F (११) P S कण्ठे माध्यन्दिनयुग मध्यम त्रैष्टुभानुगम् ।

तार तारोद्यसवन त्रीपैष्य जगतानुगम् ॥ ८ ॥

M: १ शि-भ्यानमाना २ समर्थागान् ३ सम्भवतो ४ षो ५ -टा- ६ -या ७ ऋ-



“स्थानप्रयत्नतश्चैव तथा चानुप्रदानतः ।

कालतः स्वरतश्चापि पञ्चम्यो वर्णसम्भवः” ॥ १६ ॥

“अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा ।

जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च” ॥ १७ ॥

“उरः कण्ठः शिरश्चैव स्थानानि त्रीणि वाङ्मये ।

सवनान्याहुरेतानि साम वाप्यर्थतोऽन्तरम्” ॥ १८ ॥

“उरः सप्तविचारं स्यात्तथा कण्ठस्तथा शिरः ।

न च सप्तोरसि व्यक्तास्तथा प्रावचनो विधिः” ॥ १९ ॥

“कण्ठ्यावैहाविचुयशास्तालव्या औष्ठजावुषू ।

स्युर्मूर्धन्या ऋट्टुरपा दन्त्या लृतुलसाः स्मृताः” ॥ २० ॥

“जिह्वामूले तु कुः प्रोक्तो, दन्त्योष्ठ्यो वः स्मृतो बुधैः ।

एषे तु कण्ठतालव्यौ, औँ औँ कण्ठोष्ठ्यौ स्मृतौ” ॥ २१ ॥

“अर्धमात्रा तु कण्ठ्यस्य विद्यादेवमिति स्मृतिः ।

अयोगवाहा विज्ञेया आश्रय-स्थान-भागिनः” ॥ २२ ॥

अनुस्वारो नासिकजो, हविसर्गो तु कण्ठजो ।

सर्वत्रैव मुखस्थास्तेष्ववर्णं भुवते परे ॥ २३ ॥

भूयो भागाद्बुचो ..... लतृ-वर्णकयोरपि (?) ।

पञ्चमा मुखे-नासिकयोः, पक्षेऽपि यवैल-स्वराः ॥ २४ ॥

Ad: (१६) P. 8. pb. १० (१७) P. 8. १३ (१८) K. १७

(१९) K. १८ (२०) P. 8 १७ (२१) P. 8. १८

F: (२३) } P. 8. pb. { १९ “अर्धमात्रा तु कण्ठस्य एषादेवमिति” इत्यादि ।

(२३) } P. 8. pb. { २३ “अनुस्वारो-नासिकाय नासिका-स्थानमुच्यते ।

अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थान-भागिनः ॥”

२३ “नासिके” = नासिका + कः vide ‘द्वयोः’ पा. ६३।६३

M: १ व २ विवदामु ३ व- ४ वदना ५ व- ६ व ७ व- ८ कम्पोपुत्रो

९ कानुसरे १० नासिको ११ तं १२ वदा १३-४-

“हकारं पञ्चमैर्युक्तमन्तःस्याभिश्च संयुतम् ।  
 उरैस्यं तं विजानीयात्; कण्व्यमाहुरसंयुतम्” ॥ २५ ॥  
 “अनन्त्यश्च भवेत्पूर्वो हान्त्यश्च परतो यदि ।  
 तत्र मध्ये यमस्तिष्ठेत्सवर्णः पूर्ववर्णयोः” ॥ २६ ॥  
 “वर्गान्त्याञ्छपसैः सार्द्धमन्तःस्यैर्वापि संयुतान् ।  
 दृष्ट्वा यमा निवर्तन्ते अदेशिकमिवाध्वगाः” ॥ २७ ॥  
 ‘थोऽस्ति सातिशयः कोऽपि प्रयत्नश्चात्मनो गुणः ।  
 तस्माद्बुद्धारणं नाम सिद्धं चात्रोपदिश्यते ॥ २८ ॥  
 अचोऽस्पृष्टास्तथान्तःस्था ईपत्स्पृष्टा भवन्ति हि ।  
 ‘अर्धस्पृष्टास्तु शपसाः, स्पृष्टाः शेषाः प्रकीर्तिताः ॥ २९ ॥  
 कादयो मौवसानास्ते हकारो विप्रकथ्यते ।  
 स्पर्श-नामं तत्स्थानी (?) च स्पृष्टेपत्करणं विदुः ॥ ३० ॥  
 स्वराणामूष्मणां चैव विवृतं<sup>६</sup> करणं स्मृतम् ।  
 वर्गाणां प्रथमाश्चैव द्वितीयाः शपसा अपि ॥ ३१ ॥  
 एते चाघोष विज्ञेयाः संवृतं करणं गताः ।  
 अल्पप्राणा भवेयुस्ते यमानां प्रथमैः सह ॥ ३२ ॥  
 ‘घोषवन्तस्तृतीयाश्च चतुर्थाश्चैव पञ्चमाः ।  
 अमी संवृतकण्ठाः स्युरल्पप्राणार्येणः स्मृताः ॥ ३३ ॥

।d : (२५) P. S. १६ (२६) N. २।८ (२७) N. २।९

२ : (२९) P. S. ३८ pb.—“अचोऽस्पृष्टा सपस्वीपक्षेमस्पृष्टा. शपसाः स्मृताः ।” इत्यादि ।

(३१) P. S. २१ द्वितीयं पंक्तिं “तेभ्योऽपि विवृतावेवै” इत्यादि हे ।

१ : १ पञ्चमान्तस्थो; २ ऊष्मा ०००, ३ उरसं ४ -न्त; ५ -न्तर; ६ माध्ययनं;  
 ७ क्तिष्ठे; ८ -र्णियाः ९ व-व्यानसरसैः १० था, ११ था- १२ यस्तः  
 १३ ना—; १४ -म १५, स्पृष्टेः पद करणं १६ -ति; १७ शपसा अपि  
 १८ दृष्ट्वा च १९ यगा

।संस्थाने द्वितीया (?) कारेण (?) चतुर्थकाः ।

७॥ प्रथमाः शयसा ह्रश्च द्वितीय-स्थान-भागिनः ॥ ३४ ॥

वकारश्च यकारश्च शाकटायनसंविदि ।

८॥ ईपत्सृष्टतरः प्रोक्तो दुःसृष्टो ..... ॥ ३५ ॥

९. जिह्वा-मूलीय-नामानमुपध्मानीयमेव च ।

१०. द्वितीयेन सवर्णस्य समानं वक्ति नारदः ॥ ३६ ॥

स्वरा वि(वृ)तकरणाः स्वरे तेभ्योऽधिको भवेत् ।

आभ्यां चैव त्वधिकता ततोऽप्याकार इष्यते ॥ ३७ ॥

अकारः संवृतो ज्ञेयस्तथाऽनुस्वार एव च ।

११. "अलावुवीणा-निघोषो देन्तमूल्यः स्वरानुगः" ॥ ३८ ॥

शैथिल्यं गाढवन्धं च मारद्वं स्फुटतां तथा ।

संयोगानां यथास्थानमूहतां शुद्ध-...द्धयोः (?) ॥ ३९ ॥

पिण्डो वर्तिश्च कूटश्च संयोगाश्च परे तथा ।

..... प्रस्तार-वर्ण-युक्तयः ॥ ४० ॥

सजातीयासजातीयेः संयुक्ता बहवो यदि ।

तदा वैकमनेकं वा प्रभिन्नोच्चारणं विदुः ॥ ४१ ॥

आधारोर्त्थितपवनो भवति यदा किमपि वक्तुकामस्य ।

तीव्र-प्रयत्न उच्चैः सर्वशरीराङ्ग-सन्धि-सञ्चारी ॥ ४२ ॥

टी०—( ४२-४५ ) पाणिनिमूत्र 'उवैरुदात्त' और 'नीचैरनुदात्त.' (१-२-२९, ३०) दोनों के भाष्य में "आयाम. = गायत्राणां निग्रहः । दारुण्यं स्वस्व दारुणता = रज्जुता; अशुता स्वस्व = मण्डस्य संशुता । उच्चैः प्रयत्न शब्दस्य ।" इत्यादि स्पष्टीकरण द्वारा उच्चनीच स्वरौचार में कारणमीमूत

Ad : (३८) P ५ २१

M : १ - स्था २ सु - ३ वि - ४ भातं सुर्वर्णो, ५ वतुमूय ६ सैथिल्यं,  
७ बन्धं ८ उच्च प्रयत्नो ९ प्रयत्न

गात्राणां निग्रहः स्यात्संवृतता च कण्ठविवरस्यं ।

वायोः स्वरस्य च तथा गतागते रूक्षता च वर्णस्य ॥४३॥

मुनयस्तमेवमेनं स्वरमाहुर्नुदात्तनामानम् ।

यदि च भवति प्रयत्नो मन्दः शैथिल्यं च सर्वगात्राणाम् ॥४४॥

कण्ठविवरस्य पृथुता वायोः स्वरस्य च हीनगामित्वात् ।

स्निग्धत्वमेवमेनं विदुरनुदात्तं तदा मुनयः ॥ ४५ ॥

उभयोर्गुणयोर्मध्यादुभयांशस्य स्पर्शनं भवति ।

इदमुपदिशन्ति वर्णं स्वरितं स्वरसंहिताचार्याः ॥ ४६ ॥

एतेषां तारतम्यवदुत्पत्तिं वर्णयन्ति सन्धीनाम् ।

उच्चमन्द्रस्य मध्यानां पदप्रवृत्तिः स्वराणां च ॥ ४७ ॥

कण्ठस्य प्पनीन्द्रिय की अवस्था पतञ्जलि द्वारा वर्णित है । मूल में यह कल्पना तै० प्रा० में आई हुई है—“आयानो दारुण्यमणुता खल्य०” इत्यादि ( २२।९ ) ।

स्प०—( ४५ ) i. श्लोक ४२ से ४५ तक के प० १९७ ऊपर ( अ० ११ ) पुनरुक्त हैं, जो नीचे के अनुसार हैं:—

“तथा च नारदः

“आधारोसित पवनो भवति यदा किमपि चंक्षुकामस्य ।

वीर-प्रप्ले उच्चैः सर्गशरीरग-संधि-सधारी ॥

गात्राणां निग्रहः स्यादणुता च कण्ठविवरस्य ।

वायोः स्वरस्य च तथा गतागते सभावश्च ॥

मुनयस्तमेवमेनं स्वरमाहुर्नुदान्त-नामानम् ।

यदि च भवति प्रयत्नो मन्दः खसतं च सकल-गात्राणाम् ॥

कण्ठविवरस्य पृथुता वायुस्वरोश्च हीनगामित्वात् ।

स्निग्धत्वमेवमेनं विदुरनुदात्तं तदा मुनयः ॥”

( इसमें की अशुद्धि वैसी ही रखी है । )

i. ये श्लोक नारदी शिक्षा में नहीं हैं ।

लकारस्यं हकारेण रेफेण च मनीपिभिः ।

अभिन्नस्थान-प्रयत्नात्सावर्ण्यमनुमन्यते ॥ ४८ ॥

उकारस्य वकारेण.....च कुत्रचित् ।

सकारस्य शकारेण सावर्ण्यं वक्ति नारदः ॥ ४९ ॥

स्वकारस्य छकारेण हकारो व्यवसर्गीयाः (?) ।

शपसांनामिहान्योऽन्यं, जकारस्य यकारतः ॥ ५० ॥

वकारस्य चकारेणानुप्रासे तु प्रयोजनम् ।

ज्ञेयस्तथा स्त्रुकारश्च (?).....कारो नस्य संनिधौ ॥५१॥

देशो वृत्तिः प्रवृत्तिः स्वजाति-वर्णा यथायथम् ।

देवता ऋपयश्चैव वक्ष्यन्ते वाचिके पुनः ॥ ५२ ॥

अनुप्रदानमधुना क्रमप्राप्तं प्रचक्ष्महे ।

अनुप्रदानमाख्यातं न्यूनताऽधिकता ध्वनेः ॥ ५३ ॥

बमोऽनुनासिकाश्चैव विज्ञेया अनुनादिनः ।

चतुर्थोश्च हकारश्च विसर्गः स्वरनादिनः ॥ ५४ ॥

अन्तःस्थाश्च तृतीयाश्च ईपद्मादा इति स्मृताः ।

द्वितीय-स्थानिनो ज्ञेया ईपच्छ्रुता अमी पुनः ॥ ५५ ॥

प्रथमाः शपसाः श्वास्तान्न प्रियान्तीदृशी गतिः ॥ ५६ ॥

३ अथ तृतीयं मात्राकाल-प्रकरणम्

कालः परापरयोगपद्यायोगपद्यविरक्षि (?) प्रत्यय-लिङ्गः ।

षको नित्यो.....कूटस्थः ॥ ५७ ॥

F : (५४) P. 8 ३९ (५५) P. 8 ३९ (५६) P. 8 ४० "इत्युक्त्यासाधो विज्ञान्-"

M : १ नकारेण २ -रेण ३ मा ४ -मा ५ -र्णा ६ -ण- ७ प्रमा ८ ज्ञेय  
९ साधना १० प्रयन्ते इती

निमेषाद्यस्तस्य क्रियावच्छेदाः कथ्यन्ते ।

निमेषो हि स्वाभाविको नयननिमीलन-मात्रो मात्रेत्यूह्यते ॥५८॥

अर्धमात्रानुस्वार-विसर्जनीय-जिह्वामूलीयोपध्मानीयाः

सर्वे वा.....ठिना वर्णाः ॥ ५९ ॥

तद्विगुणो ह्रस्वो; ह्रस्वस्य (द्विगुणो) दीर्घः ।

सन्ध्यक्षराणि च तान्येव; प्लुतस्तु त्रिमात्रिकः ॥ ६० ॥

दीर्घो ह्रस्वः सति स्वरिते अर्धमात्राद्वितयमनुदात्तम् ।

वागानुरंजिवो (?) वानुदात्तं तदग्रे वक्ष्यते ॥ ६१ ॥

“ऊकालोऽञ्जस्वदीर्घ-प्लुतः” इति ॥ ६२ ॥

ह्रस्वो लघुरित्याख्यायते ॥ ६३ ॥

स एव संयोगार्धमात्रानुस्वार-विसर्जनीय-जिह्वामूलीयोप-  
ध्मानीयेषु... वृत्तार्धवृत्तावसाने च गुरुवर्द्धयते ॥ ६४ ॥

सन्ध्यक्षराणि प्लुतान्येव गण्यन्ते, त्रिमात्रत्वात् ।

द्रुत-लघु-प्लुताश्च तालाध्याये दर्शयितव्याः ॥ ६५ ॥

गुरूणां लघुता क्वापि लघूनां गुरुता क्वचित् ।

प्राकृते छन्दसि प्रोक्ता ह्यपभ्रंशेऽपि भाषया ॥ ६६ ॥

“अदीर्घं दीर्घवत्कुर्याद् द्विस्वरं यत्प्रयुज्यते ।

कम्पितत्वरितागीतं ह्रस्व-कर्षणमेव च” ॥ ६७ ॥

कालः सृजति भूतानि, कालः संहरते प्रजाः ।

कालः सुप्तेषु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ६८ ॥

टी०—(६२) एक-दो-तीन मात्रा का स्वर-काल इस सूत्र में पाणिनि द्वारा वर्णित है ।

Ad : (९७) N ३।७, pb “कम्पोत्त्वरिताभिगीतो”

M : १-म- २ वक्षन्ति

४ अथ चतुर्थ्यर्थाधिक-स्वर-प्रकरणम्

स्वयमात्मानं रञ्जयति निपातनात्स्वर-निरुक्तिः ॥ ६९ ॥

स एक एव नाना-स्थान-भेदादुच्च-नीचादि-भेद-भिन्नः  
॥ ७० ॥ उदात्त एवेत्येके । उदात्तानुदात्तावित्येको भङ्ग-द्वय-  
मथाकरोत् ॥ ७१ ॥ स्वरित इति क्रीनपरे (?) ततः प्रचयं  
प्रचरीत (?) मन्त्रे.....मन्ये (?) । निघात-स्वर-  
मितरे ॥ ७२ ॥

“उदात्तानुदात्तश्च स्वरित-प्रचयौ तथा ।

निघातश्चेति विज्ञेयः स्वरभेदस्तु पञ्चधा” ॥ ७३ ॥

कुप्रातिस्वाराभ्यां सह सप्त सामगाः परिकल्पयन्ति ॥ ७४ ॥

टी०—( ६९ ) “स्वय रञ्जक होने से स्वर नाम दिया जाता है” यह स्वर-शब्द की  
निरुक्ति सर्व प्रथम व्याकरणकारों ने भाषिक ‘स्वर’ के नियम में कही थी,  
जो अपने सगीत-शालकारों ने सगीत में प्रतिष्ठ की:—(१) ‘तथास्वरति,  
तस्मात्स्वर ।’ ( गौ. ब्रा. ), (२) ‘प्राणो वै स्वर. ।’ ( ता. म. ब्रा. ),  
(३) ‘स्वय राजन्त इति स्वरा ।’ ( प. म. भा. ) इत्यादि ।

( ७४ ) । वैदिक काल में प्रथमतः ‘उदात्त’ नामक स्वर ज्ञात हुआ,  
तत्पश्चात् ‘अनुदात्त’ एव ‘स्वरित’ प्रकाश में आए । ‘प्रचय’ तथा  
‘निघात’ तक यह स्वर-संख्या पांच हो गई । सामगायकों ने ‘कुप्रा’ तथा  
‘अति-स्वार्थ’ को भी सम्मिलित कर सप्त-स्वरों की संख्या पूर्ण की ।  
यह स्वर विकास का इतिहास उपरोक्त श्लोक ६८-७३ तक  
नान्यभूपाल द्वारा वर्णित है ।

स्प०—(७४) इसके आगे के कई श्लोकों का अनुक्रम हमने सदर्भशात् परिवर्तित  
किया है ।

Ad. ( ७३ ) N ७१९

F. ( ९९ ) R १२५, M ६३

M १ तत्पश्चात्

यह सप्त-स्वर-शोध अत्यधिक प्राचीन है; क्यों कि यह सप्त-स्वर एवं तीन सप्तकों का निर्देश ऋक्सम्रातिशास्त्र ( खि० पू० ४०० के लगभग ) आदि में स्पष्टतापूर्वक उपलब्ध है । ( 'सप्तस्वरा ये यमास्ते' । इत्यादि, ४१-४५, तै० प्रा० ४।१३ ) । यह सप्त-स्वर सामवेद के 'ऋषादि' एवं उनमें से प्रत्येक स्वर एक दूसरे से उच्च कहा गया है :—

“ऋष-प्रथम-द्वितीय-तृतीय० ॥ १३ ॥ तेषां दीप्तिजोपलब्धिः” ॥ १४ ॥  
(—तै० प्रा० )

'उदात्त' 'अनुदात्त' और 'स्वरित' ये आदिकाल में संस्कृत भाषा के शब्दों के स्वराघात ( Accents ) थे, तदुपरान्त वे ऋचा एवं ब्राह्मणों के पठन-स्वर बन गये । बिहृद्ने ने उनका परिचय Accute, Grave एवं Circumflex आदि से दिया है । ( Whitney's S. Grammar, Para 81 ) ।

इसके पश्चात् जब इन ऋचाओं को साम-गीतों के रूप में गाने लगे, तब गद्य-स्वराघातों की उच्च-नीचता संगीतिक स्वरों की उच्च-नीचता में परिणत हो गई ।

“It is not unthinkable that—in principle—a connection should be found between the accentuation of the *rc* and the melody and the stotra.”

(—Vedic Chant, by G. M. van der Hoogt; P. 42)

• 'स्वर' और 'उदात्ता'दि संज्ञाएँ मूल में व्याकरण की थीं, उनको संगीत में स्थान मिला; इसका आशय यह है कि गद्य-मायिक स्वर, कालान्तर में पद्य तथा संगीत के स्वरों में विकसित हो गये ।

ii. वैदिक एवं सामवैदिक स्वरों का विवेचन तै० प्रा० में भली भाँति किया गया है :—

“द्वितीय-प्रथम-ऋषाख्य आहारकाः स्वराः ॥

मन्द्रादयो द्वितीयान्ताश्चत्वारस्तैत्तिरीयकाः ॥”

( तै० प्रा० २३।१५, १६ )

“लक्षणवशादुत्क्षेपिण इत्यर्थः । एतेन तृतीयमयधि कृत्वा चतुर्थाद्या अन्ववसर्ग इति लक्षणवशादवक्षेपिणः । तृतीयस्तु ध्रुतप्रचय इति गम्यते ।…… तृतीयस्तु समः । उक्षेपावक्षेपयोः । अस्त्वेवं सामवेदे; तैत्तिरीय-शाखायां किमाहयाताम्? तत्राहः—“मन्द्रादयो……” । मन्द्र-चतुर्थ-तृतीय-द्वितीयाः स्युः । अनुदात्त-स्वरित-प्रचयोदात्ता इत्यर्थः । एवं सामवेदोक्तं क्रमं निरूप्यास्मदाचार्यक्रमं निरूपयति :—

“द्वितीयान्मन्द्रस्तैत्तिरीयाणां तृतीय-चतुर्थावनन्तरं तच्च तुर्यमिल्याचक्षते ॥ १७ ॥”



द्वितीयादुदात्तादनन्तरं मन्द्र अनुदात्तः, तदनन्तरं तृतीय-चतुर्थी प्रचय-स्वरितौ; इत्यनेन क्रमेण चतुर्णां यमानां समाहारश्चतुर्थममिलाचक्षतेऽस्मत्पूर्वाचार्यः । उच्चतरा-  
दय उदात्तेऽन्तर्भवन्ति..... अतश्चतुःस्वरमेव तैत्तिरीयशाखायाम् ।" (टीका)

तदुपरान्त यही विषय नारदी शिक्षा में आया है । नारद ने ऋचा, कठ, तैत्तिरीय, शातपथ आदि के पठन में पृथक् पृथक् स्वरों का उपयोग बतलाया है ।

आचिकादि स्वरों के विषय में नारदी शिक्षा का कथन नीचे के अनुसार है:—

“अपातः स्वरशाखाणां सर्वेषां वेद-निश्चयम् ।

उच्चनीच-विशेषाद्भि स्वरान्यत्वं प्रवर्तते ॥ १ ॥

आर्चिकं गायिकं चैव सामिकं च खरान्तरम् ॥ २ ॥

एकान्तरः स्वरो ह्यक्षु गायामु बन्तरः स्वरः ।

सामसु व्यन्तरं त्रिधादेतायस्वरतोऽन्तरम् ॥ ३ ॥

.....कठकालापवृत्तेषु तैत्तिरीयाह्वारकेषु च ।

ऋग्वेदे सामवेदे च वक्तव्यः प्रथमः स्वरः ॥ ९ ॥

ऋग्वेदसु द्वितीयेन तृतीयेन च वर्तते ।

उच्चमध्यम-संघातः स्वरो भवति पार्थिवः ॥ १० ॥

तृतीय-प्रथम-क्रुष्टान्कुर्वन्साह्वारकाः खरान् ॥ ११ ॥

प्रथमश्च द्वितीयश्च तृतीयोऽथ चतुर्थकः ।

मन्द्रः क्रुष्टो ह्यतिस्वार एतान्कुर्वन्ति सामगाः ॥ १२ ॥

द्वितीय-प्रथमावेतौ ताण्डिमाह्वारिणां स्वरो ।

तथा शातपथावेतौ स्वरो वाजसनेयिनाम् ॥ १३ ॥

एते विशेषतः प्रोक्ताः स्वरा ये सार्धवेदिकाः ।

इत्येतच्चरितं सर्वं खराणां सार्धवेदिकम् ॥ १४ ॥”

नारद के उपरोक्त कथन के अनुसार:—

१. ऋग्वेद-पठन के स्वर तीन = प्रथम, द्वितीय, तृतीय = म-ग-रे ;

२. आह्वारक स्वर तीन = प-म-ग;

सामवेदिक स्वर सात = म-ग-रे-सा-नि-ध-पु;

ताण्ड्यादि मादणों के स्वर दो = म-ग; इस प्रकार होंगे ।

इसके अतिरिक्त वेदिक स्वरों का अलक्ष्य विवेचन याज्ञवल्क्य एवं माण्डूकी आदि अन्य शिक्षा-ग्रन्थों में किया गया है । सामिक स्वरों का विषय साम-परिभाषा, सामभूष, फुल्ल-भृश, पृङ्गवेचना आदि ग्रन्थों में आया है । पाश्चात्य वेदिक पण्डित मेण्डोनेल, धर्मेण्ड, चिह्दने, हॉग, सीमन्, फ्लीशर,

फेल्डर आदि ने वैदिक एवं सामवेदिक स्वरों का सुस्पष्ट विवेचन किया है । भारतीय लेखकों में श्री शेषगिरी शास्त्री अइयर, पं० सामाश्रमी, पं० लक्ष्मण शास्त्री द्रविड आदि इस विषय के इने गिने प्रतिपादक हैं । 'भारतीय संगीत' के लेखक स्व० मुले ने साम-स्वरों का विषय श्री० द्रविड शास्त्री की पुस्तक "The mode of singing Sāmāgāna" से लिया है । फॉक्स स्ट्रैन्वेज ने Music of Hindostan ग्रन्थ के Sāman chant (ch. X.) प्रकरण में पाश्चात्य पण्डितों के मतों का उत्तम संग्रह किया है; यद्यपि उनके अधिकांश निर्णय कल्पित प्रतीत होते हैं ।

( बनारस से प्रकाशित होनेवाले एक मासिक-पत्र 'वेद-वाणी' के एक लेख ( ई० स० १९४९ ) में हमने साम-संगीत का विस्तृत विवेचन किया है । )

iii. प्राचीन ग्रीक्स आर्यों के बान्धव एवं एक निश्चित कालतक सहचर थे । जिस कारण से ग्रीक संगीत में स्वरों के नाम भारतीय संगीत के स्वरों के उदात्तादि के समान लगभग होते हैं । ग्रीक संगीत की 'प्राचीन' पद्धति के अनुसार टोलेमी ने ये स्वर-नाम निम्नप्रकार निर्धारित किए हैं:-

Hypate, Highest,	Parahypate, next to highest,	Lichanus, fourfinger,	Mese ( middle finger ! )
---------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------------------

अर्थ:- उच्च प्रत्युच्च तर्जनीय मध्यम

Para-mese, next to mese,	Trito, Third,	Para-nete, next to lowest,	Nete Lowest
-----------------------------	------------------	-------------------------------	----------------

प्र-मध्यम तृतीय प्रणीच नीच

( Vide- "the Harmonics of Aristoxenus" P. 63 )

( Para=next to का भाषान्तर हमने 'प्रति' और 'प्र' शब्दसे किया है । अरिस्टोक्सेनस् का समय ई० पू० ३५० एवं टोलेमी का ई० स० १४० माना जाता है । )

उपरोक्त "उच्च" आदि ग्रीक स्वर-नाम एक विशेष दृष्टिकोण से निर्धारित किए गये हैं । हार्प-सदृश वीणा के अमुक तार से अथवा अमुक उंगली से झंझूत हो जाने से स्वरों के नाम रखे गये हैं । उदाहरणार्थ 'उच्च' नामक स्वर यद्यपि ध्वनि की दृष्टि से सब से नीचा है तथापि वीणा में उसका स्थान सर्वोपरि तार में निहित है, अतएव उसको उक्त नाम दिया गया है । 'तर्जनीय' 'मध्यम' एवं 'तृतीय' नाम, उन तारों को झंझूत करने वाली उंगलियों के आधार पर रखे गये हैं । वास्तव में 'प्रणीच' एवं 'नीच' सर्वोच्च स्वर हैं, किन्तु उनका स्थान

“अनुदात्तपरस्य सन्नतर इति ।” था (?) करणानाम् ॥७५॥

“क्रुष्टादधिको विक्रुष्टः स्वर एव प्रतिज्ञायते ॥ ७६ ॥

तदेवमल्युदात्तश्च स्वरितास्वरितौ तथा ।

निर्घातश्चानुदात्तश्च, ततः सन्नतरो भवेत् ॥ ७७ ॥

तथा च :—

“उच्चादुच्चतरं नास्ति नीचानीचतरं न हि ।

°(वैस्वर्ये स्वार-संज्ञायां किं स्थानं स्वार उच्यते?)” ॥७८॥

वीणा के निम्न तारों में लिखित है । अतः उनका इस प्रकार का नामकरण हुआ । इसका सारांश यह है कि इस प्रकार स्वरों की “उच्च-नीच” संज्ञा पूर्णरूपेण कल्पित थी । मध्ययुगीन पश्चिम और अरबी संगीत में भी इस प्रकार के स्वर-नाम प्रचलित थे ।

iv. [ जर्मन् वैदिक पण्डितों का एक शिष्ट-मण्डल ( Commission ) Herr Felix Duxner के प्रतिनिधित्व में ( ई० स० १९०४ ) वैदिक पठन के निरीक्षण हेतु भारत आया था । उक्त मण्डल ने ऋचा, साम और स्तोत्रादिकों के पठन के ग्रामोफोन रेकार्डस् लिए, एवं उनका अभ्यास करके डॉ० फेल्वर ने “Die indische Music der Vedischen und der Klassischen zeit” नामक पुस्तक सन् १९१३ में प्रकाशित की, जिसमें वैदिकादि स्वरों का विवेचन एवं स्वर-लेखन दिया है, जो निःसंदेह महत्त्वपूर्ण है । ]

( ७६ ) व्याकरणकारों ने ‘उदात्ततर’ अर्थात् ‘उदात्त’ से भी उच्च स्वर की व्यवस्था की है, एवं उसके ही आधार पर यहाँ ‘क्रुष्ट’ से उच्च स्वर ‘विक्रुष्ट’ की कल्पना ग्रन्थकार ने कर डाली है । ‘विक्रुष्ट’ स्वर-नाम का समावेश शिक्षा-ग्रन्थों में नहीं है ।

( ७८ ) इसके आगे का श्लोक ना० शि० में इस प्रकार है :—

“उच्चनीचस्य यन्मध्ये साधारणमिति श्रुतिः ।

तं स्वारं स्वार-संज्ञायां प्रतिजानन्ति शैक्षकाः” ॥ ७ ॥

स्प०—( ७५ ) यह पाणिनीय-सूत्र होगा, जो इस प्रकार शुद्ध होना चाहिए—  
“उदात्त-स्वरित-परस्य सन्नतरः ।” ( अ० १।२।४० ) । आगे श्लो० ८० की टीका देखिए ।

५ अथ पञ्चमं सामिक-स्वर-प्रकरणम्  
 तथा साम्नि स्वराणां च नीचोच्च-स्वरितोः पुनः ॥७९॥  
 अत्युदात्त उदात्तश्चानुदात्तोऽत्यनुदात्तकः ।  
 स्वरितश्चेति भेदाः स्युस्तथा सप्तस्वरा अमी ॥ ८० ॥

उपरोक्त श्लोक में नारद ने “स्वार” अर्थात् ‘स्वरित’ को ‘साधारण श्रुति’ अर्थात् बीच का स्वर कहा है । इसी आधार पर भरत ने अन्तर-काकली स्वरों को ‘साधारण’ की संज्ञा दी है । तत्पश्चात् रत्नाकर ने अन्य विकृतस्वरोंहेतु ‘साधारण’ संज्ञा का उपयोग किया । इस प्रकार ‘साधारण’ संज्ञा का मूल वैदिक स्वर संज्ञाओं के अनुरूप है ।

उपरोक्त श्लोक में ‘श्रुति’ शब्द स्वर के अर्थ में उपयुक्त है । पाणिनि के ‘एकश्रुति दूरात्सम्बुद्धौ’ इस सूत्र में ‘श्रुति’ का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है । सांगीतिक ‘श्रुतियों’ का मूल भी सामवैदिक स्वरों में ही रखा है, ऐसा प्रतीत होता है ।

( ८० ) उपरोक्त श्लोक में १ उदात्त, २ अत्युदात्त अर्थात् उदात्ततर, ३ अनुदात्त, ४ अत्यनुदात्तक अर्थात् अनुदात्ततर एवं ५ स्वरित वर्णित हैं । यह पंच-स्वर, सप्त-स्वर के निर्दर्शक हैं । पाणिनि ने उदात्ततर का निर्देश ‘उच्चैस्ताराम्’ शब्द से एवं ‘अनुदात्ततर’ का ‘सन्नतर’ से किया है । पतंजलि ने सप्त-स्वर इस प्रकार बतलाए हैंः-

“त एते तर-निर्देशे सप्त-स्वरा भवन्ति ।”

इन सप्त-स्वरों के अन्तिम दो स्वरों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्यों कि पतंजलि ने छठवें एवं सातवें स्वर का वर्णन इस प्रकार किया हैः-

“स्वरिते य उदात्तः, स अन्येन विशिष्टः । एक-श्रुतिः सप्तमः ।” ( १२।३३ )

उपरोक्त श्लोक में नान्यभूपाल ने सप्त-स्वरों की गणना करते हुए “उदात्ततर” आदि स्वरों का आश्रय लिया है, अतएव स्पष्ट है कि वे पतंजलि से पूर्णतः सहमत हैं ।

स्प०—( ७९ ) इसके आगे “उच्चैर्निपादगान्धारौ” इत्यादि श्लोक पुनरुक्त हुए हैं ।

अनेन प्रकारेण निपाद-गांधार-पङ्कज-मध्यम-पञ्चमर्षभ-  
तानां यथायथं सप्तस्वराणां विभङ्गो जायते ॥ ८१ ॥

अत्राह नारदः,

“उच्चैर्निपादगांधारौ नीचावृषभधैवतौ ।

स्वरित-प्रभवा ह्येते पङ्कज-मध्यम-पञ्चमाः” ॥ ८२ ॥

स्वरौ निपादगान्धारानुदात्ताविति कीर्तितौ ।

अनुदात्तौ तु विज्ञेयौ स्वरावृषभधैवतौ ॥ ८३ ॥

त्रयः स्वरितसंज्ञाश्च पङ्कज-मध्यम-पञ्चमाः ।

अत्युदात्तो निपादः स्याद्, गान्धारश्चाप्युदात्तकः ॥ ८४ ॥

प्रचयः पञ्चमो ज्ञेयः, स्वरितो मध्यमः स्वरः ।

निघातस्तु स्मृतः पङ्कजोऽनुदात्तो धैवतः स्वरः ॥ ८५ ॥

टी०—( ८१ ) सरौ का यह क्रम ‘उच्चैर्निपाद-गान्धारौ’ इत्यादि के अनुसार है ।

( ८२ ) यह श्लोक अन्यान्य शिक्षामंत्रों में भी आया है ।

१. पाणिनीय शिक्षा के श्लोक की प्रथम पंक्तिः—

“उदात्ते निपादगान्धारानुदात्त ऋषभधैवतौ ।”

(इसमें उन्नीस अक्षर होने से यह अशुद्ध है । उपरोक्त ‘उच्चैर्निपाद-गान्धारौ’  
इत्यादि पाठ ही शुद्ध रहेगा । )

२. वैश्वर्य में भी यह श्लोक आया हैः—

“गान्धर्ववेदे ये प्रोक्ताः सप्त पङ्कजद्वयः सराः ।

त एव वेदे विज्ञेयास्तत्र उच्चारद्वयः सराः ॥ ६ ॥

उच्चैर्निपाद-गान्धारौ” इत्यादि ॥ ७ ॥

( ८३-८६ ) i. ‘अत्युदात्त’ और ‘अत्युदात्त’ की कल्पना पूर्वोक्त  
श्लो० ७७ और श्लो० ८० में आई है, जो यहां पङ्कजादि सरौ के  
उपलक्ष्य में कही गई है ।

स्प०—( ८३, ८४ ) ये श्लोक ब्रह्मसंहिता ( अ० ३ ) में पुनरुक्त हैं ( प० ९,  
श्लो० २२, २३ ) ।

Ad : ( ८१ ) N c 10; P. 8. pb. 12

M. 1 भागवत १ अनुदात्त ३ प्रथमः

## ऋपभोऽत्यनुदात्तश्च तथा सन्नतरश्च सः ॥ ८६॥

ii. प्रातिशाख्यों के टीकाकारों ने क्रुष्टादि सप्त-स्वरों को उदात्तादि आर्चिक स्वरों में विभाजित किया है; किन्तु 'उच्चैर्निपाद-गान्धारौ' आदि व्यवस्था अस्पष्ट है। 'मन्द्र-चतुर्थ-तृतीय-द्वितीयाः स्युः । अनुदात्त-स्वरित-प्रचयोदात्ताः (२३।१६)।' यह तै० प्रा० टीकाकार द्वारा वर्णित व्यवस्था 'उच्चैर्निपाद-गान्धारौ' के अनुरूप है। उदाहरणार्थः—

(१)	मन्द्र,	चतुर्थ,	तृतीय,	द्वितीय
	नि	स	रे	ग
	अनु०	स्व०	प्र०	उ०

किन्तु ऋ० प्रा० की जो टीका 'त्रिभाषारत्न' ने स्पष्ट की है, उसमें थोड़ा अन्तर प्रतीत होता है :—'यो द्वितीयः स उदात्तः, यौ तृतीय-चतुर्थौ तौ स्वरितप्रचयौ ।'

	चतुर्थ	तृतीय	द्वितीय
	सा	रे	ग
	प्र०	स्व०	उ०

(२) तै० प्रा० के टीकाकार का कथन है :—“उदात्तादि उपर्युक्त क्रम साम-वेदोक्त है, जिससे तैत्तिरीय शाखा का क्रम भिन्न है।” (२३।१६, १७)

(३) उपरोक्त योजना में ऋ० प्रा० के भाष्यकार ने 'मन्द्र' (=निपाद) को अनुदात्त, एवं तै० प्रा० के टीकाकार ने 'तृतीय' (=ऋपभ) को स्वरित कहा है, वह अन्य ग्रंथों के कथन के साथ मेल नहीं रखता। नान्यदेव ने उपरोक्त श्लो० ८५, ८६ में उदात्तादिकों की योजना कही है, वह निम्नानुसार होगी :—

स	रे	ग	म	प	ध	नि
निषात	अत्यनुदात्त	} उदात्त	स्वरित	प्रचय	अनु०	अत्युदात्त
	सन्नतर					

प्रस्तुत विषय में प्राचीन ग्रंथकारों की मतभिन्नता देखने से प्रतीत होती है, कि इन प्रयत्नकारों की ये सभी योजनाएँ वैदिक स्वरों के साथ संगीत के स्वरों का संबन्ध जोड़ने की दिशा में केवल प्रयोगरूप थीं।

[ श्लो० ८५, ८६ इसी अध्याय में ऋ० २३, २४ के थे, जो संदर्भानुसार यहाँ स्थानान्तरित किये गये हैं। ]

( ४ ) वैदिक स्वरों का कुछ विवेचन नारदी शिक्षा में आया है, वह अन्य शिक्षा-ग्रंथोक्त विवेचन से अधिक स्पष्ट एवं विस्तृत है, जिसका सारांश नीचे दे रहे हैं :—

A. “अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्याम्यार्चिकस्य स्वरत्रयम् ।  
उदात्तश्चानुदात्तश्च तृतीयः स्वरितः स्वरः ॥ १।८।१ ॥  
य एवोदात्त इत्युक्तः स एव स्वरितात्परः ।  
प्रचयः प्रोप्यते तर्ज्जैर्न चात्रान्यत्स्वरान्तरम् ॥ २ ॥  
वर्ण-स्वारोऽतीत-स्वारः स्वरितो द्विविधः स्मृतः ।  
मात्रिको वर्ण एव तु दीर्घस्त्वस्वरितादनु ॥ ३ ॥  
स तु सप्तविधो ज्ञेयः स्वारः प्रत्यय-दर्शनात् ।  
पदेन तु स विज्ञेयो, भवेद्यो यत्र यादृशः ॥ ४ ॥  
जात्यः क्षैप्रोऽभिनिहितस्तौव्यञ्जन एव च ।  
तिरोविरामः प्रक्षिष्टः पादवृत्तश्च सप्तमः ॥ १० ॥  
उच्चादुच्चतरं नास्ति, नीचानीचतरं तथा ।  
वैस्वर्ये स्वार-संज्ञायां किं स्थानं स्वार उप्यते ? ॥ ६ ॥  
उच्चनीचस्य यन्मध्ये साधारणमिति श्रुतिः ।  
तं स्वारं स्वार-संज्ञायां प्रतिजानन्ति शैक्षकाः ॥ ७ ॥  
उदात्ते निषाद-गान्धारौ”.... ॥ ८ ॥ ३०

“स्वर उच्चः स्वारो नीचः, स्वरः स्वरित एव च ॥ २।५ ॥” ३०

सारांश, ( १ ) उदात्त, स्वरित एवं अनुदात्त यह आर्चिक अर्थात् ऋग्वेद-पठन के तीन स्वर हैं; ( २ ) उदात्त यह स्वरित से उच्च है; ( ३ ) प्रचय स्वतंत्र स्वर नहीं है; ( ४ ) स्वरित के दो प्रकार हैं—‘वर्णस्वार’ तथा ‘अतीत-स्वार’; ( ५ ) पुनः स्वरित के सात भेद शब्दों के प्रत्यय के अनुसार ‘जात्य,’ ‘क्षैप्र’ इत्यादि होते हैं; ( ६ ) उच्च तथा नीच दो स्वरों के मध्य में जो साधारण स्वर होता है, उसको ‘स्वार’ कहते हैं; ( ७ ) संगीत के स्वरों में गान्धार-निषाद दो स्वर उदात्त हैं, इत्यादि ।

B. प्रत्ययादि उपाधि से होनेवाले स्वरित के सात प्रकारों के उक्षण ना० शि० के द्वितीय प्रपाठक के प्रथम अनुभाक् में वर्णित हैं :—

“स-य-कारं च सर्वं याऽपाक्षरं स्वरितं भवेत् ।  
न चोदात्तं पुरजस्य, जात्यः स्वारः स उप्यते ॥ १ ॥  
इ-उ-वर्णौ यदोदात्तौ, आपद्येतां यत्रौ कचित् ।  
अनुदात्ते प्रत्यये नित्यं विघातस्य उक्षणम् ॥ २ ॥

अवप्रहात्परं यत्र खरितं स्यादनन्तरम् ।

तिरोविरामं तं विवाद्, उदात्तो यद्यवप्रहः ॥ ५ ॥” इत्यादि ।

पुनः कतिपय\_शब्दों में खरित तथा प्रचय खर नीच हो जाता है :—

“यदुदात्तमुदात्तं तद्यत्खरितं तत्पदे भवति नीचम् ।

यन्नीचं नीचमेव तद्यत्प्रचयस्यं तदपि नीचम् ॥ २।३।१ ॥”

खर के ‘नीच’-त्व के उदाहरण इस प्रकार दिये हैं :—

“अपमग्निः, सुतो, मित्रमिदं वयमयावहः ।

प्रियं, दूतं, घृतं, चित्तमभि-शब्दश्च नीचतः ॥ २ ॥” इत्यादि ।

द्वितीय प्रपाठक के सातवें अनुवाङ् में शब्दों की उच्च-नीचादि खर-व्यवस्था के आठ प्रकार कहे हैं :—

“अन्तोदात्तमाद्युदात्तमुदात्तगनुदात्तं नीच-खरितम् ।

मध्योदात्तं खरितं द्विरुदात्तमित्येता अष्टौ पदसंज्ञाः ॥ ५ ॥”

C. शब्दों के उदात्तादि खरो के कठोर तथा मृदु आघात के नियम नारद ने निम्नानुसार बतलाए हैं :—

“खरितात्पराणि यानि तानि धार्याक्षराणि तु ।

सर्वाणि प्रचयस्थानि ह्युपोदात्तं निहन्यते ॥ ७ ॥

प्रचयो यत्र दृश्येत, तत्र हन्यात्स्वरं बुधः ।

खरितः केवले यत्र, मृदु तत्र निपातयेत् ॥ ८ ॥”

D. खार तथा प्रचय के विषय में याज्ञवल्क्य शिक्षा के निम्नोद्धृत वचन अधिक स्पष्ट हैं :—

“उदात्तान्निहतः स्वार्यः स्वारोदात्तौ न तःपरी ।

खरितो यस्तथाभूतो ज्ञेयः स प्रचयः सदा ॥ २२७ ॥

उच्चानुदात्तयोर्वीगे खरितः स्वार उच्यते ।

ऐक्यं तत्प्रचयः प्रोक्तः, सन्धिरेषां मियोऽद्भुतः ॥ २२८ ॥”

E. उदात्तादि तथा सामिक खरों के विषय में माण्डूकी शिक्षा का स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :—

“सप्तस्वरास्तु गीयन्ते सामभिः सामगैर्बुधैः ।

चत्वार एव छन्दोभ्यस्त्रयस्तत्र विगर्जिताः ॥ ७ ॥

प्रथमाचन्तिगौ चैव वर्तन्ते छन्दसि स्वराः ।

त्रयो मध्या निवर्तन्ते मण्डूकस्य मतं यथा ॥ १७ ॥

उदात्तस्थानुदात्तश्च खरितः प्रचयस्तथा ।

चतुर्विधः स्वरो दृष्टः खर-चिन्ता-विशारदैः ॥ १९ ॥”



तात्पर्य याज्ञवल्क्य के स्पष्टीकरण के अनुसार उदात्त एवं अनुदात्त के संयोगयुक्त स्वरित को ही स्वार की मंज्ञा दी गयी है। तथा इन तीनों स्वरों के संयोग को प्रचय नाम दिया गया है। “य एयोदात्त इत्युक्तः०” इत्यादि श्लोक (१।८।२) में प्रचय यह अन्य स्वरान्तर नहीं होने का नारद ने इसी दृष्टि से कहा हुआ प्रतीत होता है।

F प्रातिशाख्यों में ‘स्वरित’ को उभय-गुणयान् स्वर कहा है :— ‘उभययान् स्वरितः’ (वा० प्रा० १।११०); तथा ‘समाहारस्वरितः’ (तै० प्रा० १।४०); ‘[समान-यमेऽक्षरं] आक्षिप्त स्वरितम्’ (च० अ० १।१६)। स्वरित की व्याख्या पाणिनि ने इसी के समान ‘समाहारः स्वरितः। तस्यादित उदात्तमर्थहस्तम्’ (१।२।३१, ३२) की है। भाष्य में पतञ्जलि ने ‘य इदानीमुभय-गुणः, स तृतीयामारया उभते :— स्वरित इति।’ इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है। स्वरित का अधिक स्पष्टीकरण ऋ० प्रा० ३।२, ३ और तै० प्रा० १।४१-४७ श्लोकों में किया गया है।

G बर्नेट्, मैक्डोनेल्ड इत्यादि विद्वानों का कथन है, कि “ऋक्पठन में स्वरित स्वर उदात्त के ऊपर प्रारंभ होकर उदात्त के नीचे तरु जाता था। तत्पश्चात् सामगायन में ‘स्वरित’ के इस उच्च को उपलक्षित करके उसको उदात्त से भी उच्च माना गया,” इ० (Fr p 265)। किन्तु आर्थिक तथा सामिक स्वरों का विवेचन शिक्षादि ग्रंथों में उपलब्ध है, उससे स्पष्ट होना है, कि स्वरित का स्थान उदात्त तथा अनुदात्त के मध्य में था।

इन्हीं विद्वानों के कथनानुसार ‘प्रचय’ स्वर धनिरीन (Tone less) होने से उमका स्थान अनिश्चित था (Ibid, p 265)।

H बर्नेट ने उदात्तादि स्वरों की तुलना फ्लेमिश सन्ध्यासी Huebald (इ. स. ८४०-९३०) के Excellentes, superiores, finales तथा graves स्वरान्तों से की है (-‘Saman chants’, by A. C Burnell, -Vide Tg c, p 409)।

फॉक्स स्ट्रॉन्ग्वेज ने उदात्तादि स्वरों का माध्य प्रीक संगीत के स्वरों के माप कर के बतलाया है (p 266), उसमें मध्यम=अनुदात्त, माध्यार=अनुदात्त, ऋक्म=स्वरित, पञ्ज=उदात्त, निपाद=अनुदात्त एवं धन्त=अनिर्वाय होने का कथा है, यह सामान्य नहीं लगता। स्ट्रॉन्ग्वेज की कल्पना इस प्रकार है :—

Lichanos,	parahypate,	hypate,	lichanos,
ख०	उ०	अनु०	ख०
प	म	ग	री
[ वास्तविक=ख०	ख०	उ०	अनु० ]

parahypate,	hypate,	proslambanomenos.
उ०	अनु०	अतिस्वार्य
स	नि	ध
[ वास्तविक=ख०	उ०	अनु० ]

(५) प्रथम कहा गया है, कि संस्कृत (वैदिक) शब्दों के स्वराघात षड्जादि स्वरों में परिणत हो गये । इसका कारण यह था, कि वैदिक स्वर आघात-रूप (accents) नहीं थे, वे गद्यभाषा के उच्च-नीच स्वर ही थे । संस्कृत की भाषा-भगिनी ग्रीक एवं लैटीन भाषा के शब्दाघात में स्वर की नीचोच्चता के रूप में थे, जैसा हेल्महोस्टज् के भाषान्तरकार पं० एलिस् ने स्पष्ट किया है :— "We must remember that the Greek and Latin so-called accents consisted solely in alterations of pitch, and hence to a certain extent determined a melody." (H. p. 239, n.)

तत्पर्य वैदिक संस्कृत भाषा ही गीतमय थी, उसका 'छन्दः' नाम भी इसी गुण का द्योतक है ।

प्रचलित भाषा में प्रयुक्त होनेवाले स्वरों की उच्चनीचता हेल्महोस्टज् ने औत्तर जर्मन् भाषा के वाक्यों के उदाहरण दे कर सिद्ध किया है :-

(१) नि॒ नी- नि॒ स नि॒ नि॒ मु॒ मु॒  
इह् विन् स्पा स्ती रेन् मे- गान्- गेन्  
(I have been walk-ing this morn-ing.)

(२) नि॒ नी- म म स स मु॒ मु॒  
विस्द् इ स्पा- स्ती- रेन् मे- गान्- गेन्!  
(Have you been walk-ing this morn-ing?)

तात्पर्य, सामान्य वार्तालाप में स्वर मध्यम उच्चत्व का (middle pitch) रहता है, जो हा-कार-युक्त वाक्य के अन्त में नीचे चतुर्थ स्वर तक उतरता है, एवं प्रश्नार्थक वाक्य के अन्त में ऊपर पाँचवें स्वर तक चढ़ता है। उपरान्त, महत्त्वपूर्ण शब्दों के ऊपर बल देने के हेतु उनको एक स्वर ऊपर चढ़ाया जाता है। अन्यान्य मापाओं में यह क्रिया भिन्न प्रकार से होगी। हेल्महोल्ट्ज का कथन है, कि इन्हीं भाषिक स्वरान्तरों का संगीत के (पहजादि) स्वरों में रूपान्तर करके श्लोकादि का पठन (recitation) करने की रीति प्रचार में आयी (p 238)।

(६) भरतमुनि ने नाट्योपयुक्त गद्य-पद्य-रूप पाठ्य के उदात्तादि चार स्वर (=‘वर्ण’), काकु, अठंकार इत्यादि तथा उनका विभिन्न रसों में प्रयोग निम्नानुसार कहा है :—

‘उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितः कम्पितस्तथा ।

वर्णाश्चत्वार एव स्युः पाठ्ययोगे...॥ १७।१०४ ॥

तत्र हास्यशङ्कारयोः स्वरितोदात्तैः ३० ॥ १०५ ॥’

प्रस्तुत विषय का विवरण नान्यदेव ने अ० ५ में किया है। इस विषय के स्पष्टीकरण में अभिनवगुप्त का कथन है, कि “पाठ्य स्वरों में केवल उच्च-नीचत्वादि गुण रहे हैं, किन्तु वे संगीत में प्रयोज्य स्वरों से भिन्न हैं, क्योंकि रक्तिप्रधान अनुरणन का उनमें अभाव है। सांगीतिक स्वरों से भिन्न पाठ्य-प्रयोज्य उदात्तादि स्वरों की ‘वर्ण’ संज्ञा भरतमुनि ने इसी कारण से की है। उदात्तादि पाठ्य-स्वरों में केवल उच्चादि-स्वान-स्पर्श का गुण निहित है, किन्तु रक्तिगुण नहीं है, जिस कारण से उदात्तादिक स्वर गान-विलक्षण हैं” इत्यादि। अभिनवगुप्त के वचन निम्नानुसार हैं :—

“तत्र स्वन-शब्देनैषां स्वरूप-निष्पत्तेराश्रयो दर्शितः। उदात्तानुदात्त-स्वरित-कम्पित-रूपतया स्वरणा यदक्ति-प्रधान-वमनुरणनमय तत्त्यागोच्च-नीच-मध्यम-स्वान-स्पर्शिन-मात्र पाठ्योपयोगीति दर्शितम्। यदि हि स्वरगता रक्तिः पाठ्ये प्राधान्येनावलम्ब्येत, तर्हि गान-क्रियाऽसौ स्वात्, न पाठः” ६० (१७।१०२)।

“जमाह पाठ्यमृश्वेदात्सामम्यो गीतमेव च ॥ १।१७ ॥”

“तत् (पाठ्यम्) श्रुवेदाद् गृहीतम्। तस्य त्रैस्वर्य-प्रधानस्य स्तोत्र-द्वारेण यागोपकारिकत्वात् पाठ्यमपि च त्रैस्वर्येभितम्। .. तदनन्तर “सामम्यो गीत जमाह” इत्युक्तम्। उपरल्लकत्वेन हि पश्चात्तत्याभिधानं न्याप्यमिति केचित्” ६०।

“पाठ्य में पूर्ण (=मान) स्वर नहीं होने से यह भिन्नता प्रतीत होती है,

ऐसा न मानें; कारण कि सात से कम स्वरों से भी संगीत का अनुभव हो सकता है, यदि वे स्वर संगीत के याने पड्जादि हो । उदाहरणार्थः—तीन या चार स्वरों से भी संगीत की प्रतीति होती है; जैसा कि, छोटी बाँधुरी में तीन ही स्वर होते हैं; कालिन्दी नामक राग केवल चार स्वरों का बना हुआ है, किन्तु इतने अल्प स्वरों से भी संगीत का अनुभव आता है, किन्तु पाठ्य के स्वरों से ऐसा अनुभव कदापि नहीं आता है” ३० ।

“पूर्ण-स्वरत्वाभावाद् अज्ञाना भेद इति चेत्, न । अपूर्ण-स्वरत्वेऽपि गानत्व-प्रतिज्ञानात् पाडवौडुवितयोः; त्रि-चतुर-स्वरत्वेऽपि गान-प्रतीतिर्भवत्येव, यथा कृत्रिम-वंशिकाया त्रैस्वर्यैः; भिन्नपड्ज-भाषाया च कालिन्द्यां चातुःस्वर्यैः । तस्माद् गान-रैलक्षण्याय रक्ति-लक्षण-धर्ममनादल्योच्चादि-स्थान-स्पर्श एवात्र प्रधानमिति वक्तुं वर्णोपादानम् । अन्यथा स्वरसप्तकातिरिक्तस्योदात्तादेर्भावादनर्थकं तदु-पादानम् ।” ( १७।१०२ )

अभिनवगुप्त ने कहा हुआ उपर्युक्त सिद्धान्त पाठ्य गद्य के विषय में सर्वथा ग्राह्य होगा । पाठ्य गद्य से आगे चलकर मन्त्र-पठन की क्रिया में पाठ्य स्वरों का स्वरूप थोड़ा परिवर्तित होता है । इससे भी आगे अनुष्टुप् जैसे छन्दों के पठन में प्रयुक्त इन्हीं स्वरों का स्वरूप गेय स्वरों की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है । तदपश्चात् कई वृत्तों के पठन में संगीत के समान ताल पथ स्वरों का प्रयोग भी होता है । बह्वधा, उदात्तादि पाठ्य स्वरों के इस स्थित्यन्तर को लक्षित कर के अभिनवगुप्त ने आगे पाड्ज्यादि जातियों के पड्जादि स्वरों का संबंध उदात्तादि स्वरों के साथ जोड़ा है । अभिनवगुप्त का विवरण निम्नानुसार हैः—

“उच्चता, नीचता, मध्यमता, उच्च-नीचोभयदोलाग्रलम्बनमिति चत्वारः स्वर-धर्माः ।.....पाठ्य-योगे काव्ये स्वरस्य रक्ति-भागमपहाय वर्णा एव वक्तव्याः । रक्ति-भागामिनिवेशे तु गान योगः; न पाठ्य-योगः ।..... हास्ये मध्यमायाः पञ्चम्या वा जातेः स्थायि-स्वरं गृहीत्वा तत्रैवोच्च-मध्यम-स्थान-स्पर्शेन पठेत् । एवं शृङ्गारवीरादिषु त्रिषु पाड्ज्या आर्पम्या वा स्वांशं गृहीत्वा तत्रैवोदात्त-कम्पितैः पाठः । करुणे निपादबन्धा गान्धार्या वा स्थायिनमालम्ब्यानुदात्तेन पाठः । वीभत्से धैबन्धा. स्वाश-स्वराश्रयेण स्वरित-कृतः । भयानके तस्वरावलम्बनेनैव कम्पित-प्रधानेन पाठः” ( १७।१०९ ) ।

उदात्तादि चार पाठ्य-स्वरों के रस भरतमुनि ने निम्नोद्धृत वचन में बताये हैं :—

“तत्र हास्य-शृङ्गारयोः स्वरितोदात्तैर्नीर-रौद्राद्भूतेषुदात्त-कम्पितैः, करुण-यात्सल्य-भयानकेष्वनुदात्त स्वरित-कम्पितैर्वर्णैः पाठ्यमुपपादयेदिति ।”

अथ मन्द्र-द्वितीय-प्रथम-चतुर्थ-अतिस्वार्य-तृतीय-सप्तम-  
पर्याय-कुष्ठ-शब्दैर्यथाक्रमं निपाद-गान्धार-मध्यम-(-पङ्क)-  
धैवतर्पम-पञ्चमा उच्यन्ते ॥ ८७ ॥

प्रतीत होता है, कि अभिनवगुप्त ने उपरोक्त भारत-वचन में निर्दिष्ट किये हुए उदात्तादि स्वरों का साम्य रसानुसार पाङ्ग्यादि जातियों के षड्जादि अंश-स्वरों के साथ मान लिया है। किन्तु यह साम्य बनाने के लिए अभिनवगुप्त ने ऋषभ को उदात्त, धैरत को स्वरित तथा गान्धार-निपाद को अनुदात्त स्वर कहे हैं, जो सामञस्य नहीं रखता। अभिनवगुप्त ने चतुर्थ दोलायमान स्वर को 'कम्पित' कहा है।

टी० :—( ८७ ) i. उपर्युक्त श्लोक अत्यन्त महत्त्व का है, क्योंकि सामिक कुष्ठादि स्वरों का अर्थ समझने के लिए इससे पर्याप्त आधार मिलता है। षड्जादि स्वरों के साथ कुष्ठादि स्वरों का मेल जोड़ देने में प्राचीन ग्रंथों की मतभिन्नता एवं अस्पष्टता के कारण जो शंकाएँ पैदा होनी थीं, उन सब का निराकरण नान्यदेव के प्रस्तुत एक ही वाक्य से पूर्णरूपेण होता है। नान्यदेव के कथनानुसार कुष्ठादि स्वर नामों से षड्जादि स्वरों का बोध निम्न-लिखित के अनुसार होता है:—

मन्द्र, द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ, अतिस्वार्य, तृतीय, ७=कुष्ठ  
नि, ग, म, सा, ध, रे, प,

[ नान्यदेव का प्रस्तुत वचन अ० ३ में प० ६८ पर आया है जिसको संदर्भशास्त्र यहाँ उद्धृत किया है । ]

ii. सामिक स्वर-सप्तक अत्रोही षा, उसमें क्रुष्ट स्वर आदिम एवं सर्वोच्च षा। फुल्लुम्वल सामगान का विवरण करनेवाला प्रमुग्ग ग्रंथ है, उसमें सामिक सप्तक का निर्देश 'कुष्ठादि' संज्ञा से ही किया गया है।

टी० :—( ८८, ८९ ) i. ये श्लोक ना० शि० के हैं; इनमें बताया हुआ स्वरक्रम समुचित है। किन्तु ना० शि० के G. तथा Bn. संस्करणों में श्लोक ८९ का पाठ:—

“चतुर्थः षड्ज इत्याहुः, पञ्चमो धैरतो भवेत् ।

षष्ठो निपादो विशेषः, सप्तमः पञ्चमः स्मृतः ॥ ११५२ ॥”

तथा च नारदेनोक्तम् :—

“यः सामगानौ प्रथमः स वेणौ मध्यमः स्वरः ।

यश्च द्वितीयो गान्धारस्तृतीयस्त्वृषभः स्मृतः ॥ ८८ ॥

चतुर्थः पङ्क इत्याहुर्निषादः पञ्चमः स्मृतः ।

धैवतः षष्ठ इत्याहुः सप्तमः पैञ्चमः स्मृतः ॥ ८९ ॥

इस प्रकार दिया है । प्रस्तुत पाठ के अनुसार अंतिम तीन स्वरों का क्रम ‘स-ध-नि’ इस प्रकार विपर्यस्त हो जाता है ।

ii. नारदोक्त स्वर-सारणा के श्लोकों में भी वही विपर्यस्त क्रम दिया गया है :—

“अङ्गुष्ठस्योत्तमे कुण्डोऽङ्गुष्ठे तु प्रथमः स्वरः ।

प्रदेशिन्यां तु गान्धार, ऋषभस्तदनन्तरम् ॥ १।७।३ ॥

अनामिकायां पङ्कस्तु, कनिष्ठायां तु धैवतः ।

तस्याधस्तादयोन्यस्तु निषादं तत्र विन्यसेत् ॥ ४ ॥”

प्रस्तुत श्लोक माण्डूकी शिक्षा में भी उपलब्ध है । श्लो० ४ की द्वितीय पंक्ति मां० शि० में निम्नानुसार दी हुई है :—

“तस्याधस्तात्तु योऽन्यः स्यान्निषाद इति तं विदुः ॥ १६ ॥”

उपरोक्त ना० शि० के श्लोकों में गान्धार से पूर्व ‘प्रथम’ और ‘ऋषभ’ क्रमशः कहे गये हैं, जिससे वे दोनों स्वर क्रमशः मध्यम एवं पंचम निर्धारित किये जा सकते हैं ।

iii. ना० शि० में प्रथम प्रकरण में सामिक स्वरों की नामावली इस प्रकार दी है, जो अत्यधिक भ्रामक है :—

“प्रथमश्च द्वितीयश्च तृतीयोऽथ चतुर्थकः ।

मन्द्रः कृष्टो ह्यतिस्वार एतान्कुर्वन्ति सामगाः ॥ १।१।१२ ॥”

तत्पर्य, नारद के उपरोक्त श्लोकों को स्वर-क्रम के निदर्शक नहीं मानना चाहिए ।

[ प० ६८ ऊपर उपरोक्त श्लो० ८७ पुनरुक्त हुआ है, किन्तु वह खंडित है :—

“चतुर्थः पङ्क इत्याह्याहुः.....।.....सप्तमः पञ्चमः स्मृतः ॥” ]

iv. साम-विधान ब्राह्मण में एक स्थान पर ऋषादि स्वरों का वर्णन करने-वाला वचन उपलब्ध है, उसमें के कई शब्दों के प्रथमाक्षर से संगीत के स्वरों के नाम ‘स-रे-ग’ इत्यादि निकाले जाते हैं, जो निम्नलिखित के अनुसार हैं :—

कृष्टस्य मूर्द्धनि स्थानं ललाटे प्रथमस्य तु ।  
 भ्रुवोर्मध्ये द्वितीयस्य तृतीयस्य च कर्णयोः ॥ ९० ॥  
 कण्ठस्थानं चतुर्थस्य, मन्द्रस्योरसि चोच्यते ।  
 अतिस्वारस्य नीचस्य हृदि स्थानं विधीयते” ॥ ९१ ॥

“तद्योऽसौ कृष्टतम इव साप्तः खरस्तं देवा उ (प) जीवन्ति । योऽनुरैषां प्रथमस्तं (म) नुष्याः । यो द्वितीयस्तं (ग) न्धर्वाप्सरसः । .....यः पञ्चमस्तम-सुर-रक्षासि । योऽन्यस्तमोप (घ) य ।” इसमें ‘यः पञ्चमः’ इत्यादि निपाद का वर्णन है, किन्तु उसमें निपाद को बतानेवाला ‘नि’ अक्षर नहीं है । अंतिम ‘अतिस्वार्य’ के लिए ‘ध’ अक्षर प्रयुक्त हुआ है । इसी के अनुसार अन्य प्रथों के वचनों से खरनामाक्षर निकाले जा सकते हैं, किन्तु परिणाम ठीक नहीं आता है:—

“वदन्ति देवताः कुष्टं, (म)नुष्याः प्रथमं खरम् ।  
 द्वितीय (प) शवः सर्वे, (ग) न्धर्वाप्सरसः खरम् ॥  
 अण्डजाः पक्षिणः (स)र्पश्चतुर्थमुपमुञ्जते ।  
 मन्द्रः पिशाचा (र)क्षासि.....॥” —वृ० देव० ९।१०८ ॥

“कुष्टेन (दे)वा जीवन्ति, प्रथमेन तु (मा)नवाः ।  
 (प)शवस्तु द्वितीयेन (ग)न्धर्वाप्सरसस्ततम् ॥” —ना० शि० १।७।६ ॥

v. महाभारत में पद्मजादि की नामावली में ध-नि का क्रम विपर्यस्त दिया है:—

“पद्मजर्षभश्च गान्धारो मन्थमः पञ्चमस्तथा ।  
 अतः परं तु विज्ञेयो निपादो धैरतस्तथा ॥ १४।५०।४२ ॥ अ० प० ॥  
 पद्मज ऋषभ-गान्धारौ मन्थमो धैरतस्तथा ।  
 पञ्चमश्चापि विज्ञेयस्तथा चापि निपादवान् ॥” शा० प० ॥

उपर्युक्त द्वितीय श्लोक में पंचम और धैरत का भी क्रम विपर्यस्त है । तात्पर्य, म० भा० की प्रस्तुत नामावली क्रम-निदर्शक नहीं माननी चाहिए ।

टी०:—( ९०, ९१ ) i. ना० शि० के इन श्लोकों में कुष्टादि खरों का क्रम उचित बताया गया है । ना० शि० के “कुष्टेन देवा जीवन्ति, प्रथमेन तु

मानवा । ( १।७।६-८ )” इत्यादि आगे के श्लोको में भी क्रुष्टादि का क्रम पृथायोग्य निर्दिष्ट किया गया है ।

श्लो० ९१ में “अतिस्वारस्य नीचस्य” इत्यादि से अतिस्वार को ( सब से ) नीच स्वर कहा है, इसी प्रकार ना० शि० के—“अतिस्वारेण नीचेन जगत्स्थानरजङ्गमम्” इत्यादि श्लोक में पुनरपि अतिस्वार को ‘नीच’ कहा है । तात्पर्य क्रुष्ट से प्रारंभ होनेवाली स्वरावली में अतिस्वार नीच याने अंतिम स्वर होता है । यदि क्रुष्टादि स्वरों में क्रुष्ट स्वर पंचम है, तो अंतिम स्वर ‘अतिस्वार्य’ यह धैरत होने वावत कोई शका न रहनी चाहिए । [ सा० वि० ब्रा० में अतिस्वार्य को ‘अनुस्वार्य’, ‘पठ’ एव ‘अन्त्य’ की सज्ञाएँ दी हैं । ]

ना० शि० के टीकाकार शोभाकर ने ‘क्रुष्ट सप्तम पञ्चम इत्युक्त’ कह कर सातवों स्वर क्रुष्ट यह पंचम ही है, इस प्रकार स्पष्टता की है ( १।७।३ ) । उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है, कि ‘अतिस्वार्य’ धैरत की ही सज्ञा यी ‘अतिस्वार’ सज्ञा नारदोक्त है, अन्य समी ग्रंथों में ‘अतिस्वार्य’ सज्ञा प्रयुक्त की गयी है ।

११ क्रुष्ट एव अतिस्वार्य नाम विशिष्ट अर्थ के सूचक प्रतीत होने है । बर्नेल ने ‘क्रुष्ट’ पाठ स्वीकार किया है और उसकी निरुक्ति ‘कर्पणयुक्त’ अर्थात् ( मध्यम से ऊपर ) ‘खींचा हुआ’—( ‘that to which कर्पण has been applied ) इस प्रकार बतलायी है ।

इसी प्रकार, ‘मन्द्र’ अर्थात् निषाद का विकर्पण करने याने उतार कर धैरत का निर्माण किया गया, इस विषय की सूचना बृ० देव० के निम्नलिखित श्लोको से मिलती है —

“मन्द्र कर्पणं सयुक्तगतिस्वारं तु तं विदुः ॥ १०८ ॥

विकर्पणेन तु मन्द्रस्य युक्तोऽतिस्वार्य उच्यते ॥ ११३ ॥”

नारद के निम्न-लिखित श्लोक में यही बात कही है, ऐसा अनुमान होता है —

“अपर्वत्वादसहत्वादव्ययवाचं नित्यश ।

मन्द्रो हि न हि भूतस्तु परिस्वार इति स्मृत ॥ १।७।५ ॥”

नारद के इस श्लोक में ‘अतिस्वार्य’ के लिए ‘परिस्वार’ शब्द प्रयुक्त हुआ है । ‘अव्ययवाद्’ शब्द क्लृष्ट है । ना० शि० के टीकाकार ने ‘अतिस्वार’ तथा ‘परिस्वार’ को निषाद माना है, अतएव प ध नि क्रम स्वीकृत किया है ।



‘अतिस्वार्य’ शब्द का विशिष्टार्थ—‘गीत-विभाग का अंतिम स्वर’ (‘Extremity of the cadence’) इस प्रकार कई पाश्चात्य विद्वानों ने किया है। ग्रीक संगीत में भी धैवत को ‘अतिरिक्त’ (Extra) स्वर मानते थे और उसी अर्थ में उसकी संज्ञा ‘Proslambanomenos’ की गयी थी (Fx. p. 260)। साम-गायन में क्रुष्ट स्वर का प्रयोग बहुत कम होता था। “उदात्तादि मूल वैदिक षोडश स्वरों में क्रुष्ट तथा अतिस्वार सम्मिलित कर साम-गायकों ने सात स्वरों की कल्पना की” ऐसा नान्यदेव ने इसी अध्याय के श्लो० ७३, ७४ में कहा है। नान्यदेव का उक्त कथन पाश्चात्य पंडितों के अनुमान के समान है।

iii. ना० शि० में प्रत्येक स्थान पर स्वरों के विषय में ‘प्रथम’ शब्द स्वर-नाम के रूप में प्रयुक्त किया गया है, क्रमाङ्क-निर्देश के लिए नहीं। तात्पर्य, कुशादि स्वर-निर्देश में ‘प्रथम’ यह विशिष्ट स्वर की संज्ञा है। उदाहरणार्थः—

- ( १ ) “ ऋग्वेदे सामवेदे च वक्तव्यः प्रथमः स्वरः ॥ १ । १ । ९ ॥”
- ( २ ) “ तृतीय-प्रथम-क्रुष्टान्कुर्वन्त्याहारकाः सरान् ॥ ११ ॥”
- ( ३ ) “ प्रथमश्च, द्वितीयश्च..... मन्द्रः क्रुष्टः ॥ १२ ॥”
- ( ४ ) “ द्वितीय-प्रथमावेती ताण्डि-भाङ्गविनां सरो ॥ १३ ॥”
- ( ५ ) “ यः सामगानां प्रथमः स वेणीर्मध्यमः स्वरः ।  
यो द्वितीयः स गान्धारस्तृतीयस्त्वृषभः स्मृतः ॥ १।५।१ ॥”
- ( ६ ) “ क्रुष्टस्य मूर्धनि स्थानं ललाटे प्रथमस्य तु ॥ १ । ७ । १ ॥”
- ( ७ ) “ अङ्गुष्ठस्योत्तमे क्रुष्टोऽङ्गुष्ठे तु प्रथमः स्वरः ॥ ३ ॥”
- ( ८ ) “ क्रुष्टेन देवा जीवन्ति, प्रथमेन तु मानवाः ॥ ६ ॥”
- ( ९ ) “ दीतां तां तु विजानीयात्प्रथमेन मृदुः स्मृता ॥ १३ ॥”

इसी प्रकार ‘द्वितीय’ ‘तृतीय’ एवं ‘चतुर्थ’ शब्द भी विशिष्ट स्वर-संज्ञा के रूप में—श्लोक १।५।१, २ छोड़ कर—ना० शि० में सभी स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं।

iv. वर्नेल ने क्रुष्ट को ‘प्रथम’ मानने की मूल की है। उसने लिखा हैः—  
“That the ऋष्ट is the first note, and that it is generally called प्रथम, there can be no doubt. सायण in his commentary on the आर्षेय ब्राह्मण mentions ऋष्ट repeatedly ( e. g. in I, 16 and 17 ) where the सामन् has the first note marked.” ( Tg C. p 409 )  
वर्नेल के इस विधान का संदेह करते हुए, स्ट्रैन्वैज ने टीका दी लिखता है, किः—

“ Moreover, No. V (= पुष्प-सूत्र ) alludes to the seven Swaras as क्रुष्टादि, ‘begining on क्रुष्ट’; So there is little doubt that the *Krusṭa* is above the *Prathamā*, and that another statement of Burnell’s that *Krusṭa* and *prathamā* are the same note is not univarsally true. ” ( Fx p. 257 )

v. पूना के पं० द्रविड शास्त्री राणायनी शाखा के सामगायक कहलाते हैं । आपने “ The mode of singing Sama Gana ” नामक पुस्तिका ( pp. 27 ) लिखी है, उसमें कृष्टादि स्वरों का विवरण आपने नहीं किया है, किन्तु सामिक सप्तस्वरों का अर्थ p. 3 पर निम्नानुसार दिया है:—

1	2	3	4	5	6	7
ma	ga	re	sa	ni	dha	pa

तदुपरान्त p. 7 पर सामिक स्वर—हस्त चित्रित किया है, उसमें अंगुष्ठ के अग्र पर ‘७ अतिक्रुष्ट, क्रुष्ट’ तथा अंगुष्ठ के द्वितीय पर्व पर—‘ग प्रथम ( क्रुष्ट )—मध्यम’ इस प्रकार स्वर के दो दो भ्रामक नाम लिखे हुए हैं । पं० मुले ने इस विषय में पं० द्रविड की पुस्तक का अनुवाद किया होने से ( पृ० ३३, ३४, ३९ ) उनका प्रतिपादन भी उपरिनिर्दिष्ट जैसा संदेहारपद हो गया है ।

vi. ऋ० प्रा०, तै० प्रा० एवं सामसूत्रादि प्राचीन ग्रंथों में स्वरों के लिए ‘यम’ संज्ञा प्रयुक्त हुई है । भाष्यकारों ने ‘यम’ का द्वितीय अर्थ स्वरों का मृदुत्व तथा तीक्ष्णत्व कहा है, जो श्रुतियों की ‘मृदु’ एवं ‘दीप्ता’ जाति-नामों के समान प्रतीत होता है । इस विषय में ऋ० प्रा० तथा भाष्यकार उवटाचार्य का कथन निम्नानुसार है:—

“मात्रा-संसर्गादवरे पृथक्श्रुती ॥ ४१ ॥”

भा०:—‘पृथक् श्रूयेते, इत्यर्थः । एवं श्रुति-विशेषो भवति ।’

“त्रीणि मन्द्रं मध्यममुत्तमं च ।

स्थानान्याहुः सप्त यमानि वाचः ॥ ४२ ॥

अनन्तरश्चाऽत्र यमो विशेषः ॥ ४३ ॥

सप्त-स्वरा ये यमास्ते ॥ ४४ ॥”

भा०:—‘पद्जर्षम-गान्धार-मध्यम-पञ्चम० इति गान्धर्ववेदे समाज्जाताः । तथा सामसु ‘कृष्ट-प्रथम-द्वितीय-तृतीय०’ इति ते नाम वेदितव्याः ॥’

“पृथग्वा ॥ ४५ ॥”

भा०:—‘अथवा स्वरैः पृथग्भूता अन्ये यमाः स्वरैः वर्तन्ते । एतेषां मृदुत्वं तीक्ष्णत्वं चेति वेदितव्यम् ॥’ ( तै० प्रा० २३।१२ )

तै० प्रा० ने आज के सप्तक-सदृश वाचा के सात स्थान 'उपांशु', 'ध्वान' इत्यादि बताये हैं, तथा मन्द्रादि तीन स्थानों में सात 'यम' कहे हैं। तै० प्रा० के कथन के अनुसार ये सात 'यम' ही 'क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय' आदि (सामिक) स्वर हैं तथा उनका क्रम अवरोही है :—

“सप्त वाचः स्थानानि भवन्ति ॥ ४ ॥

उपांशु-ध्वान-निमद्रौपन्धिमन्मन्द्र-मध्यम-ताराणि ।

मन्द्रादिषु त्रिषु स्थानेषु सप्त सप्त यमाः ।

क्रुष्ट-प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-मन्द्रातिस्वार्पाः ॥ १३ ॥

तेषां दीप्तिजोपलब्धिः ॥ १४ ॥”

भा० :—‘ दीप्ति उपलब्धिर्भवति । अतिस्वार्पादीतो मन्द्रः ..... ।’ ३०

उपर्युक्त सू० १४ में बतलाया है कि सामिक क्रुष्टादि स्वर अंतिम अतिस्वार्प को ले कर एक से एक उत्तरोत्तर उच्चतर हो जाते हैं, अर्थात् क्रुष्टादि स्वरों का क्रम अवरोही है। सू० १४ से स्पष्ट हो जाता है कि नारद द्वारा कहा हुआ 'सा-ध-नि' क्रम वास्तव में 'सा-नि-ध' ही होना चाहिए।

vii. A. मूल स्वरचतुष्क अर्थात् Tetrachord (tetra= चार; chord= स्वर) को संगीत के इतिहास में तथा विकास में अत्यन्त महत्त्व है, ऐसा संगीत के इतिहासकार मानते हैं। उनके प्रतिपादन के अनुसार कोई भी संगीत में उसका स्वर-सप्तक निर्माण होने के लिए प्रथम उसका स्वर-चतुष्क बनना अत्यावश्यक होता है। मूल स्वरचतुष्क निर्माण होने के पश्चात् ऐसे दो स्वरचतुष्कों को संयुक्त (conjunct) या वियुक्त (disjunct) रीति से जोड़ कर सप्तक या अष्टक पैदा किया जाता है।

उदाहरणार्थः—

वियुक्त } चतुष्क	स	रे	ग	म	+	प	ध	नि	सं
संयुक्त } चतुष्क	स	रे	ग	म		म	प	ध	नि

संगीत के इतिहासकारों के मतानुसार ग्रीक संगीत का मूल स्वरचतुष्क (अवरोही क्रम से)

ग रे स नि

इस प्रकार था।


B. तै० प्रा० ने मूल स्वर-चतुष्टय चतुर्थ्यम् नाम से बतलाया है । तै० प्रा० के भाष्यकार के स्पष्टीकरण के अनुसार क्रुष्टादि स्वरों का विभाजन निम्नप्रकार होगा:—

द्वितीय, प्रथम, क्रुष्ट = आन्धारक अर्थात् उक्षेपी स्वर ।


तृतीय = धृत-प्रचय अर्थात् सम स्वर ।

चतुर्थ, मन्द्र, अतिस्वार्य = अवक्षेपी स्वर ।

यहाँ पर तृतीय को सम स्वर कहा है, फलतः इस स्वर-समुदाय की रचना निम्नानुसार होगी:—




क्रुष्ट को पंचम मानने से प्रस्तुत स्वर-सप्तक इस प्रकार होगा:—



इस सप्तक में ऋषभ 'सम' स्वर कहा है, जो मध्यस्थ अर्थात् केन्द्र में स्थित स्वर है । एक दृष्टि से ऋषभ इस सप्तक का स्थायी (= आधार—) स्वर कहलायगा । भाष्यकार ने तृतीय स्वर को 'सम' स्वर कहा है एवं प्रस्तुत योजना सामवैदिक कही है:—

“तृतीयस्तु समः उक्षेपावक्षेपयोः । .....अस्त्वेवं सामवेदे ।” ( २३ । १५ )

C भाष्यकार के संप्रदाय के अनुसार उसने चतुर्थ्यम् की वृत्ति 'द्विरान्तरा' कही है:—'द्वितीयान्मन्द्रः ... तृतीय-चतुर्थी अनन्तरम्....।' बिहट्टने का स्पष्टीकरण 'Progression is by intervals of two tones' इस प्रकार है । भाष्यकार के कथनानुसार यह वृत्ति 'ग, नि, रे, स' इस प्रकार होगी । उक्त स्वर-चतुष्टय निम्नानुसार होगा:—



इसमें ऋषभ को 'प्रचय' कहा है; उसके 'सम' होने के विषय में कुछ कहा नहीं है; किन्तु उपर्युक्त के अनुसार 'प्रचय' नाम सूचक है । नान्यदेव ने श्लो० ८५ में

पंचम को 'प्रचय' की संज्ञा दी है । तथापि तै० प्रा० भाष्यकार ने उपर्युक्त स्वर-चतुष्टय में पद्ज (= 'चतुर्थ' ) को स्वरित कहा है ।

D. नारदी शिक्षा के "यः सामगानां प्रथमः" इत्यादि वचन से 'प्रथम' अर्थात् मध्यम सामिक सप्तक के प्रमुख होने का सूचित होता है, यद्यपि इस विषय में इससे अधिक स्पष्टीकरण नारद ने नहीं किया है । किन्तु सामिक सप्तक का आधार-स्वर मध्यम ही था, ऐसा भरत-वचन के आधार से निर्णीत कर सकते हैं । भरत का कथन निम्नलिखित है:—

“सप्तस्वराणां प्रथमो ह्यविनाशी तु मध्यमः ।

गान्धर्व-कल्पेऽभिहितः सामगैश्च महर्षिभिः ॥ २८।७३ का० ॥”

उक्त मध्यम-प्रारंभिक सामिक विलोम स्वर-चतुष्क निम्नानुसार होगा:—

प्रथम,	द्वितीय,	तृतीय,	-चतुर्थ
मं,	गं,	रें,	सां

इस प्रकार के दो स्वर-चतुष्कों को जोड़नेसे संयुक्त सप्तक आरोही क्रमसे निम्नलिखित के अनुसार निर्माण होगा:—

स	रे	ग	म				
			म	प	ध	नि	

संयुक्त चतुष्कों के आधार पर पंचम की प्राप्ति होती है, पश्चात् पंचम को आधारीभूत कर के विद्युक्त चतुष्कों का सप्तक अर्थात् अष्टक निर्माण हो सकता है; ऐसा कि:—

स	रि	ग	म	प	ध	नि	सं
---	----	---	---	---	---	----	----

E. संगीत की प्राथमिक अवस्था में प्रथम स्वर-चतुष्क द्वारा द्वितीय स्वर-चतुष्क निर्माण करने की क्रिया में वेशुवीणादि साधन सहायभूत हुए । वीणा पर प्रथम तंत्री के स्वर-चतुष्टय के अंतिम स्वर में द्वितीय तंत्री लगाने से अग्रिम तीन स्वर प्राप्त होते हैं, एवं संयुक्त सप्तक की उत्पत्ति होती है:—

( १ )

प्रथम तंत्री

द्वितीय तंत्री

आष	}	स
स्वर-		रे
चतुष्टय		ग
		म

}	म	अग्रिम
	प	
	ध	
	नि	

तीन स्वर

विभिन्न स्वरस्थानों का तथा स्वर-संवाद का ज्ञान अतीत में मानव को वीणा के कारण ही प्राप्त हुआ ।

उपरि-निर्दिष्ट द्वितीय तंत्री-जन्य स्वरचतुष्टय में द्वितीय स्वर पंचम है । पंचम में द्वितीय तंत्री लगाने से पंचमादि स्वर-चतुष्क प्राप्त होता है, जिससे वियुक्त सप्तक की उत्पत्ति होती है:—

( २ )

प्रथम तंत्री

०  
स—  
रे—  
ग—  
म—

द्वितीय तंत्री

०  
—प  
—ध  
—नि  
—सं

उपरोक्त ( १ ) के मध्यम की तंत्री को पड़ज की तंत्री मान लेने पर पड़ज की तंत्री पंचम की हो जाती है और ( २ ) वाली योजना अपने आप निर्माण होती है । स्वर-चतुष्क-जन्य सप्तकों की उत्पत्ति का इतिहास ग्रीक संगीत में स्पष्टतया उपलब्ध है ।

viii. शिक्षा-प्रणों के समय में सा-म-प स्वर 'स्वरित' के रूप में निश्चित हो गये थे । साम-सप्तक का प्रमुख-स्वर मध्यम था एवं साम-सप्तक की परंपरा भरत-संगीत में निरंतर चली आ रही थी, जैसा भरतमुनि के कथन से प्रमाणित होता है । सा-म-प स्वर स्वरित कहलाते थे, जिससे अनुमान कर सकते हैं, कि शिक्षा-प्रणों के समय में मध्यम और पंचम को पड़ज के संवादी के रूप में पहचानते थे ।

ix. ऊपर के प्रकरण xii ० में बतलाया गया कि तैत्तिरीय संप्रदाय का स्वरचतुष्क विलोम क्रम से ग-रे-स-नि इस प्रकार था । इस चतुष्क के आदिम स्वर गान्धार को धैवल्य माना जाय, तो यह चतुष्क 'ध-प-म-ग' के चतुष्क में रूपान्तरित हो जाता है । ग्रीक संगीत का मूल स्वर-चतुष्क 'ध-प-म-ग' अर्थात् 'ग-म-प-ध'-रूप था, ऐसा पाश्चात्य विद्वानों का कथन है । प्राचीन भारतीय स्वर-चतुष्क के विकास के विषय में पाश्चात्य विद्वानों का विवरण संक्षिप्त में यहाँ देना समुचित होगा:—

"If the cumulative effect of this evidence, chiefly circumstantial, may be said to have established any conclusion as to the original scale of India, we have found there, as in Greece, a starting point in a tetrachord of the form:

E	D	C	B
[ A	G	F	E ]

It is interesting to ask what is the musical justification of this particular series of notes, and of their development.

The music is purely vocal; no instrument is employed; and vocal scales are conceived downwards. They are so conceived because the telling notes of the voice are in its upper register, and this presents itself therefore as the starting point for a vocal scale, in its search for consonance the ear hears in the first instance only quintal, not tertian, harmony, as was explained. . . . Quintal harmony provides only Fifths, Fourths, and major tones. It has been shown, that in looking for harmony to a given note the Fifth occurs first in an upward series, but the Fourth in a downward. A vocal scale, conceived downwards, establishes therefore the Fourth before the Fifth, the tetrachord before the pentachord. The intermediate notes can only be filled up by major Tones, for no other interval is as yet present to the ear. As soon as the major Third is heard it corrects no doubt one of these major Tones into a minor tone.

In proceeding beyond this tetrachord there is nothing, apparently, in the nature of things to decide whether the F (= ऋ) above should be added, as consonant to C (= ऋ), or the A (= ऋ) below as consonant to D (= ऋ). The F was, as a fact, added first. This is seen to be a result of the circumstance that the E (= ऋ) was a graced note. It was if we may judge from the modern secular usage, seldom sung pure; an upper note was so to say, inherent in it; and this determined to an F (= ऋ) rather than an F + (= ऋ ऋ) owing to the C (= ऋ) below. The A (= ऋ) was added also; but, as the interest of the chant lay at the other end of the tetrachord, this A (= ऋ) became more or less atrophied, and a G (= ऋ) was never added below it. Meanwhile the F (= ऋ) inherited the musical importance which had attached to the E (= ऋ), and the tetrachord F-C (= ऋ-ऋ) competed with the tetrachord E-B (= ऋ-ऋ) for supremacy.

६ अथ पष्ठं स्वर-सारणा-प्रकरणम्

अथेदानीं प्रसंगायाता स्वरसारणाऽभिधीयतेः—

पताकेनात्र हस्तेन कुर्यादङ्गुलिचालना ।

अङ्गुष्ठस्य मुखाग्रेण तर्जनी-मूल-सारणात् ॥ ९२ ॥

उदात्तः स स्वरो नाम वेदविन्निरुदाहृतः ।

कनिष्ठामूल-संस्पर्शादनुदात्त इति स्मृतः ॥ ९३ ॥

स्वरितोऽनामिका-मूल-संस्पर्शाद्यः स्वरो भवेत् ।

मध्यमामूलतो विद्यात्प्रचयं स्पर्शनादपि ॥ ९४ ॥

It was here that the Greeks parted company; and the reason for their doing so is instructive. They continued their tetrachord A-E (= ष ग) upwards through a B<sup>b</sup> (को. नि) and downwards through a D (= रे), but we do not make out that the tetrachord B<sup>b</sup> F (= त्रि-म) ever attained any sort of eminence in their song. The B<sup>b</sup> did not come into their scale as a 'graced' A, as the Hindu F was a graced E. For they aimed at singing their notes pure, as Aristoxenus tells us. They regarded their B<sup>b</sup> therefore merely as a consonant to the F below, not also as a kind of heightened E." (Fx. p. 279)

टी०:—i. उदात्तादि स्वरों की अंगुलि-सारणा इन श्लोकों में बतलायी है । तै० प्रा० की टीका 'त्रिभाषारत' में उक्त सारणा निम्न-लिखित हैः—

( १ ) "उदात्तमाख्याति वृषोऽङ्गुलीनाम् ।

प्रदेशिनी-मूल-निषिष्ट-मूर्धा ॥

उपान्त-मध्ये स्वरितं, धृतं च ।

कनिष्ठिकायागनुदात्तमेव ॥ १ ॥

शिक्षा-वचनमपि चैवम् वक्ष्यतिः—

( २ ) कनिष्ठिकाऽनामिका च मध्यमा च प्रदेशिनी ।

नीच-स्वार-धृतोदात्तान् अङ्गुष्ठाग्रेण निर्दिशेत् ॥ ”

उपर्युक्त श्लो० ( १ ) तथा ( २ ) में कही योजना निम्नानुसार होगीः—

अं० + त०	म०	अना०	कनि०
┌───┐			
उ०	धृ०	प्र०स्व०	अनु०



निपादोऽप्यथ गान्धारः पङ्कज-मध्यम-पञ्चमाः ।

ऋषभो धैवतश्चेति क्रमात्स्यात्स्वर-सारणा ॥ ९५ ॥

अङ्गुष्ठेन निपादः स्याद् गान्धारः स्पर्शनाद् भवेत् ।

तर्जन्याश्च स्वरः पङ्कजो, मध्यमायाश्च मध्यमः ॥ ९६ ॥

पञ्चमोऽनामिका-स्पर्शात्कनिष्ठा-मध्य-पर्वगः ।

स्पर्शनाद्ऋषभो ज्ञेयो, धैवतः स्यात्सुमूलतः ॥ ९७ ॥

ii. पा० शि० में 'उदात्तमाह्वयति वृषः०' इत्यादि श्लोक उपलब्ध है और तदनंतर निम्नलिखित श्लोक दिया हुआ है:—

“उदात्तं ( प्र- ) देशिनी विधात्, प्रचयं नप्यतोऽङ्गुलिम् ।

निहितं तु कनिष्ठिस्या स्वरितोपकनिष्ठिकाम् ॥ ४४ ॥”

iii. श्रोत्रधार करते समय प्रयोज्य 'हस्तप्रक्षेप-विधि' पा० शि० में निम्नानुसार कहा है:—

“अनुदात्तो हृदि ज्ञेयो, मूर्ध्नुदात्त उदाहृतः ।

स्वरितः कर्ण-मूलीयः, सर्वास्ये प्रचयः स्मृतः ॥ ४८ ॥”

मग्न-श्रोत्रों में दिव्य शक्ति रही है, ऐसी उन लोगों की श्रद्धा थी, बाद में संगीत के स्वरों को तथा रागों को यह दिव्य सामर्थ्य और अद्भुतता दाप में प्राप्त हो गयी ।

टी०:—i. यहाँ सारणा से अभिप्राय एक प्रकार के स्वर-लेखन (notation) से है । ऋग्वेदादि-पठन हेतु अक्षरों को ऊपर नीचे रेखाङ्कित किया जाता था, एवं यहाँ तीन स्वरों से सारा कार्य होता था; उसमें उदात्त स्वर के लिए कोई चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता था; वर्ण के नीचे आड़ी रेखा लिख फर अनुदात्त स्वर चिह्नित करते थे एव स्वरित स्वर को चिह्नित करने के लिए अक्षर के ऊपर लंन-रेखा रची जाती थी; जैसा कि:—

अग्निमीळे णुगेहितम् वृद्धस्य देवम् ऋत्विजम् ।

साम-गान की अनेक रीति अर्थात् अनेक शाखाएँ थीं । बर्नेल ने ( १८७६ ई० ) पाँच शाखाओं के नाम:—( १ ) कौथुम, ( २ ) जैमिनीय, ( ३ ) रागायनीय, ( ४ ) गीतगी तथा ( ५ ) त्रैमेष इत्य प्रकार कहे हैं जैमिनीय छः स्वरों को एत रागायनीय साम स्वरों को प्रयुक्त करते थे ।

सामिक स्वरलेखन का विस्तृत विवेचन करनेवाला मुख्य ग्रंथ फुल्लसूत्र है, अन्य महत्त्व का ग्रंथ पञ्चविध-सूत्र नामक है। इन ग्रंथों का संशोधन-पूर्ण संपादन जर्मन् पंडित सीमन् (R. Simon) ने १९०९ ई० में किया, जिससे सामिक स्वरलेखन-पद्धति के ऊपर प्रकाश डाला गया। ह्यूट ने इस संबंध में लिखा है:—

“R. Simon's studies were the first to reveal the सामवेद as the most ancient source from which to draw our knowledge of Veda music” ( Pref. )

सामिक स्वरलेखन के उदाहरण संक्षिप्त में निम्नलिखित हैं:—

( १ ) 'वै ३ हीं ३ पी २, ३, ४, ५, १'

धक्षर-शीर्षस्थ अंक को 'प्रकृति-स्वर' एवं परवर्ती स्वरों को 'विकृति-स्वर' अर्थात् तानरूप स्वर कहला जाता है। उपर्युक्त उदाहरण में 'वै' के शीर्षस्थ 'द्वितीय' स्वर प्रकृति-स्वर है एवं 'वै' के पश्चात् का ३ तथा 'पी' के परवर्ती २, ३, ४ और ५ विकृति-स्वर कहलाते हैं। 'प्रथम' स्वर के पूर्व अथवा बाद में जब 'द्वितीय' स्वर 'प्रथम' के 'कन'—( grace note ) रूप में प्रयुक्त होता है, तभी 'द्वितीय' को ७ अंक से लिखा जाता है।

( २ ) कौथुम-पद्धति का स्वरलेखन साम-परिभाषा ग्रंथ के अनुसार निम्नलिखित है:—

कुं०,	प्र०,	द्वि०,	तृ०,	च०,	मन्द्र,	अतिस्वार्थ
( प,	म,	ग,	रे,	स,	नि,	ध )

क्रुष्ट को चिन्हाङ्क ११ दिया है, किन्तु संहिता में अंक १ से ही काम चला लेते हैं। साम-संहिता में अर्थात् साम-गीतों में क्रुष्ट स्वर केवल दो ही स्थानों पर आया है:—

A. द्वितीय आज्ञा साम, बृहती छंदः

“मो<sup>२</sup> र<sup>१</sup> पु<sup>२</sup> त्वा<sup>१</sup> वापतश च ना ६ ए ॥” इ० १।२।८४ ॥

B. गायत्री, आपि० १।३; आरण्य-गान ५।२।११:

“यस्येदम् आ रजो युतः ।” इ०

ii. प्रचलित ध्रुवपद, ख्याल आदि गान-प्रबंधों के विभाग 'स्वाधी' 'अन्तरा' इत्यादि होते हैं, उन्हींके समान प्रत्येक सामगीत के विभाग 'प्रणव', 'उद्गीथ' इत्यादि होते थे एवं विशिष्ट यादिक पुरोहित विशिष्ट गीत-विभाग को गाता था।

प्रथम विभाग 'प्रणव' अर्थात् ओंकार गा कर साम-गीत का आधार-स्वर (key-note) स्थिर करने में आता था । कोई गीत अं० १ से प्रारंभ होता था, तो अन्य किसी गीत का प्रारंभ अं० २ से अर्थात् 'द्वितीय' स्वर से होता था । अंक २ वाला गीत अंक १ वाले की अपेक्षा 'नीच' कहलाता था, इस बात का स्पष्टीकरण फु० सू० ५।१९१ में किया गया है, जो निम्नानुसार है:—

‘वादौ मन्ते नीचैः पुना प्रत्नम् ।’

अर्थ:—“गीत के प्रथम शब्द की संज्ञा 'समन्त' होती है । 'पुना नः' आदि गीत-प्रस्ताव के 'समन्त' 'पुना' का स्वर २ है, जो १ स्वरवाले गीत से नीच कहलाता है ।”

उदाहरण:—

( १ ) 'पुना नः सोम धारया ।'

( २ ) 'प्रत्नम् सधस्तम् आसदात् ।'

'प्रणव' और 'चतुर्थ' स्वर से प्रारंभित गीत—प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:—

( १ ) 'त्वम् होता नो अय्यराई ।'

( २ ) 'त्वम् अग्ने गृहपताई ।'

यदि पूर्ववर्ती अक्षर का स्वर तत्पश्चात् के अक्षर तक चान्द्र रहता है, तो ऐसे अक्षर पर 'र' चिह्न लिखा जाता है ।

iii. उपर्युक्त 'वादौ मन्ते०' इत्यादि सूत्र में बतलाया है, कि गीत-प्रारंभिक स्वर के अनुसार गीतों की उच्च-नीचता पैदा होती है; जिसका अभिप्राय यह हुआ कि गीत-प्रारंभिक स्वर परिवर्तित होने से गीतों का धाट भी परिवर्तित होता है; यद्यपि इस विषय का अधिक विवरण उपलब्ध नहीं है ।

iv. सामिक स्वर-साराणा स्वरद्वय (musical band) के रूप में नारद ने गात्र-वीणा के नाम से कही है:—

“दारवी गात्र-वीणा च द्वे वीणे गान-जातियु ।

सामगी गात्र-वीणा तु, तस्याः संशुणु लक्षणम् ॥ १। ६। १ ॥

गात्र-वीणा तु सा प्रोक्ता यस्यां गायन्ति सामगाः ।

स्वर-व्यञ्जन-संपुका ह्यङ्गुल्यङ्गुष्ठ-रञ्जिता ॥ २ ॥

.....अङ्गुष्ठस्योत्तमे कुष्ठः....६० ॥ १। ७। ३, ४ ॥”

v. सामिक सप्तक अवरोही क्रमका था, कारण कण्ठ्य सप्तक अवरोही होता है, यह स्पष्टीकरण पाश्चात्य पंडितों के मतानुसार है । साम-गान की साथ-संगत वेणु-वादन से करने में आती थी, परिणामतः सामिक सप्तक का क्रम अवरोही हो गया, इस प्रकार पं० मुले का स्पष्टीकरण है ( भा० सं० पृ० ३३ ) ; किन्तु वैदिक युग में वीणा का प्रचुर प्रचार था और इस बात का निर्देश पं० मुले ने भी किया है ( पृ० २७, ४३ ) । ऐतरेय आरण्यक में 'अथ खल्वियं दैवी वीणा भवति ।' इत्यादि ( ३।२।५ ) वीणा का वर्णन उपलब्ध है ।

कछिनाथ ने एक वैदिक वचन उद्धृत किया है, जिसके आधार से प्रमाणित होता है, कि यज्ञान्त-गान अर्थात् सामगान में साथ-संगत के लिए वीणा का उपयोग किया जाता था । उक्त वचन निम्न-लिखित के अनुसार है:—

“.....तावदश्चमेध-प्रकरणे 'ब्राह्मणौ वीणा-गायिनौ गायतो ब्राह्मणोऽन्यो गायेत' इति श्रुतेः ।” ( सं० र० १।१।३० )

धार्मिक गीत-गायन ( Psalms and liturgical services ) वीणा की साथसंगत से करने की प्रथा सुमेरियन् ( ई० पू० ३००० ) लोगों की भी थी, जो तयश्वाव के बाबिलोनियन्, असीरियन् और बाद में प्राचीन यहूदी लोगों ने स्वीकृत की । अतिप्राचीन सुमेरियन्स वेणु की साथ-संगत लेते थे (—Lg.) । सुमेरियन् और सिंधु-घाटी संस्कृति ( ई० पू० २८००—२५०० ) में घनिष्ठ संबंध था । सिंधु-घाटी संस्कृति बादमें भारतीय संस्कृति में विलीन हो गयी ( Ved. Age. p. 195-197 ) ।

vi. सामिक स्वरों का मूल्य निश्चित करने के लिए आवश्यक प्रमाण शिक्षादि ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है, फलतः-इस विषय में विद्वानों में मतभिन्नता है । ह्यूट ने लिखा है:—

“Burnell and Sheshagiri Shastri tried to delimitate the intervals 1-2, 1-3 etc., by connecting the Vedic notation with the classic Indian tone-system; They arrived at different results, which is a matter of course because the sources are contradicting each other.” ( p. 37 )

गत अर्धाधिक शती से साम-गायकों की परंपरा छह-सी हुई है, किन्तु बर्नेल के समय सांप्रदायिक साम-गायक विद्यमान थे । इस विषय में बर्नेल का कथन उन्ही के शब्दों में यहाँ देना उपयुक्त होगा:—

“The music of the Sāman chants has been often mentioned by me, that I shall try to give an idea of it, as it is now sung by the the Sāma Veda priests. Here, as in other respects,

there are numerous शब्दा differences and I shall, therefore follow the practice of the वैदुसी शब्दा, the only one of which I have been able to obtain sufficient information. The art is very nearly extinct, and this is a good reason for describing it, especially as the only European who studied it in India—Dr. Haug—is now no more.

.....They (Sāman chants) are, as might be expected, on an imperfect scale of notes, but modes do not appear to be used, except one. The Sāman chants resemble in some respects the Gregorian or Plain Chant, and the two kinds of music approach one another in many points. The Sāman, however, being the older and less cultivated, one occasionally meets with passages which are forbidden by the rules of the plain chant, and are, to a foreigner's ear, by no means pleasing.

The notation, as has been already remarked varies exceedingly as the MSS., come from different parts of India; and it is not too much to say that it would be almost impossible to find two MSS. which precisely agree.....Every copyist, therefore, follows a different plan in details, for almost every one adds marks and signs of his own to assist him in chanting notes.

It would be useless to give the complicated notation as used in the S. Indian MSS, for these letters amount to several hundreds. The principle of the modern notation by numbers is far more simple. The seven notes are marked by the numerals—1, 2, 3, 4, 5, 6 and the last (really never used) by 7 or —. Of these the first = F (=  $\pi$ ) and the rest E, D, C, B, A, G.

It is necessary to point out (as there has been much confusion on this point) that the gānās are not *accented* in the ordinary sense of the word, or like the other Vedas; but that the marks which form such a prominent feature in the text are actually musical notes. I have ascertained this by means of a standard pitch-pipe.

The difficulty in understanding their true nature has arisen out of the attempts to classify the notes, and also to connect them phonetically, with the accents. It is not difficult to understand this by comparison with similar attempts of mediæval students of music." (Tg. C. 407-8).

तात्पर्य यह, कि बर्नेल ने (१) सांप्रदायिक साम-गायकों को सुना या, (२) सामगायन के स्वर संगीत के ही स्वर होते हैं इस विषय में Pitch-Pipe के साधन से तुलना कर के उसने निश्चय कर लिया था, (३) उसके अनुभव के अनुसार साम-गान में लगभग एक ही थाट का सतक प्रयुक्त होता है, (४) और वह थाट मेजर मोड याने विलावल का होता है ।

दाक्षिणात्य परंपरा के अनुसार एग. शेषगिरि शास्त्री ने साम गान का सतक आभोगी राग का बतलाया है (D. O. M. I; I-pp. 3, 4); आभोगी राग का थाट काफी का है और उस में पंचम तथा निपाद वर्जित है ।

तात्पर्य, इस विषय में बर्नेल और शेषगिरि शास्त्री दोनों के निर्णय भिन्न हैं, किन्तु अधिक विचार करने पर प्रस्तुत मतभिन्नता का निराकरण हो सकता है । एक क्रुष्ट स्वर को ही पंचम और मध्यम मानने से उक्त दो भिन्न थाट पैदा हो सकते हैं; जैसा कि:-

	‘प्रथम’	द्वि०	तृ०	च०	मन्द्र	अतिस्वार्य	क्रुष्ट
१ काफी:—	म	ग	रे	स	नि	ध	प
स्वरान्तर→		१	३	१	१	३	१
२ विलावल:—	प	म	ग	रे	स	नि	ध

तात्पर्य, काफी थाट के मध्यम को पंचम मानने से वही स्वरसमूह विलावल थाट का प्रतीत हुआ । अर्थात् ‘प्रथम’ स्वर को ‘पढ़ने’ में भिन्नता हो गयी, जिससे थाटों में भिन्नता आ गयी ।

vii. सामिक सतक का अर्थ उगाने के लिए नारदी शिक्षा का ही आधार लिया जाता है । कम से कम ग्राम-रागों तक का संगीत ना० शि० के समय प्रचलित था; कारण कि ना० शि० में ‘राग’ तथा ‘ग्रामरागों’ का निर्देश आया है; जो इस प्रकार है:—

A. ‘तान-राग-स्वर-ग्राम-गूर्च्छनानां तु उक्षणम् ॥ १। २। ३॥’

B. ‘ऋषभोत्पितः पद्मजहतो धैवतसहितश्च’ इत्यादि प्रमुख सात ग्रामरागों का वर्णन, श्लो० १। ४। ५—११॥

अपना संगीत साम-गान से प्रादुर्भूत हुआ है, ऐसा प्राचीन ग्रंथकारों का निवेदन है । इस संबंध में ग्रंथकारों के कुछ वचन निम्नानुसार हैं:—

(१) ‘सामभ्यो गीतमेव च’ ॥—म० ना० १। १७॥

(२) भरत-संगीत के 'मद्रक' 'अपरान्तक' आदि सप्त गीत-प्रबंध 'सामवेद-समुद्भव' थे, ऐसा दत्तिल ने कहा है (द० २२२) ।

(३) संगीत में गीतों के शब्द खंडित या पुनरुक्त कर के गाये जाते हैं, इस क्रिया के पक्ष में कछिनाथ ने मतंग का वचन उद्धृत किया है, जिसमें सामगान की प्रथा का उदाहरण दिया गया है:—

“सामवेदे गीत-प्रधान आवृत्तिषु अर्था नाऽऽद्रियन्ते । . . . . सामवेद-प्रकृतिके संगीते गानवशात् क्वचित् पदानां पुनरुक्तिरर्धोक्तिश्च न दोषाय०” ।

(सं० २० १२५ क०)

(४) रत्नाकर ने प्राचीन राग-रूप 'कपाल' के गीत दिये हैं, उनमें साम-गायनान्तर्गत “ही हौ, कं ऊं” इत्यादिक स्तोभाक्षर प्रयुक्त हुए हैं । इन गीतों को 'श्रव-प्रोक्त-पदावली' कहा है (१।८।१४) ।

(५) 'सामवेदादिदं गीतं संजग्राह पितामहः ।' (सं० २० १।१।२५) "सामवेदादिदम्" इति, तत्संग्रह-रूपत्वं च गीतस्यापि सप्तस्वरात्मकत्वात् । सामनि हि क्षुष्ट-प्रथम-द्वितीय० सप्तस्वराः । इह तु त एव यथायोगं पञ्जादि-व्यपदेशभाज इति ब्रह्मणाऽपि वेदादुद्धृत्य संग्रहे साधार्णिकव्यप्रयोजनमिति भावः" (—क०) । स्वरों के विषय में 'सामवेदात् स्वरा जाताः' इस प्रकार मतंग का भी वचन है (स्रो० ९०) ।

(६) भरतोक्त 'ध्रुवा' गीतों में वैदिक ऋचा आदिओं का भी समावेश होता था:—

“या ऋचा पाणिका गाथा सप्तरूपाङ्गमेव च

सप्तरूपं प्रमाणं हि सा ध्रुवेलभिसंज्ञिता ॥ ३२ । २ ॥

ऋग्गाथा-पाणिका शेषां बोद्धव्यास्तु प्रमाणतः ॥ ४१६ ॥”

(७) संगीत के 'जाति'-नाम का संबंध रत्नाकर ने साम-गान के साथ बतलाया है:—“साम-समुद्भूता जातयो वेद-संमिताः ।” (१।७।११)

(८) चौदासी 'तानों' के नाम रत्नाकर ने 'अग्निद्योम अलग्निद्योम वाजपेय' इत्यादि दिये हैं, इनमें से पैंतीस तानें मतंग ने भी दी हैं । इन तानों के नाम 'अग्निद्योम' आदि यज्ञ-नाम हैं । एव प्रत्येक तान का फल नामसदृश यज्ञवत् कहा है:—

“यद्यज्ञनामा यत्तानस्तस्य तत्फलमिष्यते ॥ १ । ४ । ९० ॥” उक्त तानों का प्रयोग सामगान में बतलाने हुए कछिनाथ ने निम्नोक्त उद्धरण दिया है:—

‘उत्तर-मन्द्रानुगता गायेत्त्रिंशो मुदा युक्तः ।  
गान्धारा रक्षोघ्नीस्यौद्गात्रे मूर्च्छेना विहिताः ॥  
आग्निष्टोमिक-तानेन गीतं साम शृणोति यः ।’  
.....इत्यादि ।

viii. A. भरत-मुनि ने संगीत (=गायन) का विषय नारद के ग्रंथ से नाट्यशास्त्र में लिया है । इस संबंध में भरत के अनेक वचन उपलब्ध हैं:—

१: ‘गान्धर्वं चैव वाद्यं च स्वातिना नारदेन च ।

विस्तार-गुण-सम्पन्नं उक्तं लक्षण-कर्मतः ॥ ३४ । ३ ॥’ का०

२: ‘नारदाद्याश्च गन्धर्वा गानयोगे नियोजिताः ॥ १ । ५१ ॥’

३: ‘स्वाति-नारद-संयुक्तो वेद-वेदाङ्ग-कारणम् ॥ ५२ ॥’

४: ‘ध्रुवा-संज्ञानि तानि स्युर्नारद-प्रमुखैर्द्विजैः ॥ ३२ । १ ॥’

५: ‘अधिष्ठितं मया स्वर्गे स्वातिना नारदेन च ॥ ३८ । २० ॥’

६: ‘यथोक्तं मुनिभिः पूर्वं स्वाति-नारद-पुष्करैः ॥ ३४ । २ ॥’

‘गान्धर्वमेतत्कथितं मया च

पूर्वं यदुक्तं प्रपितामहेन ॥ ३३ । २२ ॥’

प्रस्तुत श्लोक की द्वितीय पंक्ति का० पाठ के अनुसार:—

‘पूर्वं यदुक्तं त्विह नारदेन’ इस प्रकार है ।

नारद का कोई वचन भरत ने उद्धृत नहीं किया है ।

ना० शा० के अ० २९ के अलंकार-प्रकरण में ना० शि० के—

‘श्रुतयोऽन्या द्वितीयस्य मृदु-मध्यायताः स्मृताः ।’

इत्यादि दो श्लोक आये हैं, वे अपूर्ण एवं अवसरानुकूल नहीं होने के कारण प्रक्षिप्त हैं ।

B. भरत-शिष्य दत्तिल का ग्रंथ ना० शा० का संक्षेप ही है ।

दत्तिल ने नारद को संगीतशास्त्र का कर्ता कहा है:—

‘गान्धर्वं नारदादिभ्यः प्रत्तमादौ स्वयम्भुवा ।

विधिवन्मनारदेनाय पृथिव्यामवतारितम् ॥ २ ॥’

C. दत्तिल के कथनानुसार ‘अग्निष्टोम’ आदि तान-नाम नारदादि द्वारा कहे गये हैं, जो कि मुद्रित ना० शि० में वे उपलब्ध नहीं हैं:—

‘अग्निष्टोमादि-नामानस्त उक्ता नारदादिभिः ॥ ३१ ॥’

D. मत्तंग, नान्यदेव और रत्नाकर ने नारद के नाम पर अनेक श्लोक उद्धृत किये हैं, वे सब के सब ना० शि० में मिलते हैं, जिससे अनुमान लगा सकते हैं कि मत्तंग के समय नारद का संगीत ग्रंथ नारदी शिक्षा यही था ।



तत्र यदा च पञ्चपद-सहित-वाक्यानां विविधाः स्वरा इति वैयाकरणानाम् ॥ ९८ ॥ तदेवं प्रस्तूय.... ..। ये चानु-क्रमेण वर्णास्तत्समुदायो, यस्मिन्नर्थे तत्पदम् ॥ ९९ ॥ तैर्ना-माख्यातोपसर्ग-निपाताख्यैः स्वर-संस्कार-समर्थैर्वृक्षमिव.....  
.....तार्थो (?) यावद्भिर्निराकाङ्क्षी क्रियते ॥ १०० ॥ स वाक्यार्थः । उच्यते :- नानेति वाक्यम् । तत्रेदं संज्ञाचतुष्टयं नोपपद्यत इति ॥ १०१ ॥ दुःस्वरं आचार्या मन्यन्ते । वाक्यं यन्निमित्तत्वात् ॥ १०२ ॥

1x मध्यम स्वर के अग्निनाशित्य के समय में भरतमुनि ने साम-गान का आधार प्रस्तुत किया है । भरत के उक्त कथन से सिद्ध होता है, कि साम-गान का विकास हो कर अपना सगीत निर्माण हुआ । ना० शि० में ग्रामरगों का निर्देश उपलब्ध है, फलतः मानना पड़ेगा कि विकास की यह अवस्था नारद-पूर्व ही पूर्ण हो गयी थी । इस कार्य में ग्रीक सगीत भी सहभागी हुआ होगा । दत्तिल तथा नारद द्वारा निर्दिष्ट 'स्वर्ग' दूरस्थ निर्देश (=ग्रीस) हो सक्ता है ।

साम सप्तक का स्वरूप :- उपरिनिर्दिष्ट ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार होना चाहिए —

म प ध नि स रे ग म

इस सप्तक का आधार-स्वर (Key note) मध्यम है, ऋषभ धैरत तीव्र एव गान्धार निपाद कोमल हैं । इस विषय की अधिक चर्चा बाद में की जायेगी ।

( ९८-११८ ) : इन श्लोकों में 'शब्द' की उत्पत्ति, निश्चानित्यता आदि विषयों का विवेचन किया गया है । इस विषय की विस्तृत चर्चा नैयायिकों ने तथा साहित्यशास्त्रकारों ने की हुई है ।

11 वर्ण, वाक्य और उनके सदृश से सांगीतिक 'ध्वनि' के विषय में मतंग ने कुछ विचार प्रदर्शित किये हैं, जो पठनीय हैं —

“ यथानुभूत-देशाच्च ध्वने स्थानानुगादपि ।

ततो विन्दुस्ततो नादस्ततो मात्रास्त्वनुगमात् ॥ ४ ॥

वर्णास्तु मात्राकोद्भूता, मात्राया द्विविधा मता ।

स्वर व्यञ्जन-रूपेण जगज्ज्योतिरिहोच्यते ॥ ५ ॥

पद-वाक्य स्वरूपेण वाक्यार्थग्रहणन यत् ।

वर्णाद्यते जगत् सर्वं, तेन वर्णा प्रकीर्तिता ॥ ८ ॥

यो हि शब्द उच्चार्यमाणो नित्यः । अन्यथा अनित्यः

॥ १०३ ॥ उच्चारित-प्रध्वंसत्वात् । अपरोऽप्युच्चार्य.....

पूर्वं प्रध्वस्तं सद् असदो.....प्रध्वंसाभावात् ॥ १०४ ॥

एवमेते वर्णाः परस्पर-संबन्धं लभमाना अर्थवाचकाः । एतेषां

नियत-सख्या-क्रम-वचन-समुदायः ॥ १०५ ॥

वर्णपूर्वकमेतद्धि पदं ज्ञेयं सदा युधैः ।

पदैस्तु निर्मितं वाक्यं क्रिया-कारक-संयुतम् ॥ ९ ॥

ततो वाक्यान्महावाक्यं वेदाः साङ्गा ह्यनुक्रमात् ।

व्यक्तास्ते ध्वनितः सर्वे; ततो गान्धर्व-सम्भवः ॥ १० ॥

ध्वनिर्योनिः परा ज्ञेया, ध्वनिः सर्वस्य कारणम् ।

आक्रान्तं ध्वनिना सर्वं जगत् स्थावरजङ्गमम् ॥ ११ ॥

ध्वनिस्तु द्विविधः प्रोक्तो व्यक्ताव्यक्त-विभागतः ।

वर्णोपलम्भनाद् व्यक्तो देशीमुखमुपागतः ॥ १२ ॥”

iii. उपरोक्त श्लो० १० में ‘गान्धर्व’ और श्लो० १२ में ‘देशी’ शब्द आया है। ‘गान्धर्व’ का सामान्य अर्थ है—प्राचीन याने ‘मार्ग’ संगीत; और ‘देशी’ का अर्थ है—प्रचलित याने ‘लक्ष्य’ संगीत।

‘गान्धर्व’ का मूल अर्थ है—शास्त्रीय ( Classical ) संगीत। यह अर्थ नारद, भरत और दत्तिल के वचनों से सिद्ध होता है। नारद ने गान्धर्व की निरुक्ति इस प्रकार कही है:—

‘ गेति गेयं विदुः प्राज्ञा, धेति कारु-प्रवादनम् ।

वेति वाद्यस्य विज्ञेयं गान्धर्वस्य विरोचनाम् ॥ १ । ४ । १२ ॥’

आगे नारद ने ‘गान्धर्व’ शब्द संगीत के अर्थ में प्रयुक्त किया है:—

“.....गान्धर्वे श्रुति-सम्पदः ॥ ७ । १८ ॥”

“गान्धर्वे गाने धृतेरभावेऽपि तत्सदृशः स्वरः कार्यः । ”—श्लो०

भरतमुनि ने दी हुई व्याख्या भी इसी प्रकार है:—

“यत्तु तद्गीश्रुतं प्रोक्तं नानातोद्य-समाश्रयम् ।

गान्धर्वमिति तज्ज्ञेयं स्वरताल-पदाश्रयम् ॥ २८ । ८ ॥

गान्धर्वं त्रिविधं विद्यास्वर-ताल-पदात्मकम् ॥ ११ ॥”

तद्भावात्पदमित्यं, तद्वाक्यं वा यदेतत्संज्ञाचतुष्टयं  
स्वर-संस्कारादि-जातं तत.....तरामेतदाश्रयत्वान्नेत्युच्यते  
॥ १०६ ॥ आत्मनो नित्यत्वात् । सर्वमेव नित्यमिति । आत्मा हि  
नित्यो विभुरिति सर्वेषां मतम् ॥ १०७ ॥ स एकोऽपि बुद्ध्याऽ  
नेकरूपेण कार्यमा<sup>०</sup> (-पन्नोऽ) नेक एव लक्ष्यते । घटपटाकाश-  
वत् ॥ १०८ ॥

दक्षिण ने इसीका अनुवाद किया है:—

“पदस्यः स्वर-सङ्घातस्थालेन सुमितस्तथा ।

प्रयुक्तधावधानेन गान्धर्वमभिधीयते ॥ ३ ॥”

रत्नाकर ने संगीत के “गान्धर्वं गानमित्यस्य भेदद्वयमुदीरितम् ।”

इस प्रकार दो भेद बता कर उनका व्याख्यान निम्नानुसार किया है:—

“अनादि-सम्प्रदायं यद्गान्धर्वैः संप्रयुज्यते ।

नियतं श्रेयसो हेतुस्तद्गान्धर्वं जगुर्गुधाः ॥ ४ । २ ॥

यत्तु वागेयकारेण रचितं लक्षणान्वितम् ।

देशीरागादिषु प्रोक्तं तद्गानं जनरञ्जनम् ॥ ३ ॥”

रत्नाकर के इस वचन के अनुसार ‘गान्धर्व’ में देशीरागों का अन्तर्भाव नहीं होता है। देशीराग अर्थात् रागाङ्गादि चतुष्टय (सं० १० ४ । २ । २ ।)। इस विषय में कल्लिनाय का स्पष्टीकरण सहायकारक होगा, जो निम्नानुसार है:—

“गान्धर्वं मार्गः, गानं तु देशीत्यवगन्तव्यम् । अनादि-संप्रदायमित्यनेन गान्धर्वस्य  
वेदयदपौष्ट्येयत्वमिति सूचितं भवति । गानं तु वागेयकारादि-प्रातर्वाकापौष्ट्येयमेव ।  
.....जात्यायन्तरभाषान्तं यदुक्तं तद्गान्धर्वमित्यर्थः ॥ ” (—क०)

तात्पर्यं रागाङ्ग, भाषाङ्ग, क्रियाङ्ग और उपाङ्ग रागों को देशीराग एवं गान संज्ञा दी गयी है । किन्तु रत्नाकर के समय में कतिपय ग्रामराग एवं भाषाराग प्रचलित थे, जिन्हें देशीराग ही कहा जाता था, जैसा रत्नाकर ने स्पष्ट किया है:—

“प्रसिद्धा ग्रामरागाद्याः केचिदेशीत्यपीरिताः ।” ॥ ४ । २ । ३ ॥

“प्रसिद्धा ग्रामरागाद्या अपि पञ्चम-रैवगुप्त-नट्टनारायणादयः तैऽपि देशी-  
शब्देनोच्यन्ते ।” (—क०)

सारांश, रत्नाकर के समय के पूर्व जो संगीत था, उसको उसने गान्धर्व संगीत की संज्ञा दी है । मतंग ने भी भाषारागों का अंतर्भाव गान्धर्व संगीत में किया

“इमं बुद्धि-विषयमात्मानमिदं मनोज्यमात्मानमनु-  
क्रमेत्” इति श्रुतेः ॥ १०९ ॥ स आत्मा तस्य या प्रकृति-  
प्रत्ययागम-विकाराख्या ह्यभिधान-रूपिणी बुद्धिः ॥ ११० ॥ तथा  
बुद्ध्या घट-पटाद्यभिधेयरूपादर्थान्निश्चित्य चान्यस्मै वक्तुमनि-  
श्चितं (?) नियुङ्क्ते ॥ १११ ॥ तत्तथैवाभिधेय-गर्भ-वायुमु-  
त्पादयितुं कायाग्निमाहन्ति ॥ ११२ ॥ ततो वायुरुत्थित उरः-  
प्रभृतीन् स्थान-विशेषान्प्राप्य नादिनश्चानुनादिनश्च स्वराञ्जन-  
यति ॥ ११३ ॥ स्थान-प्रयत्न-करण-विभागेन च मूर्ध्नि स्थितो

हुआ प्रतीत होता है, कारण कि भाषाराग-प्रकरण के पश्चात् उसने देशी रागों का वर्णन किया है :—

“अतः परं प्रवक्ष्यामि देशी-राग-कदम्बकम् ।” (पृ० १४१)

तात्पर्य मतंग के समय ही भरतसंगीत नष्टप्राय हुआ था, फलतः मतंग रत्ना-  
करादि ने भरतसंगीत को पवित्र और मोक्षदायक माना होगा । रत्नाकर ने गान्धर्व  
संगीत को “गन्धर्वैः संप्रयुज्यते” एवं “नियतं श्रेयसो हेतुः” स्पष्ट ही कहा है ।

देशी रागों की व्याख्या मतंग ने इस प्रकार दी है :—

“अबला-बाल-गोपालैः क्षितिपालैर्निजेच्छया ।

गीयन्ते सानुरागेण स्वदेशे देशिष्यन्ते ॥ १३ ॥”

इसका अभिप्राय यही समझना पड़ेगा कि मतंग के समय संगीत में अत्यधिक  
परिवर्तन हो चुका था ।

भरतसंगीत के पश्चात् जिन रागों का प्रचार हुआ, उन्हें देशी राग एवं ‘गान’—  
संगीत नाम दिया गया :— ‘देशीरागत्वाद्भरतादि-मुनि-प्रणीतत्वं नास्तीत्यर्थः ।’  
(—सि०)

कठिनाथ ने देशी रागों के विषय में “देशीत्वं नाम कामचार-प्रवर्तितत्वम्”  
यह लक्षण कहा है; इससे यह नहीं समझना चाहिए, कि देशी राग नियम-हीन  
होते हैं; कारण कि उसके पश्चात् ही कठिनाथ ने इस लक्षण का स्पष्टीकरण  
निम्नलिखित श्लोक से किया है :—

“तदत्र मार्ग-रागेषु नियमो यः पुरोदितः ।

स देशी-राग-भाषादायन्ययाऽपि फचिद्भवेत् ॥”

वक्त्राद्यथायोगं वर्णाञ्जनयति ॥ ११४ ॥ ते अर्थवन्तः परस्मै  
कर्णशङ्कुली-द्वारेण प्रविश्य विवक्षितार्थं प्रयोज्य नश्यन्ति  
॥ ११५ ॥ तदाकृतयस्त्रिन्द्रिय-रूपेणात्मबुद्ध्याऽवतिष्ठन्त एव  
॥ ११६ ॥

अतः संज्ञाचतुष्टय-स्वर-संस्कारादि-जातमाकृति-नित्यत्वेन  
नित्यम्, इति ॥ ११७ ॥ नामाख्यातोपसर्ग-निपातानां  
पृथक्पृथक्स्वर-विशेषविधानादित्युक्तम् ॥ ११८ ॥

तात्पर्य कि देशी रागों के स्वरूप और नियम मार्ग रागों से कभी भिन्न हो  
सकते हैं । “देशी रागों के लिए श्रुति-स्वर-ग्राम-जालादि नियम नहीं होते हैं”  
इत्यादि आज्ञनेय-वचन कल्लिनाथ ने अन्यत्र उद्धृत किया है—

“येषां श्रुति-स्वर-ग्राम-जालादि-नियमो न हि ।

नाना-देश-भ्रतिच्छाया देशी रागास्तु ते स्मृताः ॥” ( २।२।१६१ )

आज्ञनेय के इस वचन के अनुसार जिनको ‘ध्रुव’ कहते हैं ऐसे  
दुमरी, कजरी आदि गीनों के पीट, गारा, जगला आदि ‘छोटे’ राग देशीराग  
कहलाने योग्य होंगे, जो कि उनके भी अपने अपने श्रुति-स्वरादि नियम होते  
ही हैं । ब्रह्मदा इसी तत्त्व को उपलक्षित कर के आगे कल्लिनाथ ने आज्ञनेय के  
उपरोक्त वचन का स्पष्टीकरण किया है—

“एव वाच वृत्तयोरपि कामचार-प्रवर्तितयोर्देशीत्वमनगन्तव्यम् । नियमे तु  
सति तेषां गीतादीनां मार्गत्वमेव ।”

इसी दृष्टि से देखा जाय तो हमारे प्रचलित शास्त्रीय संगीत को गान्धर्व एव  
मार्ग कहने में कोई आपत्ति नहीं है । तथापि ‘मार्ग’ सज्ञा मूल में सामान्य तथा  
तज्जन्य ‘जाति’ संगीत के लिए ही प्रयुक्त होती थी ।

iv सामीतिक ‘ध्रुवि’ की व्याख्या पार्श्वदेव ने अच्छी दी है —

“मन्द्रादि-स्थान-भेदेन यो नाद स्फुरति स्फुटम् ।

आरोहि क्रमतस्तज्ज्ञे स एव ध्रुविरुच्यते ॥ १।९ ॥”

रत्नाकर ने एव पार्श्वदेव ने ‘ध्रुवि’ के चार प्रकार खाहुळ, नाराट, बोम्बक  
और मिश्रक इस प्रकार कह कर उनकी व्याख्या दी है ( सं०र० ३।३९।६६;  
सं०सं०सा० १।१० ) ।

इत्येवं कथितः सर्वः शिक्षायां विस्तरौ मया ।  
पाणिनेनारिदस्यापि मुनेरापिशालेर्मतात् ॥ ११९ ॥

स्वस्त्रीभिर्भुजवलयान्वनद्ध-कण्ठात् ।

शिक्ष्यन्ते यदरिगेणा गुणौघ-गाथाः ॥

अध्यायं प्रतत-धियां सुखावबोधम् ।

शिक्षाख्यं व्यसृजदिमं . . . . नैरेन्द्रः ॥ १२० ॥

इति महासामन्ताधिपति-धर्मावलोक-श्रीमन्नान्यपति-

-विरचिते सरस्वती-हृदय-भूषणे भरत-भाष्ये

शिक्षाऽध्यायो द्वितीयः समाप्तः ॥

५. 'ध्वनि' संज्ञा मतंग ने अन्यत्र 'राग' के अर्थ में प्रयुक्त की है:—

'नाना-विधेषु देशेषु जन्तूनां सुखदो भवेत् ॥ १ ॥

..... देशे देशे प्रवृत्तोऽसौ ध्वनिर्देशीति संज्ञितः ॥ २ ॥'

vi. 'गीन्धव' शब्द नाट्यशास्त्र में गायन-वादन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

'वाचं तूर्यायनं प्रोक्तम्' ( ३१।१ ) इत्यादि श्लोक में 'तूर्य' शब्द संगीत के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । नाट्यशास्त्र में 'संगीत' संज्ञा गायन के लिए प्रयुक्त हुई है:—

( १ ) 'संगीतकामपरिकेशो नित्यं प्रमदाजनस्य गुण एव ॥ २६।९ ॥'

( २ ) 'संगीतस्य प्रकर्तव्यं लयस्य च निवर्तनम् ॥ ३४।१६६ ॥'

( ३ ) 'सुसंगीत-प्रयोगज्ञो मृदङ्गी तु भवेद् गुणैः ॥ ३४ । २५४ ॥'

भरतमुनि गायिकाओं का गाना अधिकतर पसंद करते थे । इससे अनुमान कर सकते हैं, कि उस समय में शास्त्रीय संगीत का अधिक विकास नहीं हुआ था ।

## तृतीयः श्रुत्यध्यायः ।

१ तत्रादिमं स्वर-वर्ण-जाति-दैवतादि-प्रकरणम्  
उदात्तत्वादि....दैवै (?) लक्षणानि ततो ध्वनेः ।  
सर्त-स्वरत्वमस्माभिः पूर्वाध्याये प्रदर्शितम् ॥ १ ॥  
अथ स्वराणां वर्णं च जाति-छन्द-ऋषींस्तथा ।  
देवता-ध्वनि....कथयाम्यनुपूर्वशः ॥ २ ॥  
पङ्कजः पद्मनिभो ज्ञेय, ऋपमश्वापि पिङ्करः ।  
गान्धारः केनकाभस्तु, मध्यमः कुन्द-संनिभः ॥ ३ ॥  
पञ्चमस्तु स्वरः कृष्णः, पीत-वर्णश्च धैवतः ।  
निषादः कर्बुरो ज्ञेय, एवं-वर्णाः स्वरा इह ॥ ४ ॥  
पञ्चमो मध्यमः पङ्कज इत्येते ब्राह्मणाः स्मृताः ।  
ऋपभो धैवतश्चापि विज्ञेयौ क्षत्रियाबुभौ ॥ ५ ॥  
गान्धारश्च निषादश्च वैश्यौ वर्णुन संस्मृतौ ।  
अर्धेन पतितत्वाच्च शूद्रावेतौ प्रकीर्तितौ ॥ ६ ॥  
एषां संक्षेपतो वक्ष्ये छन्दोनामान्यनुक्रमात् ।  
गायत्र्युष्णिगनुष्टुप्च बृहती-पङ्क्ति-त्रिष्टुभः ॥ ७ ॥  
जगती चेति विज्ञेयं छन्दसां सप्तकं बुधैः ॥ ८ ॥

टी०:—( ६ ) अन्तर-काकली को अर्ध-स्वर तथा शूद्र ( दास के समान ) कहा गया है; जिससे सिद्ध होता है, कि प्राचीन शास्त्रकार अन्तर-काकली को महत्त्व के स्वर नहीं मानते थे । परस्पर संवादी स्वर पङ्कज-मध्यम-पंचम की गिनती ब्राह्मण-वर्ग में की गयी है । संवादी अर्थात् ब्राह्मण-वर्ग में ऋपम-धैवत का भी अन्तर्भाव नहीं किया गया है । तात्पर्य, कि प्राचीन संगीत में तीव्र गान्धार-निषाद को पङ्कज-संवादी स्वर नहीं मानते थे, अपितु उन्हें निम्न श्रेणी के तथा परावलम्बी समझते थे ।

F : ( ३, ४ ) N. ११४१२, २; M. ७८, ७९, B. ११३१५४, ५५  
( ५, ६ ) N. ११४१३, ४; M. ६५, N. ११३१५२, ५४  
( ७, ८ ) B. ११३१५८, ५९

गायत्र्यामृपभो ज्ञेयो, धैवतश्चोष्णिहि स्वरः ।  
 पङ्कजश्चानुष्टुभि प्रोक्तो, बृहत्यां मध्यमस्तथा ॥ ९ ॥  
 पङ्क्यां पञ्चमको ज्ञेयो, गान्धारस्यापि त्रिष्टुभि ।  
 खरो निपादो विज्ञेयो जगत्यां च मनीषिभिः ॥ १० ॥

“गीतोऽग्निना स्वरः पङ्कज, ऋपभो ब्रह्मणोदितः ।  
 गीतः सोमेन गान्धारो, विष्णुना मध्यमः स्वरः ॥ ११ ॥  
 पञ्चमश्च खरो गीतो नारदेन महात्मना ।  
 धैवतश्च निपादश्च गीतौ तुम्बुरुणा पुरा ॥ १२ ॥”

“आयस्य दैवतं ब्रह्मा पङ्कजस्याप्युच्यते बुधैः ।  
 तीक्ष्ण-दीप्ति-प्रकाशत्वाद्दृपभस्य हुताशनः ॥ १३ ॥”

“गावः प्रगीते तुष्यन्ति गान्धारस्तेन हेतुना ।  
 श्रुत्वा चैवोपतिष्ठन्ति सौरभेया न संशयः ॥ १४ ॥”

“सोमस्तु पञ्चमस्यापि दैवतं ब्रह्मराट् स्मृतम् ।  
 ( निर्हासो यस्य वृद्धिश्च ग्राममासाद्य सोमवत् ) ॥ १५ ॥”

“अभिसन्धीयते यस्मादेतान्पूर्वोत्थितान्स्वरान् ।  
 ( तस्मादस्य स्वरस्यापि धैवतत्वं विधीयते ) ॥ १६ ॥”

टी०:—( १४ ) ‘ सौरभेयः ’ = बैल; ‘ अनड्वान् सौरभेयो गौः ’ ० ।

—अ० १८२६

Ad : ( ११, १२ ) N. ११५१३, १४ pb:—‘आग्निगीतः’; M. ८१-  
 ( १४-१६ ) N. ११५१६-१८

F : ( ११, १२ ) B. ११३५६, ५७  
 ( १३ ) N. ११५१५

M : १ बल्लुक्णा २ नैपादी देवता ३ -शु- ४ ब्रह्मणोदितं ५ -धै- ६ -दि-



सोमवद् वृद्धिमापन्नो धैवतः सोमदैवतः ।

“निपीदन्ते स्वरा यस्मान् निपादस्तेन हेतुना ।

सर्वाश्चाभिभवत्येष यदादित्योऽस्य दैवतम्” ॥ १७ ॥

मेघ-निर्घोष-संकाशं पद्भ्रजमाहुः शिखण्डिनः ।

यस्माद्दृपभेमाधत्ते तस्माद्दृपभ उच्यते ॥ १८ ॥

अजश्चाविश्व कामार्तौ गान्धारं ग्राहतुः स्वरम् ।

मदोन्मत्तौ सदा क्रौञ्चौ भापेते मध्यमं स्वरम् ॥ १९ ॥

पुष्प-साधारणे काले पिको वदति पञ्चमम् ।

वसन्ते सप्तयो हृष्टा भापन्ते धैवतं पुनः ॥ २० ॥

मदोन्मत्त-गजेन्द्राणां क्रोध-संरक्त-चक्षुषाम् ।

स्वरो निपादः प्रथमः श्रूयते कण्ठ-गर्जितैः ॥ २१ ॥

(१७) १ इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में वृद्धियों हैं । सोमवत्, वृद्धिवात् पञ्चम के निपय में कहना ठीक रहेगा, जैसा कि नारद ने कहा है ।

॥ मतंग ने दैवत-व्यवस्था अथ प्रकार से कही है —

“गायारो भारती-देवो, म यमो हरदैवत ।” इत्यादि ।

॥ वृहदेशी में धैवत निपयक श्लोक छिन्नभिन्न है ।

(१४ १८) पद्भ्रजारि शब्दों की प्रयोजन ने दी हुई निरुक्ति मू० में नारदोक्त है । ‘धैवत’ की निरुक्ति ‘ध’-वर्ण की समानता पर आधारित है, ‘दृपभ’ शब्द का आधार तत्समान अन्तर्गत ऋपभ शब्द पर रखा गया है । सारांश यह, कि स्वर नामों की यह निरुक्ति काल्पनिक है ।

(२०) ‘सति’ = घोडा, ‘घोटके’ = गधर्व हय-सैधन सप्तय ।’

—अ० १५५५

(१८ २१) १ इसी अर्थ के ‘पद्भ्रजं वदति मयूरो’ इत्यादि नारद के दो श्लोक प्रसिद्ध ही हैं ।

॥ मतंग ने नारद के श्लोक ही उद्धृत किये हैं, किन्तु मुद्रित सस्करण T में उम स्थान पर ‘तथा चाह कोटल महेश्वर’ दिया हुआ है, जो ठीक नहीं है ।

Ad (१७) B १/५/१९ B १४ द्वितीय पंक्ति छत्र है ।

Γ (१७) B १/२/५७-५८ ‘वृद्धि-वत्-स-स्वरम्’ इत्यादि ।

Al १ -धे- २ स्वा ३ -व ४ -व- ५ -व-

“पङ्कजः प्रीणाति वै देवान्, ऋषीन्प्रीणाति चर्षभः ।  
 पितृन् प्रीणाति गान्धारो, गन्धर्वान्मध्यमः स्वरः ॥२२॥  
 देवान् पितृनृषींश्चैव स्वरः प्रीणाति पञ्चमः ।  
 यक्षान् निपादः प्रीणाति, भूतग्रामं च धैवतः ॥ २३ ॥”  
 अथ स्थानानिः—

“कण्ठादुत्तिष्ठते पङ्कजः, शिरसस्त्वृषभः स्मृतः ।  
 गान्धारस्त्वनुनासिक्य, उरसो मध्यमः स्वरः ॥ २४ ॥  
 उरसः शिरसः कण्ठादुत्थितः पञ्चमः स्वरः ।  
 ललाटाद्धैवतं विद्यान्निपादं सर्व-सन्धिजम् ॥ २५ ॥  
 नासाकण्ठमुरस्तालु-जिह्वा-दन्तांश्च संश्रितः ।  
 पङ्कभिः सञ्जायते यस्मात्तस्मात्पङ्कज इति स्मृतः ॥ २६ ॥  
 (वायुः समुत्थितो नाभेः कण्ठ-शीर्ष-समाहतः ।  
 नर्दत्यृषभवद्यस्मात्तस्मादृषभ उच्यते) ॥ २७ ॥  
 वायुः समुत्थितो नाभेः कण्ठ-शीर्ष-समाहतः ।  
 नासा-गन्धवहः पुण्यो गान्धारस्तेन हेतुना ॥ २८ ॥  
 वायुः समुत्थितो नाभेरुरोहृदि समाहतः ।  
 नाभिं प्राप्तो महानादो मध्यमत्वं समश्नुते ॥ २९ ॥  
 वायुः समुत्थितो नाभेर्हृत्कण्ठोरसि रोहणः ।

टी० : — (२७) ‘रम्भते, रेफते शब्दे गवाम्, उक्षणस्तु नर्दति ।’

—रू० ३ । १२० ॥

(२४-३१) i. पङ्कज से पंचम तक के स्वरों के उत्पत्तिस्थान बताये हैं ।

धैवत और निपाद के विषय में पार्श्वदेव के श्लोक जो सिंहभूपाल ने उद्धृत किये हैं, वे निम्नानुसार हैंः—

Ad : ( २२, २३ ) N. १।२।१५, १६  
 ( २४-३१ ) N. १।५।५-१३

F : ( २४-२६ ) M. ८५-८७ pb. “तालु-देशात्समुत्पन्नो धैवतस्तु...”  
 ( २९ ) S. pb. “मध्यस्थान-भवतान्तु मध्यमत्वेन कीर्तितः।” ( Vide-सि० )

M : १-ना

पञ्च-स्थान-स्थितस्यास्य पञ्चमत्वं विधीयते ॥ ३० ॥

धैवतं च निपादं च वर्जयित्वा स्वरद्वयम् ।

शेषान्पञ्च-स्वरांस्त्वन्यान्पञ्च-स्थान-स्थितान्विदुः ॥”

“(“पञ्च-स्थान-स्थितत्वेन सर्व-स्थानानि धार्यते”) ॥ ३१ ॥

“नामे समुत्थितो गायु कण्ठ-तालु शिरोहृदि ।

तत्तत्स्थान धृतो यस्मात्ततोऽसी धेनुतो मत ॥ ॥

नामे समुत्थिते वायौ कण्ठ-तालु शिरोहृते ।

निपीदन्ति स्वरा सर्वे निपादस्तेन कथ्यते ॥-॥” (१।३।२४)

ii सामान्यतः नाद की उत्पत्ति मतग ने “बन्धि-मास्त-सयोगात्” कही है, मतग के वचन का प्रिवेचन रत्नाकर ने “आमा प्रियक्षमाणो य०” इत्यादि श्लोकों में (१।३।३४) किया है। नाद शब्द की निरुक्ति मतंग ने ‘नकार प्राण इत्याहु’ इत्यादि (श्लो २२ में) कही है, जिसका अनुवाद रत्नाकर ने (१३६) किया है। नाद के दो प्रकार रत्नाकर ने बतलाये हैं। उनमें से ‘अनाहत’ नाद की उपासना योगी लोग करते हैं। ‘अनाहत’ नाद मनोरजक नहीं है, जब कि ‘आहत’ नाद संगीत में उपयुक्त एवं मनोरजक होता है (१।२।१६६-६७)। “बन्धस्थान समुथो हि०” इत्यादि वचन में मतंग ने नादोत्पत्ति की रीति बतलायी है, “ब्रह्म प्रचि-रिथत ०” इत्यादि श्लोक से (१।३।४) रत्नाकर ने उसीका अनुवाद किया है।

iii नाद के ‘सूक्ष्म’, ‘अतिसूक्ष्म’ आदि पाँच प्रकार मतंग ने कहे हैं, जिसका अनुवाद रत्नाकर ने —

“नादोऽतिसूक्ष्म सूक्ष्मश्च पुष्टोऽपुष्टश्च वृत्रिम ।” (१।३।५) इत्यादि श्लोक से किया है। मतंगोक्त पंचविध नाद इस प्रकार हैं —

“सूक्ष्मनादो गुहावासी, हृदये चातिसूक्ष्मक ।

कण्ठ-मध्य स्थितो व्यन्तस्थान्यस्तस्मात्प्राप्त-देशके ॥२४॥

वृत्रिमो मुगदेशे तु, ज्ञेय पञ्चविधो सुषे ॥” (वृ०दे०)

इस वचन में कण्ठ में पैदा होनेवाली ध्वनि को ‘व्यन्त’ और मुग प्रदेश से पैदा होनेवाली ध्वनि को “वृत्रिम” कहा है। “व्यन्त” और “अव्यन्त” नाद को ही रत्नाकर ने ‘पुष्ट’ और ‘अपुष्ट’ कहा है। (पाचंदेवोरुन पाठ भी इसी प्रकार है।)

iv. उपनिषद् और तन्त्रग्रंथों में नादोत्पत्ति का जो वर्णन किया गया है, वह अधिकतर वैदान्तिक ढंग का है। इसी प्रकार नादविन्दूपनिषत् में— “ब्रह्म-प्रणव-संलभो नादो ज्योतिर्मयात्मकः।” (४६-५२) इत्यादि वर्णन आया है। ध्यानविन्दूपनिषत् में आया हुआ “मूलाधारास्तुपुंना च विसतन्तुनिभा शुभा। अमूर्तो वर्तते नादो वीणादण्ड-समुत्थितः ॥ (१०१।६) ” इत्यादि वर्णन भी इसी प्रकार है। स्वच्छन्दतन्त्र में बताया है, कि शिवशक्ति से ‘शून्य’ निर्माण हुआ, उससे ‘स्पर्श’ और ‘स्पर्श’ से नाद पैदा हुआ। नाद के नौ भेद इसी तन्त्र में कहे हुए हैं :—“घोष, राव, स्वन, शब्द, स्फोट, ध्वनि, संकार, घट्टक और महाशब्द” (११-५-८)।

तात्पर्य, योगोपासना में प्रयोग्य ‘नाद’ के उत्पत्तिस्थान शरीरस्य चक्र, नाडी इत्यादि माने गये हैं। संगीतशास्त्रकारों ने नादोत्पत्ति के विषय में इसी वर्णन को स्वीकृत किया है। हमारे ग्रंथकारों ने :—

“न नादेन विना गीतं...तस्मान्नादात्मकं जगत्,... नादरूपो महेश्वरः।” (बृ० दे० १६, १७, १८) इत्यादि प्रकार से नाद की प्रशंसा की है और नाडी-चक्रों का वर्णन (सं० रं० १-२-१२०-१६३) नादोत्पत्ति के विषय में किया है, वह तन्त्रादि ग्रंथों का अनुवाद है, यह कहने की आवश्यकता नहीं।

v. उपरोक्त श्लोकों में स्वरों के रंग, वर्ण, छन्द ऋषि, देवता, उत्पत्तिस्थान आदि विषयों का वर्णन आया है, जिसका सारांश आगे एक कोष्ठक में (पृ० ७१) दे रहे हैं।

इसके उपरान्त मत्तंग तथा रत्नाकर ने स्वरों के वंश कहे हैं :—सा-ग-म= देव-वंश; री-ध=ऋषि-वंश; प = पितृ-वंश; नि = असुर-वंश। पड्जादि के द्वीप-देश रत्नाकर ने—जंबू, शाक, कुश, कौश्र, शाल्मली, खेत, पुष्कर इत्यादि बताये हैं (१।३।५५, ५६)। रंग-वंशादि यह प्रपंच भ० ना० में नहीं है। तात्पर्य, इन कल्पनाओं का मूल शिक्षादि ग्रंथ हैं।

vi. वैदिक उदात्तादि स्वरों के विषय में ऋषि, देवता, वर्ण आदि कल्पनाएँ मूलतः की गयी थीं, जिन्हे बाद में नारद-मुनि ने संगीत के स्वरों के साथ जोड़ दिया। उदात्तादि के दैवत-वर्णादि याज्ञवल्क्यशिक्षा में निम्नानुसार वर्णित हैं :—

“उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च तथैव च ।

लक्षणं वर्णयिष्यामि दैवतं स्थानमेव च ॥१॥

शुद्धमुच्चं विजानीयान्नीचं लोहितमेव च ।

श्यामं तु स्वरितं विद्यादग्निहृच्चस्य दैवतम् ॥२॥ ”

—इत्यादि ।

vii स्वरो के वर्ण-दैवतादि की जानकारी स्वरोपासना में उपयुक्त होती है, ऐसा स्पष्टीकरण सिंहभूषाल ने इस विषय के सवध में किया है, जो निम्नलिखित है —

‘ननु खराणा ‘पद्माभ’ इत्यादि वर्ण.. दैवत-निरूपण च कुत्रोपयुज्यते ? खरोपासनायामित्येन हि ।’ ( सं० २० ११३/५५, ५६ सि० ) ‘खर-बीज’ मतंग ने किसी ‘आगम’ ग्रन्थ से उद्धृत किये हैं, ऐसा प्रतीत होता है —

‘आगमस्य स्वरोद्धार एव तावत्प्रदर्शित’ ( पृ० १८, १९ ) । सभ्य है कि उक्त आगम ग्रन्थ काश्यप-याष्टिकसमाद-रूप सर्वागम-सहिता’ नामक होगा जहाँसे मतंग ने ‘भाषा लक्षणाव्यास’ ( पृ० १०४-१३३ ) उद्धृत किया है ।

viii आगे के कोष्ठक में नान्यदेवोक्त वर्ण-दैवतादि बताते हुए साथ साथ हमने मतान्तर भी दिये हैं, जिससे स्पष्ट होगा, कि इस विषय में ग्रन्थकारों में एकमत नहीं था ।

ix. **स्वरनामों की निरुक्ति** उतलाने का प्राचीन ग्रन्थकारों का प्रयत्न बड़ा ही कृत्रिम लगता है । नामा, कठ, तालु आदि छ स्थानों से उत्पन्न होता है, अतएव उसे षड्ज कहा गया, पाँच स्थानों से पैदा होता है, अतः पचम, तथा पूर्व के स्वरो को जोड़ता है, इस कारण धैरत नाम सार्य हुआ इत्यादि निरुक्ति यथार्थ नहीं है ।

x षड्जादि स्वरों का साम्य प्राचीन शास्त्रकारों ने पशुपक्षियों के आवाज से दर्शाया है, जैसा कि — मयूर=मा, वृषभ=री, बर्कुर=ग आदि । स्वरज्ञान होने का यह लौकिक उपाय है, ऐसा स्पष्टीकरण कालिदास ने इस विषय के पक्ष में किया है —

“लोकतोऽपि षड्जादि-स्वरूप-परिज्ञानाय मयूरादिप्राणि विशेष ध्वनिं निदर्शनाभिप्रायेणाह — ‘मयूरेति ।”

जर्मन वैदिक पंडित आर्. झीमन ( R. Simon ) ने इन विषय में टीका की है — ‘It is remarkable that these fine shruti-systemists were so foolish as to use curlews’ and cuckoo’s’ calls and at the same time the word-stress for the fixation of the intervals’ ( PpS Lml p 523, S V svara )

तापर्यं, स्वर ज्ञान का या स्वर परीक्षा का यह उपाय आधुनिक विचारियों को हास्यास्पद ही प्रतीत होगा ।

xi. स्वर सात ही क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर भी प्राचीनों ने इसी प्रकार विनोदपूर्ण दिया है । उनका कथन है, कि शरीर धातु ( रस-रकादि ), नाडी चक्र या द्वीपदेहा सात हैं, इस कारण से उनके आश्रित स्वरो की सख्या सात

धी होनी चाहिए। इस विषय में सिंहभूपाल ने मतंग-वचन उद्धृत किया है:—  
 “तया चोक्तं मतंगेन— ‘ननु कथं सप्त स्वरा इति नियमः? उच्यते:— यथा  
 सप्तद्वीपाश्रितत्वेन...., तथा सप्तचक्राश्रितत्वेन, सप्तद्वीपाश्रितत्वेन वा सप्तैव स्वराः’  
 इति ।” ( १।३।५४,५५ )

इसी प्रकार शरीर में पङ्जादि के उत्पत्तिस्थान कोहें हैं, वे भी काल्पनिक हैं; उदाहरणार्थ:—‘पङ्ज’ नाम की निरुक्ति के आधारपर उसको छः अवयवों के साथ जोड़ दिया है। ऋषभ शिर से एवं गांधार नाक में से निकलता है, ऐसा आभास संभवतः किसी प्राचीन गायक या पंडित को हुआ होगा। कंठस्थित बाईस नाडियों से बाईस धृतियों के पैदा होने की कथा भी इसी प्रकार की है। ऐसी ही दूसरी कथा है, गान्धारग्राम के सर्गवासी होने की।

स्वरों के द्रष्टा ऋषि अग्नि, विष्णु, चन्द्रमा, तुम्बुरु आदि कोहें हैं, यह व्यक्ति-नाम पौराणिक अत एव काल्पनिक ही समझना चाहिए। ग्रीक संगीत में भी इसी प्रकार स्वरों के शोधक सूर्य (Orpheus) सरस्वती (Muses) आदि देवताएँ कही हैं। इतना ही नहीं पंच अतिप्राचीन ग्रंथकार नारद, तुम्बुरु, रावण, ब्रह्मा, शिव, भरत, काश्यप आदि व्यक्ति भी पौराणिक याने काल्पनिक ही थे, ऐसा तर्क करना युक्तियुक्त होगा।

प्राचीन समय में वैज्ञानिक शोधों का अभाव होने से अज्ञात वस्तु या घटनाओं की उपपत्ति (Theory) बताने के लिए शास्त्रकार पौराणिक या कल्पित कथाओं का आश्रय लेते थे। इस बात का प्रमाण हमारे अन्य शास्त्रों में भी मिलता है। उदाहरणार्थ:—मध्ययुग में पारा (mercury) विदेश से आता था, परन्तु हमारे रसवैद्यक के ग्रंथकारों ने उसको शिवजी का वीर्य बतलाया है। इसी तरह हिंगुल (Mercury Sulphide) को पार्वती का रज होने बाबत कहा है और उसके साथ पार्वती के समुद्र-स्नान की कथा जोड़ दी है।

इस प्रकार की अटकलवाजियों पुराने अनेक ग्रंथों में पाई जाती हैं, जिन्हें श्रद्धापूर्वक स्वीकार करनेवाले विद्वान् लोग उस समय अनेक थे, इसमें आश्चर्य नहीं; किन्तु महदाश्चर्य तो इस बात का है, कि आज बीसवीं शती में भी ऐसी मनगढ़ंत कथाओं से इतिहास और विज्ञान की खींचातानी द्वारा खोज करनेवाले विद्वान् अचानक उपस्थित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, एक श्रुतिपंडित ने धैवत-द्रष्टृत्व के ‘कथाकल्पतरु’ के आधार पर तुम्बुरुजी के गले में ‘पङ्जान्तर-भाव = Consonance of third सधन्यवाद बाँध दिया है।

सारांश, स्वरों का रंग-जाति-स्थान आदि वर्णन केवल काल्पनिक है। इन सभी तथ्यों से प्रमाणित होता है, कि हमारा प्राचीन स्वरशास्त्र प्राथमिक अवस्था का था। कण्ठस्थ ध्वनीन्द्रिय की रचना तथा कार्यप्रणाली प्राचीन शास्त्रकारों को ज्ञात नहीं थी।

## वर्ण-देवतादि-दर्शक कोष्ठकं

पद्म	लाल	ब्राह्मण	{ गायत्री अनुष्टुप् (R.)	अग्नि	{ ब्रह्मा अग्नि (R.)	देव	कंठ
काम	{ शिबिब, पीला	क्षत्रिय	{ उष्णिह गायत्री (R.)	ब्रह्मा	{ अग्नि ब्रह्मा (R.)	ऋषि	शिर
गान्धार	{ गहरा पीला	वैश्य	{ अनुष्टुप् त्रिष्टुप् (R.)	चन्द्रमा	सरस्वती (P., R.)	पितर	नासिका
मरुम	सफेद	ब्राह्मण	बृहती	विष्णु	शंकर (M., R.)	गंधर्व	उर
पंचम	काला	ब्राह्मण	पक्ति	नारद	{ चन्द्र (?) विष्णु (R.)	देव	{ उर, शिर कंठ इ०
षैवत	पीला	क्षत्रिय	{ त्रिष्टुप् उष्णिह (R.)	वृषक्र	{ चन्द्र गणेश (M., R.)	भूतगण	{ ललाट ताल (M.)
निषाद	{ क्यूर (P.) (सामर्थी)	वैश्य	जाती	तुंबक	सूर्य	यक्ष	सर्वे संधि
अंतर	०	सूद	०	०	०	०	०
गान्धार	०	सूद	०	०	०	०	०
सकली	०	०	०	०	०	०	०
निषाद	०	०	०	०	०	०	०

अथ ग्राम-त्रय-मण्डल-प्रकरणं द्वितीयम्

अथ स्वराणामेतेषां ..... मण्डलं ... ।

० ग्रामत्वं वाचकाकाले (?) काकल्यन्तरयोर्विधिम् ॥ ३२ ॥

ग्राम-त्रय-विभागं च श्रुति-भेद-कृतं तथा ।

द्वाविंशतिं तथा श्रुती यथाग्रामेष्वपि त्रिषु ॥ ३३ ॥

पङ्जर्पभ-गान्धार-मध्यम-पञ्चम-धैवता निपादवन्तः स्वराः ।

श्रुति-सहिता मूर्च्छना-र्तानयुता मण्डल ..... भन्ते ॥ ३४ ॥

एषां मध्ये श्रुत्युत्कर्षापकर्षवान् स्वर-विशेष-

-प्रधानभूत-स्वरोपचितो ग्राम इत्युच्यते ॥ ३५ ॥

सप्त-स्वरोपचितास्त्रयो ग्रामाः ।

पङ्जग्रामो मध्यमग्रामो गान्धारग्राम इति ॥ ३६ ॥

पङ्जग्रामः प्रसन्नादिरनुदात्तप्रधानकः ।

मध्यमः स्वरितादिश्च स्यादुदात्तानुदात्तवान् ॥ ३७ ॥

उदात्तादिस्तु गान्धारग्रामः सति (?) रिहोच्यते ।

एवं स्वरत्रयकृता ग्रामत्रयभेदा भवेयुः ॥ ३८ ॥

पङ्जर्पभ-गान्धार-मध्यम-पञ्चम-धैवतैः सनिपादैः ।

क्रमते पङ्जग्रामोभि ..... (?) ॥ ३९ ॥

स्प०—( ३३ ) इसके पश्चात् 'प्रति-ग्रामं मूर्च्छनादि-भेदांस्तान-विधि तथा ।' इत्यादि श्लोक आया है, जो इस स्थान पर असंगत होने से आगे श्रुति-प्रकरण में समाविष्ट किया है ।

( ३९-४९ ) यह श्लोक अ० ४ में प० ६४ पर दिये हुए हैं, जो उक्त निषय के अनुसंधान में हमने यहाँ उद्धृत किये हैं ।

० टी०:—( ३९-४९ ) i. यह श्लोक बहुत महत्त्वपूर्ण है, कारण कि तीनों ग्रामों के प्रारंभिक स्वर नान्यदेव ने इन श्लोकों द्वारा स्पष्ट किये हैं ।

M ३:१ -स्वरयो २ -च ३ -गङ्ग ४ -दे ५ -तित ६ -मः ७ -चिं ८ मात्र ९ -हु-

१० स्वरापुरोप- ११ -दौ



तर्हि गान्धारस्य द्विश्रुतेः कथं ग्रामत्वम् ? सत्यम् ।

.. : गान्धारः पद्मग्रामे मध्यमग्रामे च द्विश्रुतिः ।

स्वग्रामे तु चलुःश्रुतिरेव ॥ ५१ ॥

अत्र स्वरास्त्रयश्चैव ग्रामत्वमागच्छन्ति ।

एतन्मुनिवचनसिद्धत्वात् ॥ ५२ ॥

यदाहाग्निवचगुप्तो मतान्तरे—

“एषां श्रुत्युत्कर्षात्प्राधान्य-पुरुषतां त्रयस्यैव ।

स्वर-गणित-संहितस्यो....नाया ग्रामत्वमाज्ञा (?)

वदति” ॥ ५३ ॥

उक्तका यह एक अच्छा उदाहरण है । गान्धारग्राम की उत्पत्ति एवं उप का विचार ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहिए । प्राचीन-मध्ययुगीन ग्रंथकारों की दृष्टि ऐतिहासिक तो थी ही नहीं । ऐसा प्रतीत होता है, कि प्राचीन संगीत में किन्ही दो पाठ के दो सप्तक प्रमुख माने जाते थे । तथा तृतीय गान्धारग्राम केवल औपपत्तिक ( Theoretical ) ही रहा होगा ।

ii. गान्धारग्राम स्वर्ग में प्रचलित है, ऐसा कहा है; जिससे अनुमानित होता है, कि वह सम्भवतः विदेशी ( ग्रीक ) सप्तक होगा तथा विशेष उपयुक्त प्रतीत न हुआ होगा । ग्रीक संगीत में भी प्रारंभ में तीन 'ग्राम' प्रचलित थे ( *Artx. Intro. p.10-15* ) । एवं बाद में एक ही ग्राम अवशिष्ट रहा ( *ibid, p. 34* ) ।

iii. मत्तंग ने नारद के श्लोक 'देव-कुल-समुत्पन्नाः' इत्यादि उद्धृत किये हैं । तथा 'पद्म-याहि च मुख्यत्वं गम्यते वचनान्मुनेः ।' इस प्रकार पद्मग्राम तीनों ग्रामों में प्रमुख कहा है । मत्तंग के उक्त श्लोक सिंहभूपाल ने 'पद्मस्यैव हि मुख्यत्वं' इस प्रकार उद्धृत किये हैं, तथा वे शुद्ध भी प्रतीत होते हैं ।

iv. "पद्म-मध्यम-संज्ञो तु द्वौ ग्रामो विश्रुतौ किल । गान्धारं नारदो ब्रूते, स तु मर्त्येर्न गीयते ॥ ९१ ॥" मत्तंग ने इस प्रकार कहते हुए, उसके उपरान्त 'ग्राम दो ही क्यों' इस प्रश्न पर विचार-निर्देश किया है, जो निम्नानुसार है:—

“ननु कथं पद्म-मध्यम-स्वराभ्यां ग्राम-न्यपदेशः ? उच्यते । असाधारणत्वं च देव-कुल-समुत्पन्नत्वेन । तथा चाह नारदः—'देव-कुल-समुत्पन्नाः पद्म-गान्धार-मध्य-माः ।' इत्यादि; परंतु इमं की अपेक्षा नान्यभूपाल का बताया हुआ चतुःश्रुतिव्यं का कारण अधिक प्रायः प्रतीत होता है ।

द्वौ ग्रामौ भरतेनोक्तौ, ग्रामो गान्धार-पूर्वकः ।

अतितारातिमन्द्रत्वाद् वैस्वर्यं; नोपदर्शितः ॥ ५४ ॥

स च स्वर्गे नारदाच्चैव गीयते । तथा च दैत्तिलः,

“सै तुं नेहोपलभ्यते” इति ... ॥ ५५ ॥

गन्धर्वैर्गीयते स्वर्गे ग्रामो गान्धार-पूर्वकः ।

अतितारातिमन्द्रत्वान्नात्र गायन्ति मानवाः ॥ ५६ ॥

३ अथ ग्राम-भेद-प्रकरणं तृतीयम्

अथ ग्राम-भेदाः । यथाऽह भरतः,

“तिस्रो, द्वे, च चतस्रश्च, चतस्रस्तिस्त्र एव च ।

द्वे, चतस्रश्च षड्जाख्ये ग्रामे श्रुति-निदर्शनम्” ॥ ५७ ॥

v. मतंग की भँति रत्नाकर ने भी षड्जग्राम को प्रधान कहा है । एवं इस संबन्ध में षड्ज के संवादी स्वर अधिक होते हैं, यह कारण प्रस्तुत किया है । इसके अतिरिक्त मध्यम स्वर के अवर्ज्य होने का कारण बता कर मध्यमग्राम को ‘पुरःसर’ कहा है ( १ । ४ । ६ । ) । साराश, प्राचीन-मध्ययुगीन प्रयत्नकार ग्रामों के मुख्यामुख्यत्व को समझने एवं समझाने में असमर्थ ही रहे हैं ।

vi. सप्त-स्वरों में षड्ज स्वर प्रथम है तथा भरतादिकों ने षड्ज-ग्राम का वर्णन प्रथम किया है; जिससे निर्णय होता है, कि तीनों ग्रामों में षड्जग्राम का सप्तका आद्य और प्रमुख था । गान्धारग्राम का सप्तक नारद के पूर्व ही अप्रचलित हो गया था ।

षड्जग्राम का मुख्य स्वर षड्ज मानने पर भी वास्तव में मध्यम ही उसका आधार-स्वर था, कारण षड्जग्रामिक सप्तक में यदा-कदा षड्ज का लोप हो सकता था, किन्तु मध्यम कभी भी वर्जित नहीं होता था । इसका अर्थ यह हुआ कि, षड्जग्राम वस्तुतः plagal mode ही था ।

vii. किसी भी सप्तक का आदिम ( lowest ) स्वर यदि उसका आधार स्वर ( final or tonic ) होता हो, तो ऐसे सप्तक को मूल सप्तक ( authentic mode ) कहते हैं; एवं चतुर्थ स्वर जिस सप्तक में उसका आधार-स्वर ( tonic ) होता हो, तो ऐसे सप्तक को उप-सप्तक ( plagal mode ) कहा जाता है । प्राचीन ग्रीक संगीत में तथा क्रिस्तानी धार्मिक संगीत में उप-सप्तको

पङ्कादि-क्रममुक्त्वा सूत्रेणैव पङ्कादि-श्रुति-क्रममाह—  
 “पङ्कजश्रुतुःश्रुतिर्ज्ञेय, ऋपभस्त्रिश्रुतिस्तथा ।

गान्धारो द्विश्रुतिर्ज्ञेयो, मध्यमस्तु चतुःश्रुतिः ॥ ५८ ॥

चतुःश्रुतिः पञ्चमः स्याद्, धैवतस्त्रिश्रुतिस्तथा ।

निपादवान् द्विश्रुतिकः पङ्कजग्रामे भवन्ति हि” ॥ ५९ ॥

[ इति पङ्कजग्रामः । ]

अथ मध्यमग्रामः । श्रुतयस्तत्र ( यथाऽऽह ) भरतः ।

यदाऽन्योन्यविपर्यन्ते श्रुती पञ्चम-धैवतौ ।

तदा तं मध्यमग्रामं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ६० ॥

का प्रयोग होता था और आज भी हो रहा है। मूल-सप्तक एवं उपसप्तक का उदाहरण निम्ननिर्दिष्ट है:—

१. मूल-सप्तकः—रे ग म प ध नि स रे  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 x D

२. उप-सप्तकः—रे ग म प ध नि स रे  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 D x

उपरिनिर्दिष्ट दोनों सप्तकों का x चिन्हाङ्कित स्वर आधार-स्वर है ।

१: में D=Dominant=धैवत इस सप्तक का पञ्चम है, तो

२: में D=Dominant=ऋपम इस सप्तक का मध्यम है ।

उपरिनिर्दिष्ट अं० २: के अनुसार प्राचीन पङ्कजग्राम में चतुर्थ स्वर आधार-स्वर है, जिससे वह उपसप्तक हो गया । सारांश, प्राचीन संगीत का आदिम तथा मुख्य सप्तक पङ्कजग्राम था एवं प० ग्राम-सप्तक ‘उपसप्तक’ के वर्ग का था ।

¶ उप-सप्तक-जातिक पङ्कज-ग्राम का स्वरूप निम्नानुसार होगा:—

स रे ग म प ध नि स  
 इसमें आधार स्वर ( tonic ) मध्यम है । इसी आधार-स्वर को आदिम स्वर कर लेने पर इसका स्वरूप इस प्रकार होगा:—

प०ग्राम.— म प ध नि सा रं ग  
 पङ्कजग्राहिक तथा अन्य-ग्राहिक सप्तकों के स्वर-मूल्यां का विचार आगे करेंगे ।

सैन्दीपन्याभिधाऽऽयता धैवतं व्रजति श्रुतिः ।  
 पञ्चमस्त्रिश्रुतिस्तेन मध्यमग्राम उच्यते ॥ ६१ ॥  
 आयतायाः प्रभेदो यः सैन्दीपन्याभिधः स्मृतः ।  
 पञ्चमान्मध्यमग्रामे स धैवतमनुव्रजेत् ॥ ६२ ॥

[ इति मध्यमग्रामः । ]

[ अथ गान्धारग्रामः । ]

मृद्धी-मध्या-प्रभेदाभ्यां मध्यमर्षभयोस्तथा ।

प्रीति-रञ्जनिकाभ्यां च यथाक्रममुपाश्रितः ॥ ६३ ॥

टी०:— i. श्लो० ६१, ६२में नान्यदेव का कथन है, कि मध्यमग्राम में पंचम की तृतीय श्रुति संदीपनी धैवत को प्राप्त होती है । अन्यान्य ग्रंथकारों के मतानुसार पंचम की चतुर्थ अर्थात् अंतिम श्रुति 'आलापिनी' धैवत के श्रुतिक्षेत्र में सम्मिलित हो जाती है ।

ii. आगे श्लो० ६४, ६५ में गान्धारग्राम का वर्णन आया है, उसमें भी उपरोक्त के अनुसार कहा गया है, कि ऋषभ की द्वितीय एवं मध्यम की तृतीय श्रुति गान्धार को प्राप्त होती है । इससे नान्यदेव का अभिप्राय यह विदित होता है, कि स्वर अपनी अंतिम ( स्वरस्थानस्य ) श्रुति का त्याग नहीं करता है, उसी पर स्थिर रहता है, जब उसकी पूर्ववर्ती श्रुतियों का आदान-प्रदान हो सकता है ।

iii. आगे स्वर-साधारण-प्रकरण में भी नान्यदेव द्वारा श्रुति-चलन की यही व्यवस्था बतायी हुई है ।

iv. हो सकता है, कि यह विपर्यास लिपिकार-प्रमाद से हो गया हो । किन्तु श्लोक के शब्द स्पष्ट हैं ।

स्प०— ( ६२, ६३ ) श्लोक ६२ तथा ६३ प० ६४ पर अ० ४ में आये हुए संदर्भवशात् इस स्थान पर उद्धृत किये हैं ।

टी०:— ( ६३-६६ ) i. गान्धारग्राम की श्रुति-स्वर-व्यवस्था वर्णित है । मध्यम की तृतीय श्रुति 'प्रीति' एवं ऋषभ की द्वितीय श्रुति 'रंजनी' द्विश्रुतिक शुद्ध गान्धार को मिळ जाने से वह चतुःश्रुतिक बन जाता है । चतुःश्रुतिक अन्तर-काकली की अपेक्षा यह श्रुति-व्यवस्था भिन्न है, कारण कि इससे मध्यम और ऋषभ त्रिश्रुतिक बन जाते हैं ।

MI: १ मध्या यदा प्रीत्यभिष्य धैवतं व्रजति श्रुतिः । २ त्व ३ सद्योच्यते ४ सन्तापन्या-  
 ५ पइजमयो ६ मन्दा-प्रीति-श्रुती-श्रुतिभ्यां

मध्यमस्य व्रजेदेका मृद्धी प्रीत्यभिधा यदा ।

गान्धारमृपभस्यापि मध्या रञ्जनिका श्रुतिः ॥ ६४ ॥

कं . . . . . ।

चतुःश्रुतिश्च गान्धारः, पैथौ त्रिश्रुतिकौ यदि ।

गान्धारग्राममित्येवं राजनारायणोऽभ्यधात् ॥ ६५ ॥

गान्धारस्तु स्वके ग्रामे चतुःश्रुतिक उच्यते ।

ग्रामेषु त्रिषु शेषास्तु चतस्रः पूर्ववन्मताः ॥ ६६ ॥

११ श्रुतियों का इसी रीति का वितरण रत्नाकरोक 'साधारण' गान्धार एव 'कैशिक' निपाद स्वरों की उत्पत्ति में प्रयुक्त हुआ है, यद्यपि वहाँ एक स्वर की एक-एक श्रुति अन्य दो स्वरों को प्राप्त हो जाती है ।

१११ तीनों ग्रामों के श्रुति स्वरान्तर निम्नानुसार हैं —

प०ग्रामः—	४स,	३रे,	२ग,	४म,	४प,	३ध,	२नि
म०ग्रामः—	४म,	३प,	४ध,	२नि,	४मं,	३रें,	२ग
गा०ग्रामः—	४ग,	३म,	३प,	३ध,	४नि,	३स,	२रें

११२ गान्धारग्राम का आधार-स्वर (Tonic) गान्धार मान लेने से जो नया सप्तक (mode) बन जाता है, यह निम्नानुसार है—

४ग,	३म,	३प,	३ध,	४नि,	३स,	२रें,	४ग
४स,	३रे,	३ग,	३म,	४प,	३ध,	२नि,	४स

११३ गान्धारग्राम से पैदा हुए इस नये सप्तक (=थाट) के स्वर-सनाद निम्नानुसार हैं —

१३ श्रुतिक सवाद (३=४)

स,	३ रे,	३ ग,	३ म,	४ प,	३ ध,	२ नि,	४ स
१ श्रुतिक सवाद				२ श्रुतिक सवाद (=म नि)			
१३ श्रुतिक सवाद							

इस नये सप्तक में स्वरों के सवाद इस प्रकार हैं —

- (१) पङ्कज-मध्यम-पंचम परस्पर संगीदी हैं ।  
 (२) मध्यम-निषाद परस्पर संगीदी हैं ।  
 (३) ऋषभ-पंचम का संवाद नहीं है ।  
 (४) ऋषभ-धैरत परस्पर संगीदी हैं ।

[ (५) गान्धार-निषाद-संवाद नहीं है । ]

गान्धारग्राम-जन्य थाट का गान्धार प्राचीन शुद्ध गान्धार ( म-भावी ७ २०४६; ०: २५४ ) से एक श्रुति उच्च है, अर्थात् यह गान्धार पट्-श्रुतिक है, जो इस थाट का वैशिष्ट्य है । इस थाट के अन्य सभी स्वर एवं स्वर-संवाद पङ्कज-ग्रामिक के अनुसार हैं । इसी त्रिश्रुतिक गान्धार को रत्नाकर ने 'साधारण' की संज्ञा देकर पुनरुज्जीवित किया ।

vi. गान्धारग्राम का निर्देश तक भरत ने नहीं किया है । किन्तु अन्य सभी प्राचीन ग्रंथकारों ने किया है । नारदी शिक्षा में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है:—

“पङ्कज-मध्यम-गान्धारालयो ग्रामाः प्रकीर्तिताः ।

भूर्लोकान्जायते पङ्कजो, भुवर्लोकश्च मध्यमः ॥ १-२-६ ॥

स्वर्गान्दान्यत्र गान्धारो, नारदस्य मतं यथा ॥ ७ ॥”

दक्षिण का वचन इस विषय में निम्नलिखित है:—

“स्वराः पङ्कजादयः सप्त, ग्रामौ द्वौ पङ्कज-मध्यमौ ।

केचिद् गान्धारमप्याहुः, स तु नेहोपलभ्यते ॥ ११ ॥”

मतंग का वचन गान्धारग्राम के विषय में निम्नानुसार है:—

“पङ्कज-मध्यम-संज्ञौ तु द्वौ ग्रामौ विश्रुतौ किल ।

गान्धारं नारदो ब्रूते, स तु मूर्धनं गीयते ॥ ९१ ॥”

रत्नाकर का कथन इस प्रकार है:—

“तौ द्वौ धरातले तत्र स्यात्पङ्कजग्राम आदिमः ॥ १।४।१ ॥

द्वितीयो मध्यमग्रामः..... ॥

गान्धारग्राममाचष्ट.....नारदो मुनिः ।

प्रवर्तते स्वर्ग-लोके ग्रामोऽसौ न महीतले ॥ ५ ॥”

इसी प्रकारण के श्लो० ३, ४ में रत्नाकर ने गान्धारग्राम की श्रुति-स्वर-व्यवस्था बतायी है ।

तात्पर्य नारद भरत के समय पूर्व ही गान्धारग्राम इतिहास में प्रविष्ट हो चुका था ।

vii. मतंग तथा रत्नाकर ने गान्धारग्राम से उत्पन्न होनेवाली कोई 'जाति' या

राग का निर्देश तरु नहा किया है। किन्तु नान्यभूषाल ने रागाध्याय में गान्धारग्राम-जन्य लगभग २६ रागों का उल्लेख प० ७९ पर किया है।

viii. प्रचलित भैरव, पूर्वी, मारवा आदि लगभग सात घाट पद्मप्राम तथा मध्यमप्राम इन दोनों से बिना किसी खींचातानी के पैदा नहीं हो सकते। इसी कारण से ऐसे घाटों को पैदा करने के लिए कतिपय श्रुतिपंडित गान्धारग्राम को पुनर्जीवित कराते हुए उसका आश्रय लेते हैं। उन्होंने गान्धारग्रामिक सप्तक भी अनेक प्रकार से अनुमानित किया है। (सं० क० वि०, अगस्त १९५६ और दिसंबर १९५८ 'खर त्रिहार श्रुति रहस्य'-पट०)

ix सं० रत्नाकर ad में पृ० ३९४ पर गान्धारग्राम के श्रुत्यन्तर गान्धार से आगे ३, ३, ३, ४, ३, ३, ३, इस प्रकार अपपठित दिये हुए हैं। एक श्रुतिलेखक ने उक्त भ्रामक पाठ का आधार 'प्राचीन' नाम से लेकर गान्धारग्राम एवं तज्जन्य भैरवादि घाटों को सिद्ध करके बताया है। तदुपरान्त आपने 'रत्नाकरोक्त' गान्धारग्राम के श्रुत्यन्तर निम्नानुसार दिये हैं —

(पद्मसे=) 'स २ रे ४ ग ३ म ३ प ३ ध ४ नि स' और लिखा है, कि 'गान्धारग्राम में ऋषभ धैवत द्विश्रुतिक होते हैं, यही उसका वैशिष्ट्य है' (सं० क० वि०, दिसंबर १९५८, पृ० ६०२, ६०३ पट०—)।

x क्लेमेण्ड्स ने गणितशास्त्र का क्लिष्ट आधार लेकर गान्धारग्राम का कुछ विचित्र ही विश्लेषण किया है —

'The गान्धारग्राम has always presented difficulties to the student, and has always proved an attractive problem in spite of the fact that it was obsolete in शतकम्बु s time.

The difficulty of the problem attaches to the चतु १, which divides the six-shruti interval between ग and प into two intervals of three shrutis. Now, two minor-tones  $\frac{1}{9} \times \frac{1}{9}$  are greater than a minor-third ( $\frac{2}{3}$  or six shrutis). Here, then, is another practical example of the inequality of the shrutis. If प is taken to be a minor-tone or three shrutis below ध, the interval separating it from म b/ (१२० क.) will be  $\frac{33}{100}$ , a difficult interval to sing. This may account for the disappearance of the गान्धारग्राम' (p 56-57)

xi प० जहोबल ने गा धारग्राम का वर्णन निम्नानुसार किया है —

'श्रुति-त्रय-समायुक्तो यदा गो मेहगो भवेत् ॥ १०१ ॥

गान्धारग्राम आह्वयतस्त्रिसृमि श्रुतिभि परे ।

चतु श्रुतिर्निपाद त्वात् पद्मोऽपि त्रिसृभिर्नुत ॥ १०२ ॥'

अहोबल ने किया हुआ यह वर्णन बराबर नहीं है। अहोबल ने मध्यमग्रामिक निपाद त्रिश्रुतिक बताया है (स्रो० १००), वह भी उसी प्रकार धनपूर्ण है।

## ४ अथ मण्डल-प्रस्तार-प्रकरणं चतुर्थम्

[ अथ पङ्कजग्रामिक-मण्डल-प्रस्तारः ]

तिर्यगूर्ध्वमधस्तात्पट्टपञ्च रेखाः प्रपातयेत् ।  
 ऊर्ध्वमीपञ्च विन्यस्य कुर्याद्विंशति-कोष्ठकान् ॥ ६७ ॥  
 आलात-चक्र-प्रतिमं स्वर-चक्रं च कारयेत् ।  
 द्वाविंशतिश्च श्रुतयो यथा-रेखानुगा इह ॥ ६८ ॥  
 ईशान-कोण-विन्यस्त-रेखाग्रे पङ्कजमालिखेत् ।  
 चतुर्थं ऋपभं न्यसेत्पष्ठे गान्धारमेव च ॥ ६९ ॥  
 पतितायां द्वितीयायां मध्यमं विन्यसेत्तथा ।  
 ऋपभ-स्पृष्ट-रेखायामालिखेत्पञ्चमं स्वरम् ॥ ७० ॥

टी० :— ( ६७-७१ ) i. पङ्कजग्रामिक श्रुति-स्वर-व्यवस्था मंडलप्रस्तार से निम्न के अनुसार बतायी है:—

श्लो० ६७; पं० १: MS. के पाठ के अनुसार केवल पाँच रेखाओं का निर्देश है। ग्रंथकार की आगे कही हुई व्यवस्था को देखकर यह पंक्ति हमने शुद्ध की है। श्लोकों का अर्थ हम इस प्रकार लगाते हैं:—( ६७ ) “तिर्यगूर्ध्वम्०” इत्यादि = आड़ी (= horizontal) छः रेखाएँ निकाली जाँय, तदनंतर उनको छेदनेवाली पाँच खड़ी (perpendicular) रेखाएँ खींची जाँय। “ऊर्ध्वमीपञ्च०” इत्यादि = सभी रेखाओं के नोक किंचित् बाहर की ओर छोड़ दिये जाँय; जिससे मध्यवर्ती क्षेत्र में बीस खण्ड बन जायेंगे। ( ६८ ) “द्वाविंशतिश्च श्रुतयो यथा-रेखानुगा०” इत्यादि = बहिर्वर्ती २२ रेखाओं पर २२ श्रुतियों की गिनती की जाय। “आलातचक्र-प्रतिमम्०” इत्यादि = एवं आलात-चक्र के अनुसार थुल्यन्तरो की संख्या को दृष्टि में रखकर रेखाओं पर स्वर-नाम चक्राकार पद्धति से लिखे जाँय। “ईशान-कोण-विन्यस्त०” इत्यादि = ईशानदिशा में कोण के रेखाग्र पर पङ्कज का नाम लिखा जाय। चतुर्थ रेखाग्र पर ऋपभ एवं पष्ठ रेखाग्र पर गान्धार लिखें। “पतितायां द्वितीयायाम्” इत्यादि = बाईं ओर से द्वितीय रेखाग्र पर मध्यम तथा ऋपभवाले रेखाग्र के विरुद्ध बाँयें रेखाग्र पर पंचम स्वर को लिखें। “पङ्कज-दण्डस्य यन्मूलम्०” इत्यादि = पङ्कज



पङ्ज-दण्डस्य यन्मूलं कारयेत्. तत्र धैवतम् ।

मध्यमाविद्ध-रेखाय्रे निपाद-स्वरमालिखेत् ॥ ७१ ॥

[ इति पङ्जग्रामिक-स्वर-मण्डल-प्रस्तारः ]


[ अथ मध्यमग्रामिकः स्वर-मण्डल-प्रस्तारः । स यथाः- ]

ऊर्ध्वायतादि-रेखायां विन्यस्य मुख-पुच्छयोः ।

मध्यममृपभं चैव; चतुर्ध्यामपि पूर्ववत् ॥ ७२ ॥

की रेखा के विरुद्ध बायें, उसके अग्र पर धैवत का नाम एवं मध्यम के सम्मुख विरुद्ध दिशा के रेखाग्र पर निपाद का नाम लिखें ।

ii नान्यदेव के उपरोक्त कथनानुसार ५० ग्रामिक श्रुति स्वर-चक्र इस प्रकार बनेगा —



iii उपरोक्त चक्र में श्रुति-स्वरों की गति ऊपर से नीचे बाईं ओर (दक्षिणत = Clock wise) रखनी चाहिए, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं आयेगा ।

iv रेखाएँ भी खड़ी पाँच एर आड़ी छ छनी चाहिए, अन्यथा नान्यदेवोक्त व्ययस्था कार्यान्वित नहीं हो सकती ।

v मत्तंग ने रेखाओं की संख्या इसने विषरित कही है । मण्डलप्रस्तार मत्तंग ने निम्नानुसार कहा है —


'एतदेव स्पष्टीकरणार्थं प्रस्तारेण दर्शयामि । तत्र केचिद् दण्ड-प्रस्तारेण दर्शयन्ति इति शक्ति श्रुतयो रेखाणामिति । अन्ये तु वीणा-प्रस्तारमाहुः । वयं पुनर्मण्डल-प्रस्तारं ब्रूमः । तथा हि—तिर्षगूर्धं च पञ्च पञ्च रेखा इत्येकादश । उभयतो द्वाविंशति ।' इत्यादि ( ५० १० )

पञ्चमं सह षड्जेन; द्वितीया पतिता च या ।  
 उत्तराग्रे तु गान्धारं, निपादं दक्षिणे मुखे ॥ ७३ ॥  
 पञ्चमात्पञ्चमी रेखा या तस्या दक्षिणे मुखे ।  
 विदध्याद् धैवतं चेति मध्यग्रामे श्रुतिक्रमः ॥ ७४ ॥  
 [ इति मध्यमग्रामिकः स्वर-मण्डल-प्रस्तारः । ]  
 ग्रामौ ज्ञात्वैवमालिख्यौ निर्दिष्टौ षड्ज-मध्यमौ ॥ ७५ ॥

रत्नाकर ने वीणा पर स्वरान्तरों के विभाग रेखाङ्कन द्वारा बताये हैं, वही मतंग-निर्दिष्ट वीणा-प्रस्तार होगा ।

टी०:—( ७२-७४ ) मध्यमग्रामिक श्रुति-स्वर-मंडल उपर्युक्त षड्जग्रामिक मंडल के अनुसार ही होगा । 'ऊर्ध्वयतादि-रेखायाम्०' = आड़ी रेखाओं में से ऊपर की प्रथम रेखा के दाहिने अग्र ( 'पुच्छ' ) पर ऋषभ को लिखिए । 'चतुर्ध्वमपि पूर्ववत्०' = चतुर्थ (= मध्यम से तृतीय ) आड़ी रेखा के दाहिने अग्र पर पंचम को एवं उसी के ठीक बायें अग्र पर षड्ज को लिखिए । 'द्वितीया पतिता०' = बाईं ओर से द्वितीय खड़ी रेखा के ऊपर के अग्र ( 'उत्तराग्रे' ) पर गान्धार तथा नीचे के अग्र पर ( 'दक्षिण-मुखे' ) निपाद स्वर लिखें । 'पञ्चमात्पञ्चमी रेखा या०' = पंचम से नीचे पाँचवे रेखाग्र पर ( 'दक्षिण-मुखे' ) धैवत को लिखें ।

नान्यदेव के कथनानुसार मध्यमग्रामिक स्वर-मंडल निम्न प्रकार से बन जाता है :—



[ अथ गान्धारग्रामिक-स्वर-मण्डल-प्रस्तारः । स यथाः— ]  
योऽत्र तृतीयो गान्धारग्रामः स्वर्गेऽनुगीयते ।  
तस्य प्रस्तार-योगं तु गन्धर्व-पतयो विदुः ॥ ७६ ॥  
ऊर्ध्वायतादि-रेखायां गान्धारं विन्यसेत्तथा ।  
ऊर्ध्वा रेखा चतुर्थी यां लिखेत्तस्यां च मध्यमम् ॥ ७७ ॥  
पतितायां द्वितीयायां पञ्चम्यां चैव दक्षिणे ।  
धैवतं पञ्चमं चेति क्रमेण विनिवेशयेत् ॥ ७८ ॥  
गान्धार-मध्यमाविद्ध-रेखा-पुच्छ-द्वये पुनः ।  
षड्जं चैव निपादं च विन्यसेत्क्रमशो बुधः ॥ ७९ ॥  
द्वितीया पतिता तस्यामृषभं चैव विन्यसेत् ।  
एवं गान्धारग्रामेऽपि श्रुति-क्रम उदीरितः ॥ ८० ॥  
[ इति गान्धारग्रामिकः स्वर मण्डल-प्रस्तारः । ]

टी० :— ( ७६-८० ) “ऊर्ध्वायतादि रेखाया गान्धारम्”=ऊपर से प्रथम आडी रेखा के दाहिने अग्र पर गान्धार को लिखें, एव “ऊर्ध्वा रेखा चतुर्थी तस्या मध्यमम्”=आडी चतुर्थ रेखा के दाहिने अग्र पर ( गान्धार से नीचे तृतीय रेखाग्र पर ) मध्यम को लिखें । “पतिताया द्वितीयाया दक्षिणे धैवतम्”=बायें से द्वितीय खड़ी रेखा के निम्नाग्र पर धैवत को रखें, तथा, “पतिताया पञ्चम्यां दक्षिणे ( =दक्षिणाग्रे ) पञ्चमम्”=बायें से पाँचवी खड़ी रेखा के निम्नाग्र पर पञ्चम स्वर का नाम लिखें । “गान्धार मध्यमाविद्धम्”=गान्धारेण आविद्धा या रेखा तस्या पुच्छे, पुच्छ वामाग्र, तस्मिन्स्थथा चैवर्ष । अर्थात् गान्धारयुक्त रेखा के बायें अग्र पर षड्ज एव “मध्यमाविद्धरेखा-पुच्छे निपादम्”=मध्यमयुक्त रेखा के बायें अग्र पर निपाद का नाम लिखें । “द्वितीया पतिता तस्यामृषभम्”=बाईं ओर से द्वितीय खर रेखा ( धैवतयुक्त ) के ऊपरी नोक पर ऋषभ को लिखें । नान्यदेव के कथनानुसार गान्धारग्रामिक श्रुति स्वर चक्र इस प्रकार होगा —

५ अथ श्रुति-भेदादि-प्रकरणं पञ्चमम्


प्रतिग्रामं मूर्च्छनादि-भेदास्तान-विधिं तथा ।

तानानामपि संख्यानां वक्ष्यामोऽनुक्रमात् (पुनः) ॥ ८१ ॥

अथ श्रुतयः ।

“श्रुतिः श्रूयत” इत्येवं ध्वनिरेषोऽभिधीयते ।

श्रुणोतेः कर्म-विहिते प्रत्यये क्तिनि जायते ॥ ८२ ॥



टी० :— (८२) i. 'श्रुति' संज्ञा की यह निरुक्ति मतंगोक्त है ।

मतंग-वचन इस प्रकार है :—

'श्रु श्रवणे चास्य धातोः क्ति-प्रत्यय-समुद्भवः ॥ २६ ॥

श्रुति-शब्दः प्रसाध्योऽयं शब्दज्ञेर्भावन-साधनः ॥'

'श्रूयन्त इति श्रुतयः ।' ( वृ० दे० पृ० ४ )

( सि० के इस उद्धरण में 'भाव-साधनः' का पाठ 'कर्म-साधनः' है । )

ii. मतंगोक्त इस निरुक्ति के आधार विश्वावसु तथा दत्तिल होंगे । विश्वावसु का श्लोक मतंग ने उद्धृत किया है :—

'श्रवणेन्द्रिय-प्राह्यत्वाद् ध्वनिरेव श्रुतिर्भवेत् ।' इ० ( वृ० दे० पृ० ४ )

iii. दत्तिलोक्त निरुक्ति निम्नानुसार है :—

'इति ध्वनि-विशेषास्ते श्रवणाच्छ्रुति-संज्ञिताः ॥ ९ ॥'

iv. विश्वावसु का निर्देश नारद ने किया है, जिससे मानना पड़ेगा कि वह नारद-भरत-पूर्व का ग्रन्थकार है :—

‘तुम्बरु-नारद-सिद्ध-विश्वामित्रादयश्च गन्धर्वाः ।

सामसु निभृतं करगं खर-सौक्ष्म्यात्तेपि हि न कुर्युः ॥२।६।११॥’

v. इसी प्रकार की व्युत्पत्ति रत्नाकर ने भी कही है :—

“श्रवणात् श्रुतयो मताः” १।३।८

.vi. यदि श्रुति तथा खर इन दोनों में श्रवण-योग्यत्व का गुण है, तो इन दोनों में भिन्नत्व क्या हुआ ? इस का उत्तर कल्लिनाथ ने यह दिया है :—

“श्रवणात्, श्रवणयोग्यत्वात् । श्रुतयः श्रूयन्त इति ध्युत्पत्त्या । एतदुक्तं भवति :—  
यद्यपि श्रवण-योग्यत्वमनुरणनात्मनः खर-तानादि-रूपेण दीर्घ-दीर्घत्यापि ध्वनेर्नि-  
घते, तथाऽप्यत्र भारुताचाहल्वनन्तरोत्पन्न-प्रथम-क्षण-वर्ति-श्रवण-मात्र-योग्य-ध्वनेरेव  
श्रुतित्वमिति ।” ( १।३।८—९ ); तात्पर्य, प्रथमाघात-रूप क्षणिक ध्वनि का नाम  
‘श्रुति’ है, उसके पश्चात् पैदा होनेवाली अनुरणनात्मक ( भूँजनेवाली ) दीर्घ  
ध्वनि खर कहलाती है, यही दोनों की भिन्नता है । खर की व्याख्या में  
रत्नाकर ने यह भेद स्पष्ट किया है :—“श्रुत्यनन्तर-मात्री यः स्निग्धोऽनुरणना-  
त्मकः । स्वतो रजयति श्रोतृ-चित्तं स खर उच्यते ॥ १।३।२४ ॥”

‘श्रुत्यनन्तर-मात्री = श्रुतेःश्रुत्यादेर्माहिताचाहल्युत्पन्न-प्रथम-ध्वनेरनन्तरं भाव्या-  
विर्भवनशीलः, स्निग्धः = अरुक्षः सन्दूर-संश्राव्यः; अनुरणनात्मकोऽनुस्वान-रूपः,  
स्वतः = सहकारि-कारण-निरपेक्षः; श्रोतृचित्तं रजयति = अनुरक्तं करोति’ ( २४—  
२५, क्र० ) । नान्यदेव ने ‘खर’ शब्द की निरुक्ति “स्वयम् आत्मानं रजयति”  
यही कही है ( २।६९ ); किन्तु मतंग ने खर शब्द की निरुक्ति अन्य प्रकार  
से दी है :—

“राजुदीप्तावस्य धातोः ख-शब्द-पूर्वकस्य च ।

स्वयं हि राजते यस्मात्तस्मात्खर इति स्मृतः ॥”

यह मतंगोक्त निरुक्ति पतंजलि द्वारा कही हुई व्याकरणान्तर्गत है । मतंग ने  
कोइल के आधार पर दी हुई खर की व्याख्या अधिक अच्छी है :—

‘ननु खर इति किम् ! उच्यते :— राग-जनको ध्वनिः खर इति ।

तथा चाह कोइलः—‘ध्वनी रक्तः खरः स्मृतः ।’ ( पृ० १२ )

रत्नाकर के उपरोक्त कथन के अनुसार श्रुतिरूप ध्वनि अनुरणनशून्य एवं  
अरंजक होना चाहिए । जैसा कि सिंहभूपाल ने स्पष्ट किया है :—

“प्रथम-तद्वानाहतायां यो ध्वनिरनुरणन-शून्य उच्यते, स ध्वनिः ।

यस्य ततोऽनन्तरमनुरणन-रूपः श्रूयते स खरः ।” ( १।३।२४-२५ )

किन्तु इन्हीं भरतादिक प्राचीन ग्रन्थकारों के कथन के अनुसार 'श्रुति' का अर्थ खरान्तरों के सूक्ष्म विभाग, ऐसा ही होता है; इस भावार्थ के अनुकूल रत्नाकर की उपरोक्त व्याख्या नहीं है। रत्नाकर के कथनानुसार ग्राह्य करना होगा कि पङ्क, ऋषभ आदि की खराबस्था के पूर्व चार तीन आदि जो अनुरणनहीन ध्वनि सुनाई देती हैं, वे ही श्रुतियाँ हैं।

vi. श्रुति तथा खर में परस्पर संबंध क्या था, इस विषय में प्राचीन ग्रन्थकारों के अनेक मत थे। 'तादात्म्य' 'विवर्तित्व' 'कार्यत्व' आदि पाँच प्रकार के मतों का निर्देश "तादात्म्यं च विवर्तित्वं, कार्यत्वं परिणामिता।" इत्यादि श्लो० ३१ में मतंग द्वारा किया गया है। एवं उनकी चर्चा भी की गयी है। "अत्र बहुधा विप्रतिपत्तिः" कह कर मतंग का उक्त विवेचन सिंहभूपाल ने भी उद्धृत किया है। प्राचीन विद्वानों के मतानुसार श्रुतियों खरों का कारण है, इस प्रकार का निर्णय मतंग ने कहा है:—

'परिणामोऽभिव्यक्तिस्तु न्याय्यः पक्षः सतां मतः ॥२५॥'

vii. श्रुतियाँ यदि खर का कारण है, तो श्रुतियों का भी कोई कारण होना चाहिए, इस प्रकार की एक शंका को लेकर मतंग ने चर्चा की है, एवं उसका समाधान किया है कि, श्रुति के भी विभाग ('अवयवाः' = 'मात्रकाः') किये जा सके तो फिर ऐसी श्रुतियों की रक्षा हो नहीं सकती।

"किञ्च प्रमाणगम्यत्वे समेऽपि यदि मात्रकाः ।

निहोतन्यास्तादा रक्षा श्रुतीनामपि दुर्लभा ॥ ५२ ॥"

तारपर्य, प्रत्यक्ष ज्ञान से एवं अनुमानादि प्रमाणों से सिद्ध होता है कि खरों की उत्पत्ति का कारण श्रुतियों ही हैं, परंतु श्रुतियों का कोई कारण हो नहीं सकता :—

"अर्थापत्यानुमानेन प्रत्यक्ष-ज्ञानतोऽपि वा ।

गृह्यन्ते श्रुतयस्तावत् खराभिव्यक्ति-हेतवः ॥ ५३ ॥

धिनैव कारणं तास्ताः खराणां कारणं यदि ।

भवेयुः श्रुतयस्तासामादिर्नैव्येत कारणम् ॥ ५१ ॥"

viii. एक सप्तक में श्रुतियाँ २२ होने का सिद्धान्त भरतमुनि ने कहा था, अतः उनके पश्चात् के ग्रंथकारों ने भी श्रुतिसंख्या २२ ही मान ली। वास्तव में देखा जाय, तो श्रुतियों की संख्या २२ से भी बढ़ा जा सकती है। तथा श्रुतियों के और भी सूक्ष्म विभाग हो सकते हैं। प्राचीन शास्त्रकारों को इस आपत्ति की अस्पष्ट कल्पना थी, जैसा निम्नलिखित शंकारूप मतंगोक्ति से प्रतीत होता है:—

“ननु ध्रुतीनां द्वाविंशति-प्रकारता यत्तदप्यसङ्गतं, ध्रुतीनां ध्रुत्ववयवानां चानु०-(५)-रूपमात् । तदुक्तम्:—

कथं प्रतीतिश्च भवेदमुष्या  
नादो नभोभ्यानुच्छित्त-ध्रुतिवात् ।  
भवेदलक्ष्यावयवः, ध्रुतिस्तु  
(तेनैव) नैवावयवी प्रतीता ॥ ४६ ॥”

तात्पर्य, ध्रुति स्वयं सूक्ष्म-रूप होने से उसके अवयव याने घटक विभागों की अनुभूति की नहीं जा सकती, अतः वह विभाग-रहित-सी प्रतीत होती हुई भी वास्तव में विभाग-युक्त होती है । इस दृष्टि से ध्वनि के प्रति-सेकंड में होनेवाले कंपनों को ‘ध्रुति’ के अवयव याने आत्यन्तिक विभाग कहे जा सकते हैं ।

viii. रत्नाकर ने एक सप्तकावकाश में ‘निरन्तर’ (=निकटतम) ध्वनि (=‘ध्रुति’) २२ कही है एवं यह संख्या मर्यादा की पराकाष्ठा कही है । वास्तव में ऐसी ‘निरन्तर’ ध्वनियों की संख्या २२ से कई गुनी अधिक हो सकती है, कारण कि श्रवणेंद्रियप्रायः सूक्ष्मान्तर ध्वनि एक सप्तकावकाश में लगभग ४०० तक होती है । वस्तुतः ऐसी सूक्ष्मान्तर ध्वनियों को या कंपनों को ‘ध्रुतियों’ के अवयव या ध्रुति समझना चाहिए; किन्तु स्वर-कंपनादि जानने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक साधन तथा स्वरविषयक गणित प्राचीन शास्त्रकारों को उपलब्ध नहीं होने से सप्तकावकाश के विभाग २२ से अधिक पें न कर सके ।

ix. ऋ० प्रा० में ‘ध्रुति’ संज्ञा ध्वनि-श्रवण के अर्थ में प्रयुक्त हुई है । पाणिनि ने ‘ध्रुति’ शब्द स्वर के सामान्य अर्थ में प्रयुक्त किया है (१।२।३३) । नारदीयशिक्षा के श्लोक १।८।७ ‘...साधारणमिति ध्रुतिः’ एवं श्लोक २।३।३ ‘...सन्नेय्य सपन्नेय्य नीचादुच्चार्यते ध्रुतिः’ दोनों में ‘ध्रुति’ संज्ञा वैदिक स्वर के अर्थ में प्रयुक्त हुई है । श्लोक १।६।१६ ‘तद्वत् स्वरगता ध्रुतिः’ तथा १।७।९-१८ में दीप्ता, आपता इत्यादि ध्रुति-जाति के अनुसंधान में प्रयुक्त ध्रुति-संज्ञा सामिक स्वरोंधार की क्रिया से उत्पन्न है । गायन के दसविध गुण ‘रकं, पूर्णम, अलङ्कृतम, प्रसन्नम, व्यक्तम, विद्वन्, अक्षय्यम, समम, सुकुमारम, मधुरम्’ ( १।३।१-११ ) इत्यादि नारद ने कहे हैं, यहाँ ‘पूर्ण’ की व्याख्या:—‘पूर्ण नाम:— स्वर-ध्रुति-सूक्ष्मात्सूक्ष्मात्सर्वस्वयोगात्पूर्णेभित्ति उच्यते’ इस प्रकार की है । यहाँ ‘ध्रुति’ शब्द ध्वनि के सामान्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । श्लो० १।७।१८—‘दीप्ताद्दीप्तो जानीवात्०’ इत्यादि में सर्वत्र के स्वरों की ध्रुति की दीप्ता तथा मृदु रेखा दो ही बतायी हैं । तात्पर्य, स्वर के सूक्ष्म विभाग के अर्थ में

‘श्रुति’ शब्द नारद ने प्रयुक्त किया नहीं है, न उनकी २२ संख्या निर्दिष्ट की है । अनु० २ में नारद ने संगीत विषयो की जो सूचि दी है, उसमें स्वर, ग्राम, मूर्च्छना आदि का उल्लेख है, किन्तु ‘श्रुति’ का नामोल्लेख तक नहीं है:—

“तान-राग-स्वर-ग्राम-मूर्च्छनानां तु लक्षणम् ॥ २।२ ॥

.....सप्त-स्वराख्यो ग्रामा मूर्च्छनास्त्वेकाविंशतिः ।

ताना एकोनपञ्चाशदितित्येतास्वर-मण्डलम् ॥ ४ ॥

पङ्कज-मध्यम गान्धाराख्यो ग्रामाः प्रकीर्तिताः ॥ ६ ॥”

इस प्रकार तीन ग्राम नारद ने कहे हैं, किन्तु ग्राम-भेदक श्रुति-व्यवस्था का उल्लेख उसने नहीं किया है ।

x. किन्तु मतंग ने विश्वावसु के श्लोक उद्धृत किये हैं, उनको देखने से अनुमान कर सकते हैं कि बाईस श्रुतियो की कल्पना नारद के पूर्व ही प्रचलित हुई होगी, यदि दोनों विश्वावसु एक ही व्यक्ति हो । स्वर-स्थानस्य एवं स्वरान्तर-स्य इस प्रकार विश्वावसु ने श्रुतियो के दो भेद माने हैं:—

‘सा चैकापि द्विधा ज्ञेया स्वरान्तर-विभागतः ।

नियत-श्रुति-संस्थानाद् गीयन्ते सप्त गीतिषु ॥

तस्मात्स्वरगता ज्ञेयाः श्रुतयः श्रुति-वेदिभिः ॥

अन्तःश्रुति-विवर्तिन्यो ह्यन्तर-श्रुतयो मताः ।

एतासामपि चैश्वर्यं क्रिया-ग्राम-विभागतः ॥’

—बृ० दे० पृ० ४

विश्वावसु का कथन है कि:—

“(१) सप्त स्वर-स्थानों में सप्त श्रुतियों स्थित हैं, जो स्वर-गत श्रुति कहलाती हैं । (‘शुद्ध-स्वररूपां, इत्यर्थः’—क०)

(२) दो स्वरों के मध्य में बची हुई श्रुतियों को अन्तःश्रुति कहते हैं । (‘विकृत-स्वररूपा, इत्यर्थः’—क०)

(३) एकग्रामान्तर्गत कतिपय अन्तःश्रुति अन्य ग्राम में स्वर बन जाती हैं, अर्थात् ‘अन्तःश्रुति’ में परिवर्तित होती हैं ।” (कठिनाय ने ‘चैश्वर्य’ पाठ दिया है ।)

xi. प्राचीन प्रपकारों में श्रुतिसंख्या के विषय में मतभिन्नता थी तथा अनेक मत प्रचलित थे । इनमें से दो मतों का निर्देश मतंग ने किया है:—

(अ) अनन्तश्रुति :—१: इत विषय में नन्दिकेश्वर का एक उद्धरण मतंग द्वारा प्रस्तुत किया गया है:—



‘जाति-भाषादि-संयोगादनन्तः कीर्तितः स्वरः।’ (पृ. १२)

यहाँ ‘भाषा’ शब्द से भाषारागों का निर्देश है ।

२: अनन्त श्रुतियों का उल्लेख कोहल के एक श्लोक में उपलब्ध है ।

उक्त श्लोक भी मत्तंग ने उद्धृत किया है:—

‘...केचिदासामानन्त्यमेव प्रतिपादयन्ति।’ (पृ. ५); यह अनन्त-श्रुतिवाला मत भरतपुर्य के समय से ही प्रचलित था ।

(इ) एकश्रुति:—इस मत के प्रतिपादक स्वयं मतगमुनि ही हैं । मत्तंग भरतमुनि के दृढ अनुयायी थे, किन्तु इस विषय में भरत से उनका मतभेद था और उन्होंने अपना मत धैर्य से प्रगट भी किया है, जो निम्नलिखित है:—

“श्रूयन्त इति श्रुतयः। सा चैकानेका वा । तत्रैकैव श्रुतिरिति । तद्यथा:— तत्रादी तावदग्नि-संयोगाद्युरूप-प्रयत्न-प्रेरितो नाभेरूर्ध्वमाकाश-देशमाक्रमद्-धूमवत् सोपान-पद-क्रमेण पवनेच्छ्याऽनेकधाऽऽरोहन्तर्भूत-पूरण-प्रलयार्थतया चतुः-श्रुत्यादि-भेद-भिन्नः प्रतिभासत, इति मामकीन मतम् ।” (पृ० ४)

(उ) भरतमुनि के बाईस श्रुतियों के मत का निर्देश मत्तंग ने कुछ व्यंग्यार्थक शब्दों से किया है:—

“तत्र केचिन्मीमांसा-मांसलितधियो धीरा द्वाविंशतिः श्रुतयो गन्यन्ते।” (पृ० ५)

(ऋ) अनन्तश्रुति परमाणुवत् सूक्ष्मतम अतएव श्रवण-गोचर नहीं होने से अनन्तश्रुति-पक्ष ग्राह्य नहीं हो सकता, इस प्रकार कड्डिनाथ ने खडन किया है:—

‘अस्मिन्पक्षे रणनानुरणनात्मकयोः श्रुति-स्वरयोर्भेदाङ्गीकारेऽप्यनुरणन-रूपाणा-मपि ध्वनीना श्रुतित्वमभिधायोभयेषामपि वीची-तरङ्ग-न्यायेनोत्पद्यमानाना तेषा-मतिसूक्ष्मभाग-कल्पनया प्रतिध्वन्यवयव-भूत-ध्वनि-बहुत-विवक्षयाऽऽनन्त्यं दर्शितम् । तदनुपपन्नमिति मन्तव्यम् । यद्यपि श्रवण-योग्यस्य ध्वनेरिन्द्रियग्राह्य-त्वाक्षित्तेन सावयवत्वेन त्रसरेणुवदवयवाः सन्ति, तथाऽपि तेषा श्रोत्र-प्रत्यक्ष-पृच्छानुमानेनार्थापत्त्या वाऽन्यतरेणैव त्रसरेणु-गत-परमाणुवद् गम्यतया श्रोत्र-ग्राह्य-त्वाभावात्, स्वतः स्वराभिव्यक्ति-हेतुत्वाभावेनाश्रुतित्वाद्, इति ।’

( १।३।१०-१६ )

xii. भरतादिओ ने सप्तकावकाश के बाईस सूक्ष्म विभागों को बाईस श्रुतियों मानी हैं । एत सप्तकावकाश मे ऐसी बाईस ध्वनि प्रथमतः गृहीत कर के तत्पश्चात् चतुर्थ ध्वनि पर पद्ज, तदनंतर तृतीय ध्वनि पर ऋषभ इत्यादि के

अनुसार स्वर-स्थापना करने बाबत कहा है । वास्तव में देखा जाय तो स्वर-स्थापना की पद्धति स्वर-संवादों पर आधारित होनी चाहिए, जैसा कि पं० अहोवाल ने कहा है । किन्तु अपने प्राचीन ग्रंथकार सर्वप्रथम श्रुतियों स्थापन कर लेनेके बाद तज्जन्य स्वर इन्हीं श्रुतियों से पैदा कर लेने बाबत कहते हैं । जो स्वरशास्त्र की दृष्टि से विपरीत क्रिया होगी । एतद्विपपक शास्त्रकारों के वचन निम्नोद्धृत हैं:—

A. “तत्र स्वराः,

पङ्कजश्च ऋषभश्चैव.....॥ २८।२२ ॥

चतुर्विधत्वमेतेषां विज्ञेयं श्रुतियोगतः ।

वादी चैवाथ संवादी ह्यनुवादी विवाचपि ॥ २३।२३ ॥

तत्र यो यत्रांशः स तस्य वादी । ययोश्च नव-त्रयो-दशकं परस्परतः  
श्रुत्यन्तरे तावन्वोन्यसवादिनौ । यथा पङ्कज-पद्ममौ, ऋषभ-धैवतौ..॥२४॥

विवादिनस्तु ते येषां स्याद् विंशतिकमन्तरम् ।

एवं वादि-सवादि-विवादिषु स्थापितेषु शेषा ह्यनुवादिनः संज्ञकाः ॥ २५ ॥”

—भ० ना०

प्रस्तुत वचन में ‘वादि-संवादी स्वरो की स्थापना’ कही है, वह नव-त्रयो-दशादि श्रुत्यन्तरो के आधार से कही ही है । अर्थात् स्वरो के संवाद के कारण श्रुतियों की उत्पत्ति नहीं बतायी गयी है, किन्तु विशिष्ट श्रुतिसंख्याक अन्तरो को लेकर उनसे संवादी-विवादी स्वरो को पैदा करके बताया है । वेणु पर भी ‘द्विक-त्रिक-चतुष्काः’ स्वर ‘श्रुतिसंख्या’ द्वारा निकलते हैं, ऐसा कहा है ( ३०।२,४ ) ।

B. इस विषय में दक्षिण का कथन अधिक स्पष्ट है:—

“.....द्वाविंशति-विधो ध्वनिः ॥ ८ ॥

उत्तरोत्तर-तारस्तु, वीणायामधराधरः ।

इति ध्वनि-विशेषास्ते श्रवणाच्छ्रुति-संज्ञिताः ॥ ९ ॥

तेभ्यः कांश्चिदुपादाय गीयन्ते सर्व-गीतिषु ।

आद्रियन्ते च ये तेषु स्वरत्वमुपलभ्यते ॥ १० ॥

...पङ्कजत्वेन गृहीतो यः पङ्कजमामे ध्वनिर्भवेत् ।

तत ऊर्ध्वं तृतीयः स्याद् ऋषभो नात्र संशयः ॥ ११ ॥

ततो द्वितीयो गान्धारश्चतुर्थो मध्यमस्ततः ।” इत्यादि ।

“दक्षिणे हि स्वेच्छया यस्यां कस्यामपि श्रुतौ पङ्कजं स्थापयेत्तदपेक्षया च श्रुति-

नियमेनान्यान्स्तरान्स्थापयेद्, इत्युक्तवान् । ...विवृतं चैतदप्रयोगस्तवकाप्यायां दत्तिल-टीकायाम् :- 'पद्जत्वेन पद्ज-स्तर-भावेन गृहीतः परिकल्पितो बुद्ध्या न्यवस्थापितो यः कश्चिद् ध्वनि-विशेषः पद्जाद्ये ग्रामे भवेत्तस्माद् ध्वनि-विशेषादूर्ध्वं तृतीयः स्थापयमः' इति ।" (सं० २० ११११५, १६ सि०)

एक से एक ऊँची ऐसी २२ ध्वनि (एक सप्तकावकाश में) गृहीत की जाँय, तो उनमें चतुर्थ ध्वनि पद्ज, सप्तम ध्वनि ऋषभ, नवम गान्धार इत्यादि मान देने से सप्तस्वरोद्भव होता है, इस प्रकार उपर्युक्त श्रोत्रों का तात्पर्य है ।

C. श्रुतियों से ही स्तर पैदा होते हैं, ऐसा मतंग का भी कथन है :-

'गृह्यन्ते श्रुतयन्तावत् स्तराभिन्वयकि-हेतवः ॥ ५३ ॥'

D. रत्नाकर ने स्वरोत्पादन की बतायी हुई योजना भी दत्तिल के अनुसार है । अर्थात् २२ ध्वनि में २२ तन्त्री छानना, फलतः चतुर्थ, सप्तम इत्यादि तन्त्रीश्रीं की ध्वनि ऋषभः पद्ज, ऋषभ इत्यादि हो जायेंगे (११३१३-१७), इस प्रकार श्रुतियों से ही स्तरों की उत्पत्ति होती है, ऐसा रत्नाकर का कथन है :- 'श्रुतिभ्यः स्तुः स्तराः पद्जर्षभ-गान्धार-मध्यमाः' इत्यादि (११३२२) । यद्यपि रत्नाकर ने 'पद्जश्चतुःश्रुतिः स्थाप्यस्तत्रयां तृतीयायाम् ।' इत्यादि कहा है तथापि उसका आशय उपरोक्त के अनुसार ही है ।

E. श्रुत्यन्तरो के विभिन्न प्रमाण (Ratios) निकालने के लिए श्रुतिपंडितों भरतोक सारणा-चतुष्टय का उपयोग करना पसंद करते हैं; कारण, रत्नाकरोक्त सारणा-चतुष्टय से उनका कोई त्वाभ नहीं होता । रत्नाकर ने सारणा भिन्न रीति से काही है, इससे श्रुतिपंडित रत्नाकर पे नाराज हैं । किन्तु दत्तिल का ग्रंथ देखने से ज्ञात होता है, कि यह रीति रत्नाकर की स्वयं नहीं है, अपितु दत्तिल पर ही आधारित है ।

F. भरतोक सारणा-चतुष्टय में पद्जादि स्तरों की स्थापना की रीति नहीं बतायी है, पूर्वस्थित पद्जादि स्तरों को उतारने की क्रिया बतायी है ।

G. यदि एक ध्वनि को बाईस बार उच्चरोत्तर ऊँची कर के सप्त-स्तरों को पैदा कर सकते हैं, तो उसी रीति से बाईस बार उतारकर उच्च स्तरों को नीच स्तरों में ला भी सकते हैं ।

यह क्रिया प्रयोग की दृष्टि से प्रशंसनीय भले ही होगी, परंतु उससे सप्तक के संवाद-युक्त स्तरों का निर्माण नहीं हो सकता । ऐसी श्रुतियों द्वारा पैदा कराये हुए वे स्तर कुथिम (Tempered) ही होंगे । बाद में स्तर-संवाद द्वारा उनकी परीक्षा करके उन्हें ठीक कर सकते हैं; परंतु यदि स्तर-संवाद-ज्ञान को

दीप्ताऽऽयता च करुणा मृदु-मध्येति नामतः ।

पञ्चैव श्रुतयः प्रोक्ता, ज्ञेया ग्रामेषु नित्यशः ॥ ८३ ॥

तथा च नारदः,

“स्वभावेनैव दुर्लक्ष्या सा च स्वर-गता श्रुतिः ।

अवधानादुपायेन योगिनामेव लक्ष्यते ॥ ८४ ॥

यथा दधिनि सर्पिः स्यात्काष्ठस्थो वा यथाऽनलः ।

प्रयत्नेनोपलभ्येत तद्वत्स्वर-गता श्रुतिः ॥ ८५ ॥

यथाऽप्सु चरतां मार्गो मीनानां नोपलभ्यते ।

आकाशे वा विहङ्गानां तद्वत्स्वर-गता श्रुतिः ॥ ८६ ॥

दीप्ताऽऽयता-करुणानां मृदु-मध्यमयोस्तथा ।

श्रुतीनां योऽविशषज्ञो न स आचार्य उच्यते ॥ ८७ ॥

दीप्ता मन्त्रे द्वितीये च प्रचतुर्थे तथैव च ।

अतिस्वारे तृतीये च ३ कृष्टे तु करुणा श्रुतिः ॥ ८८ ॥

श्रुतयोऽन्यास्तृतीयस्य मृदु-मध्याऽऽयताः स्मृताः” ॥ ८९ ॥

ही प्रामाणिक आधार मानना है, तो श्रुत्यन्तरो के आधार से स्वरों की स्थापना करने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होगी । स्वर-स्थापना के लिए संवादों के ज्ञान की आवश्यकता प० अहोबल ने ठीक ही बतायी है :—

‘स्वर-संवादिता-ज्ञानं स्वर-स्थापन-कारणम् ॥ २२६ ॥’

स्वर-स्थापना के लिए स्वर-संवाद की आवश्यकता समझनेवाला तथा इस तत्त्व पर बल देकर प्रतिपादन करनेवाला ग्रन्थकार अहोबल के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है । [ उपरोक्त B उद्धृत में सिंहभूपाल के वक्तव्य में दत्तिल की टीका ‘प्रयोगस्तवक’ का निर्देश आया है; यह टीकाप्रथ उपलब्ध नहीं है । ]

टी०:—( ८३-८९ ) i श्लो० ८४ संभवतः ना० श्लि० का होगा, किन्तु Bu. और G. संस्करण में उपलब्ध नहीं है ।

ii. ( ८९ ) n. pb. ‘द्वितीयस्य’ है ।

दीप्तादि श्रुतिजातियों को मन्त्रादि स्वरों में वितरण करने की रीति नान्यदेव द्वारा निम्नलिखित श्लोकों में कथन की गयी है:—

M: १-या २ नीचे ३ का- ४ मध्यमायाः

F: ( ८५-८९ ) ३.१।६।१६, १७, १।७।९-११

अनेन च निपाद्-गान्धार-मध्यम-पङ्कजेषु दीप्ता,  
 धैवतर्यभ-पञ्चमेषु करुणा ॥ ९० ॥ अन्याश्च मृदु-मध्याऽऽवता  
 प्लेष्वेव द्वितीयादिषु यथायथमवगन्तव्याः ॥ ९१ ॥  
 पञ्चैताः कला-काल-प्रमाणेन विभेदिता द्वाविंशतिरिति  
 व्याख्याताः ॥ ९२ ॥

स्प०— (९०) इस वाक्य के पूर्व (१) 'अयं मन्त्र-द्वितीय-प्रथम०' आदि  
 एक; तथा (२) 'यः सामगानां प्रथमः०', एवं (३) 'चतुर्यः पङ्कज इत्याहुः०' यह दो  
 श्लोक आये हुए हैं, जिन्हें हमने शिक्षाव्याय (द्वितीय) में पहले ही उद्धृत किये हैं ।

टी०— (९०-९२) i नान्यदेव की बतायी हुई दीप्तादि श्रुतियों की व्यवस्था  
 निम्नानुसार होगी:—

{	दीप्ता,	दीप्ता,	दीप्ता,	दीप्ता,	( 'प्रचतुर्ये' = प्रथम + चतुर्य )
	मन्त्र,	द्वितीय,	प्रथम,	चतुर्य	
{					
	निपाद्,	गान्धार,	मध्यम,	पङ्कज	

{	करुणा,	करुणा,	करुणा,
	धैवत,	ऋषभ,	पञ्चम,
{			
	अतिस्वार,	तृतीय,	शुद्ध

नान्यदेव के कथनानुसार स-ग-म-नि की प्रथम श्रुति दीप्ताजाति की है, रे-ध की  
 प्रथम श्रुति की जाति करुणा है तथा पंचम की अन्तिम श्रुति 'करुणा' जाति की है ।

ii. नान्यदेव ने 'दीप्ता' शब्द का अनुबंध 'प्रचतुर्ये' तक ही लगाया है तथा  
 'प्रचतुर्ये' का अर्थ 'प्रथम और चतुर्ये' ऐसा किया है । किन्तु ना० शि० के  
 टीकाकार ने 'दीप्ता' शब्द 'तृतीय' तक संबन्धित किया है, एवं 'करुणा' शब्द  
 केवल एकमात्र शुद्ध के लिए प्रयुक्त किया है; अपितु नान्यदेव ने 'करुणा'  
 शब्द को अतिस्वार, तृतीय एवं शुद्ध इन तीनों से संबन्धित माना है । 'शुद्धे तु  
 करुणा श्रुतिः' इस वाक्यांश में 'तु' शब्द 'करुणा' का अनुबंध शुद्ध तक ही  
 सीमित करता है । इस दृष्टि से ना० शि० के टीकाकार द्वारा किया गया अर्थ  
 ही समंजस प्रतीत होता है । किन्तु सामवेदिक 'प्रथम' आदि श्रुतियों को संगीत  
 के मध्यम आदि मानने में इस अर्थ से बाधा जाती है; संगीतज्ञ-इसी कारण से

मान्यदेव ने 'करुणा' शब्द का अनुबंध पूर्ववर्ती 'अतिस्वार' शब्द तक बढ़ाकर वाक्यार्थ सांगीतिक स्वर-श्रुति-व्यवस्था को अनुकूल करा लिया होगा, ऐसा प्रतीत होता है ।

iii. 'दीप्ता मन्त्रे द्वितीये च ०' इत्यादि नारदोक्त श्लोकों का अर्थ ना०शि० के टीकाकार शोभाकर ने भिन्न प्रकार से कहा है, जिसका सारांश निम्न-निर्दिष्ट है:—

( १ ) 'पञ्चाना खराणां ०' इत्यादि ।

अर्थ:—मन्द्र, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा अतिस्वार्य इन खरों की श्रुति-जाति 'दीप्ता' होती है ।

( २ ) 'द्वितीय-खरस्य.....उच्यते ।'

अर्थ:—'द्वितीय' खर की अन्य तीन श्रुतियाँ उपाधिवशात् 'मृदु', 'मध्या' एवं 'आयता' कही है । ( यहाँ 'द्वितीय' की संपूर्ण श्रुति-संख्या चार होती है, ऐसा कहा है । गान्धार की श्रुति-संख्या दो ही होने से 'गान्धार' को 'द्वितीय' मानने में इससे बाधा आती है । )

“आयतत्वं वदेन्नीचे मृदुत्वं तु विपर्यये ।

खे खरे मध्यमत्वं तु तत्समीक्ष्य प्रयोजयेत् ॥” ना०शि० १।७।१२ ॥

टीका:— ( १ ) 'नीचे तृतीय ०' इत्यादि ।

अर्थ:—'तृतीय' खर परवर्ती हो, तो 'द्वितीय' खर की श्रुति 'आयता' होती है, किन्तु विपर्यय से अर्थात् 'चतुर्थ' खर परवर्ती होने पर 'द्वितीय' खर की श्रुति 'मृदु' हो जाती है । यदि 'द्वितीय' खर स्वस्थान पर हो, तो उसकी श्रुति 'मध्या' होती है । तात्पर्य यह कि, 'द्वितीय' खर की स्थिति का ध्यान रख कर साम-गायन में इन श्रुतियों का प्रयोग करना चाहिए ।

( २ ) 'द्वितीये दीप्ता०' इत्यादि ।

अर्थ:— 'द्वितीय' खर की श्रुति 'दीप्ता' के प्रयोग को विषय में नियम कहते हैं:—

“द्वितीये विरता या तु क्रुष्टथ परतो भवेत् ।

दीप्ता तां तु विजानीयात्प्रथमेन मृदु स्मृता ॥ १३ ॥

अत्रैव विरता या तु चतुर्थेन प्रवर्तते ।

तथा मन्त्रे भवेद् दीप्ता साम्रथेव समापने” ॥ ना० शि० १।७।१४ ॥

टीका:— ( १ ) 'द्वितीये विरता०' इत्यादि; 'क्रुष्टे परभूते.....' इत्यादि ।

अर्थः— परवर्ती स्वर यदि 'क्षुष्ट' हो, तो 'द्वितीय' स्वर की वची हुई श्रुति 'दीप्ता' कहलाती है ।

( २ ) 'अत्रैव विरता' अर्थात् प्रथम स्वर की श्रुति स्वस्थानस्थ हो, तो वह 'मृदु' होती है । उदाहरणः— 'ई ऊ' इ० ।

( ३ ) 'प्रथमे.....अवस्थिता ।'

अर्थः— श्रुति चतुर्थ स्वर में अवस्थित हो, तो 'मृदु' होती है; अन्यथा सरान्तर-गमन होने पर 'दीप्ता' हो जाती है ।

( ४ ) उदाहरणार्थः—'उग्रा इ० मन्त्रे दीप्ता भवति ।'

अर्थः—'मन्द्र' स्वर की श्रुति दीप्ता होती है । सरान्तर-गमन हो, तो तथा साम के अन्त में प्रत्येक स्वर की श्रुति दीप्ता होती है । उदाहरणः—'औ हौ' इत्यादि । यहाँ स्थानस्थ दीप्ता श्रुति का निषेध किया है ।

“सरान्तराविरतानि ह्रस्वदीर्घ-ध्रुटानि च ।

श्रुति-स्थानेष्वशेषाणि श्रुतिवत्स्वरतो भवेत् ॥ १७ ॥

दीप्तामुदात्ते जानीयाद् दीप्तां च स्वरिते विदुः ।

अनुदात्ते मृदुर्ज्ञेया गान्धर्व-श्रुति-सम्पदः ॥ ना० श्रि० १।७।१८ ॥

टीकाः—( १ ) 'श्रुतिर्न कार्पा, स्वर एव श्रुति-सदृशः कार्य इति ।'

अर्थः—'सरान्तराविरतानि' इत्यादि श्लोक द्वारा ह्रस्वदीर्घादि वर्णों में श्रुति नहीं लेने वाक्यत कहा है । ऐसे स्थान पर श्रुति के समान स्वर ही लेना चाहिए ।

( २ ) “साम-व्यतिरिक्तेषु श्रुति-द्वयमेव वर्तते, इत्याह—'दीप्तामुदात्ते जानीयात् ० ।' गान्धर्वे गाने श्रुतेरभावेऽपि तत्सदृशः स्वरः कार्यः । 'स्वर-सम्पदः ।' एतान्त् गानादि-विषये उदात्तादयस्त्रयः केनचिद् विशेषेण पञ्चत्वेनोच्यते ॥ १८ ॥”

अर्थः—उदात्त स्वर की श्रुति 'दीप्ता' एवं अनुदात्त की 'मृदु' होती है । साम-गान से भिन्न अन्य गायन में श्रुतियों का अभाव होता है, वहाँ दीप्ता एवं मृदु श्रुतियों के समान उदात्तादि तीन स्वर विशेष अवस्था में पाँच तक माने गये हैं ।

iv नारद द्वारा कही हुई उपर्युक्त सामिक श्रुतियों की योजना देखने से प्रतीत होता है, किः—

( १ ) सामिक दीप्तादि श्रुतियों के प्रयोग का संवध प्रथमादि स्वरों के क्रम तथा स्वर-संधि के साथ था ।

( २ ) साम-गायन में निश्चित स्वरोच्चार-रूप दीप्तादि पाँच श्रुतियों का ही प्रयोग अभीष्ट था, अतः श्रुतियों की सख्या पाँच ही थी ।

( ३ ) सामयुग के पश्चात् संगीतशास्त्रकारों ने सामिक श्रुतियों को श्रुति-जाति में परिवर्तित किया एवं उन्हें पङ्जादि सप्तस्वरो में चार, तीन इत्यादि संख्या द्वारा वितरित किया ।

( ४ ) सामिक पाँच श्रुतियों की सख्या संगीतशास्त्रकारों ने वाईस करा ली ।

( ५ ) साम-गायन में प्रयोज्य श्रुति विशिष्ट स्वरोच्चार के रूप में थी; संगीत-शास्त्रकारों ने उन्हीं श्रुतियों को सूक्ष्म स्वरान्तरविभाग के रूप में परिवर्तित करा ली ।

संगीतशास्त्रान्तर्गत 'श्रुति' के विकास का इतिहास इन्हीं तथ्यों पर आधारित है ।

[ 'आयतत्वं तु चेन्नीचे' इत्यादि श्लोक नारदी शिक्षा का है एवं साम-गान से संबंधित है, यह बात ज्ञात नहीं होने से, इस श्लोक का अर्थ कतिपय विद्वानों ने विपर्यस्त किया है । एक पंडितमहोदय ने लिखा है:—

" मेरु से नीचे की ओर जितना जायेंगे, स्वरो में उतनी ही उच्चता आती जायेगी । दारवी वीणा की इसी स्थिति को समक्ष रखते हुए नाट्यशास्त्र में कहा गया है:— 'आयतत्वं तु चेन्नीचे' ० अर्थात् " नीचे की स्थिति में श्रुति का आयतत्व होता है " इत्यादि ।

वास्तव में देखा जाय तो, 'आयतत्वं तु चेन्नीचे' इत्यादि-नाट्यशास्त्र में आया हुआ श्लोक प्रक्षिप्त होना चाहिए, क्यों कि यह श्लोक अलंकार-विषय में बीच में अचानक आया है, अर्थात् पूर्वापर-संबद्ध नहीं है । तदुपरान्त 'आयता, मृदु' इत्यादि श्रुति-जातियों का निर्देश तक नाट्यशास्त्र में कहीं भी उपलब्ध नहीं है ।

'मार्दव' तथा 'आयतत्व' संज्ञाएँ ना० शा० में श्रुतिनिदर्शन-प्रकरण में ( १८।२६ ) आयी हैं तथा 'मार्दव' और 'उत्कर्ष' शब्द द्विविधक-मूर्च्छना-सिद्धि-प्रकरण में उपलब्ध हैं ( २८।२७ ) । 'शैथिल्य' तथा 'आयत' संज्ञाएँ पल्लवाज-वादन के प्रकरण में आयी हैं:—

'शैथिल्यादापतत्वाद्य स्वरे गाम्भीर्यमिष्यते' ॥ ३४।२६ ॥ '

'शैथिल्यादापतत्वाद्य चर्मस्फोटनपाऽपि च ।

स्वराणां सम्भयः कार्यो मार्जनासु प्रयोन्तुभिः' ॥ ११२ ॥

'मार्जना' अर्थात् पल्लवाज आदि चर्मगाय विशिष्ट स्वरो में लगाना । 'मार्दव' का पर्याय 'शैथिल्य' इन श्लोकों में प्रयुक्त हुआ है । श्रुति-निदर्शन एवं द्विविधक-मूर्च्छना-सिद्धि के प्रकरण में प्रयुक्त 'अपकर्ष' तथा 'उत्कर्ष'



कथ्यन्ते नामतः ।

तीव्रा कुमुद्वती मन्दा छन्दोवत्यपरा स्मृता ।

तथा द्यावती प्रोक्ता रञ्जनी रैतिका तथा ॥ ९३ ॥

रौद्री क्रोधा तथा वज्री, ततश्चैव प्रसारिणी ।

प्रीतिश्च मार्जनी चैव क्षिती रक्ता ततः पुनः ॥ ९४ ॥

तथा सन्दीपनी प्रोक्ता तथैवाऽऽलापिनीति च ।

मदन्ती रोहिणी रम्या तथोग्रा क्षोभिणी ह्यपि ॥ ९५ ॥

पङ्जादिषु क्रमादेता यावस्यो यत्र संश्रिताः ।

श्रुतयः सम्यग्धुना तदत्र परिकीर्त्यते ॥ ९६ ॥

स्मृतौ निपादगान्धारौ द्विश्रुती श्रुतिवेदिभिः ।

ऋपभो धैवतश्चैव त्रिश्रुती परिकीर्तितौ ॥ ९७ ॥

ते चतुःश्रुतिकाः प्रोक्ताः पङ्जमध्यम-पञ्चमाः ।

दीप्ताऽऽयता मृदुर्मध्या पङ्जे श्रुतिचतुष्टयम् ॥ ९८ ॥

करुणा मध्या मृदुश्चेति तिस्रस्तु ऋपभे मताः ।

दीप्ताऽऽयता च गान्धारे मध्यमाख्ये स्वरे पुनः ॥ ९९ ॥

दीप्ताऽऽयता मृदुर्मध्या चतस्रः श्रुतयो मताः ।

मृदु-मध्याऽऽयताख्याश्च पञ्चमे करुणा तथा ॥ १०० ॥

करुणाऽऽयता च मध्या च धैवतेऽपि श्रुतित्रयम् ।

दीप्ता मध्या निपादेऽपि पङ्जग्रामे श्रुतिक्रमः ॥ १०१ ॥

शब्द 'मार्दव' तथा 'आपतत्व' के पर्यायरूप स्पष्ट हैं। भरतकालीन वीणाएँ हार्प-सदृश थीं, अतः इस वीणाओं के एव पखवाज के स्वरों को उतार-चढ़ाने की क्रिया एकसमान थी और इस प्रकार के उतार-चढ़ाव के लिये भरतमुनि ने 'मार्दव' और 'आपतत्व' शब्दों का प्रयोग किया है।]

चतुर्धा नाम दीप्तायास्तीव्रा रौद्री च वज्रिका ।

उग्रा भेदाश्च विज्ञेया नाना-स्वर-प्रभेदतः ॥ १०२ ॥

कुमुद्वती च क्रोधा च तृतीया तु प्रसारिणी ।

सन्दीपनी रोहिणी चेत्यायता पञ्चधा स्मृता ॥ १०३ ॥

दयावती तथाऽऽलापिन्यभिधा च मदन्तिका ।

करुणा -<sup>२</sup> त्रिविधा ज्ञेया स्वर-त्रय-समाश्रया ॥ १०४ ॥

मृद्वी चतुर्धा विज्ञेया मन्दाख्या रैतिका तथा ।

प्रीतिः क्षितिरिति प्रायश्चतुःस्वर-समाश्रया ॥ १०५ ॥

टीका:— (१०२-११३) १. समश्रुतिक स्वरो की श्रुतिजाति की तुलना करने पर वस्तुस्थिति दृष्टिगोचर हो सकती है —

१	२	३	४	} = प०] [	१	२	३	} = ऋ०
×	×	×	×		×	×	×	
दी०	आ०	मृ०	मध्या		क०	म०	मृद्वी	
				} = म०] [				} = धै०
दी०	आ०	मृ०	मध्या		क०	आ०	मध्या	
मृ०	म०	आ०	करुणा		१	२		
				} = प०]	×	×	} = गा०	
					दी०	आयता		
							} = ति०	
				दी०	मध्या			

उपर्युक्त तालिका पर दृष्टिपात करने से विदित होगा, कि पङ्क एव मध्यम की श्रुतिजातियाँ तथा उनका क्रम दोनो ही समान है, परंतु अन्य समश्रुतिक स्वरो की श्रुतिजातियाँ समान नहीं हैं। साराश, स्वरो की स्वस्थानस्थ स्थिति, कोमल-तीव्रत्व या 'तर-तीव्र' दि सूक्ष्मविकृतियों का सन्बध अथवा कार्यकारणभाव स्वरो की तत्तत् श्रुतिजाति से लगाना असम्भव है। पङ्क, मध्यम, धैवत एव निषाद 'मध्या' श्रुतिजाति पर स्थित है; किन्तु ऋषभ 'मृद्वी' पर, गान्धार 'आयता' पर तथा पचम 'करुणा' पर स्थित है। ऋषभ एव धैवत की प्रथम श्रुति की जाति करुणा है। तात्पर्य स्वरस्य श्रुतियों की जाति-व्यवस्था में कुछ हेतुपूर्ण योजना थी, ऐसा प्रतीत नहीं होता।

मध्याऽपि पद्मविधा छन्दोवत्याख्या रञ्जनी तथा ।

मार्जनी चैव रक्ता च रम्या च क्षोभिणीत्यपि ॥ १०६ ॥

पद्मे तीव्रा च दीप्ताया आयतायाः कुमुद्वती ।

मृदोर्मन्दाऽनु मध्यायाः स्मृता छन्दोवतीति च ॥ १०७ ॥

ii. श्रुतियों के नाम तथा जानियाँ नान्यभूपाल के ग्रन्थ में ही सर्वप्रथम पायी जाती हैं ।

iii. श्रुतियों के 'कुमुद्वती', 'धञ्जिका', 'प्रसारिणी', 'श्रुति' इत्यादि नाम स्पष्टतः कार्पनिक हैं ।

iv. 'श्रुति' शब्द प्रचलित संगीत में अतिकोमलादि स्वरविशेष के अर्थ में प्रसिद्ध है । भरत, मत्तंग तथा रत्नाकर के ग्रन्थों में 'श्रुति' शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है ।

v. 'श्रुति' का यह विशिष्ट अर्थ रत्नाकर-पश्चात् उसके टीकाकारों के लिखने से प्रचलित हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता है । इस अर्थ का संकेत सर्वप्रथम सिंहभूपाल की टीका में पाया जाता है:—

'अनु किं श्रुति-जाति-निरूपणेन प्रयोजनम्? उच्यते— तत्तज्जातिकां श्रुतिं श्रुत्वा मनसो नामसाम्येन तथा तथा विकार उत्पद्यत इति सूचयितुं श्रुति-जाति-निरूपणम् । ततश्च 'दीप्ता' श्रुतिमाकर्ण्य मनसो दीप्तत्वमिव भवति; 'आयता' श्रुतिमाकर्ण्याऽऽप्यतत्वमिव । एवं करुणावादि ज्ञातव्यम् ॥'

(सं० रं० १।३।२५-२८ सि०)

इसी कथन का अनुवाद कल्लिनाथ ने किया है:—

"श्रुतीनामन्योऽन्यमसकीर्णतया स्वरूप-परिज्ञानाय वचचिन्तासां साजात्मेन संगत्या रक्तवाभाय चावान्तर-भेद-सहितानां स्वरेषु न्यवस्थान दर्शयति— 'दीप्ताऽऽयता' इत्यादिना ।"

कल्लिनाथ के उपरोक्त प्रतिपादन में उसने 'क्वचित्' शब्द प्रयुक्त किया है, उससे प्रतीत होता है कि श्रुतियों के जाति-नामों के विषय में वह निःशंक तो नहीं था ।

प्रचलित तर-तीव्रादि स्वरों की कल्पना सिंहभूपाल के निम्नोद्धृत वचन से पैदा हुई होगी, ऐसा अनुमान ज्ञा सकते हैं:—

".....तत्र मन्द-तीव-तीवतरादि-तारतम्याद्य-विरुद्ध-धर्म-संसर्गस्य विद्यमान-त्वाद् भेदस्तानसिद्धः ।" (१।३। ९-८)

करुणा-मध्या-मृद्धीनामृषभेऽपि यथाक्रमम् ।

दयावती रञ्जनी च नाम स्याद् रैतिकाऽपि च ॥ १०८ ॥

गान्धारेऽपि च दीप्ताया, आयताया अपि क्रमात् ।

रौद्री, क्रोधा च नामेति द्वितयं समुदीरितम् ॥ १०९ ॥

किन्तु रत्नाकर जैसे मर्मज्ञ प्रथकार ने इस विषय की ओर किंचित् भी इङ्गित नहीं किया, यह बात विचारणीय है ।

vi. ५० अहोबल ने श्रुतियों के सन्ध में कुछ नवीन कल्पनाएँ प्रस्तुत की हैं, उनका आधार भी प्रचलित श्रुतिवाद निर्माण होने में सहायभूत हुआ होगा । ५० अहोबल का कथन निम्नानुसार है.—

“श्रुतयः स्युः खराभिन्नाः श्रावणत्वेन हेतुना ।

अहि कुण्डलवत्तत्र भेदोक्तिः शास्त्र-सम्मता ॥ ३८ ॥

सर्वाश्च श्रुतयस्तस्तद् रागेषु खरता गताः ।

रागहेतुत्व एतासां श्रुति-सङ्घैव सम्मता ॥ ३९ ॥

केशाम्र व्यवधानेन बह्व्योऽपि श्रुतयः श्रिताः ।

वीणावाञ्च तथा गात्रे सगीत-ज्ञानिना मते ॥ ४० ॥

मध्ये पूर्वोत्तरावद्ध-वीणायां गात्र एव च ।

पङ्कज-पञ्चम-भावेन श्रुतीर्द्वाविंशतिं जगुः ॥ ४१ ॥

तासां नामानि वक्ष्येऽहं नारदीयानुसारतः ॥ ४२ ॥

खर-स्थाने क्रिया-भेदाद् वैचित्र्यं जायते बहु ।

जाति-भेद-समव्याप्य यत्तद्भेदं मनीषिभिः ॥ ४३ ॥

इक्षु-क्षीर-गतं यद्वन्माधुर्यं नोच्यते बुधैः ।

तद्वत् श्रुतिगता जातिर्वाचा को वा वदिष्यति ? ॥ ६० ॥

श्रोत्र-प्रत्यक्ष-सिद्धास्ता भिन्न-श्रुति-समाश्रिताः ।

तद्वत्श्रुति गता जातिरन्यर्थ-नामका भवेत् ॥ ६१ ॥

श्रुत्यन-तरमुत्पन्ना स्निग्धानुरणनात्मकाः ॥ ६२ ॥

रञ्जयन्ति स्वतः स्वान्तं श्रोतृणामिति ते खरा ॥”

५० अहोबल के प्रतिपादन का सारांश निम्ननिर्दिष्ट है—

“(१) श्रुतियाँ खरों से अभिन्न हैं ।

(२) प्रत्येक श्रुति किसी न किसी राग में खर बन जाती है । श्रुतियाँ रागोत्पत्ति का कारण हैं ।

(३) केशाम्र जैसे सूदन अन्तर पर श्रुतियाँ असंख्य होती हैं ।

मध्यमे च क्रमाद्दीप्ताऽऽयतयोर्मृदु-मध्ययोः ।

॥ वज्रिकाऽथ प्रसारिणी प्रीतिर्मार्जनिकेति च ॥ ११० ॥

मृदु-मध्याऽऽयताख्यानां करुणायाश्च पञ्चमे ।

क्षितिरके तथा सन्दीपनी चालापिनी तथा ॥ १११ ॥

(४) पद्म-पद्म-भाव द्वारा २२ श्रुतियाँ होती हैं । जिनके नाम नारद के मत से दे रहे हैं ।

(५) क्रिया-भेद के कारण स्वर-स्थानों में वैचित्र्य पैदा होता है; श्रुतियों की दीप्तादि जातियाँ निर्माण होने में यही वैचित्र्य कारणीभूत है । उसी प्रकार श्रुति-गत जानियों का वर्णन करना भी असम्भव है, जिस प्रकार रूख और दूध के मायुर्य का भिन्नत्व कथन करना अशक्य है । किन्तु श्रुतियों की दीप्तादि जातियाँ श्रवण-प्रसक्ष हैं एवं अपने नाम के अनुसार भाव निर्माण करती हैं ।

(६) स्वर अनुरणनात्मक और स्वयं रंजक होता है, जो श्रुति के पश्चात् उत्पन्न होता है ।”

पं० अहोबल का उपर्युक्त प्रतिपादन बहुत ही सुन्दर है । उसमें हमारे गायक-धादकों की विचारप्रणाली का प्रतिबिम्ब निहित है । पं० अहोबल श्रुति-सिद्धान्त इसी कारण से आधुनिक जैसा प्रतीत होता है । पं० अहोबल की इस विचार-धारा ने प्रचलित श्रुतिसिद्धान्तों को जन्म दिया है, किन्तु सूक्ष्मावलोकन करने पर स्पष्ट होगा, कि पं० अहोबल के उपर्युक्त श्रुति-सिद्धान्तों की पुष्टि प्राचीन ग्रन्थकारों द्वारा किस हद तक होती है । अहोबल द्वारा उपर्युक्त दोनों सिद्धान्त महत्त्व के हैं, अतः इनका परीक्षण करना यहाँ आवश्यक है:—

उपरोक्त कं० (२) में प्रत्येक श्रुति रागों में स्वरत्व प्राप्त करती है, ऐसा कहा है; तथापि:—

(अ) भक्तोत्त तेषु स्थाप्योक्त शुद्ध-मिथुन स्वरों को सम्मिलित करने के बाद भी जो कतिपय श्रुतियाँ स्वरत्व-रहित ही रहती हैं, वे निम्ननिर्दिष्ट हैं:—

नि,	कै. नि,	का. नि,	च्यु. स,	स,	०,	०,	रि,	०,	ग,
	१,	२,	३,	४	५	६	७	८	९
ग,	साधा. ग,	अं. ग,	च्यु. म,	म,	०,	०,	च्यु. प,	प,	
	१०,	११,	१२,	१३	१४,	१५,	१६,	१७	
				प,	०,	०,	ध,	०,	नि
				१७,	१८,	१९,	२०,	२१,	२२,

धैवते करुणाऽऽयता-मध्यानां च यथाक्रमम् ।

मैदन्ता रोहिणी रम्या त्रीणि नामानि यानि ते ॥ ११२ ॥

निषादे च तथा दीप्ता-मध्या-श्रुत्योरनुक्रमात् ।

उग्रा च क्षोभिणी चैव नामद्वितयमीरितम् ॥ ११३ ॥

इस कोष्ठक को देखने से विदित होगा कि पङ्क से परवर्ती दो श्रुतियों, ऋषभ परवर्ती एक श्रुति, मध्यम और पचम की आगे की दो दो श्रुतियों तथा धैवत पश्चात् की एक श्रुति खरत्व प्राप्त नहीं करती ।

(१) श्रुतिपङ्क्तियों के प्रतिपादन के अनुसार मूर्च्छनाओ (modes) द्वारा बहुतांश श्रुतियाँ खरत्व प्राप्त कर लेती हैं, परन्तु पङ्क की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती एक-एक श्रुति खरत्व से फिर भी वंचित ही रह जाती है । तात्पर्य, किसी न किसी राग में प्रत्येक श्रुति खर बन जाती है, इस प्रकार का अहोबल का विधान सत्य नहीं है । इस विषय में दत्तिल का वचन 'तन्म्य काश्चिदुपादाय गीयन्ते सर्व गीतिषु' (द० १०) निर्णायक है ।

(३) पङ्क की पूर्ववर्ती चार श्रुतियाँ खर में रूपान्तरित हो जाने पर 'मृदु' आदि चार प्रकार के पङ्क विशिष्ट भाव के व्यञ्जक पैदा होते हैं, ऐसा अहोबल ने कहा है —

‘सत्य पङ्कश्चतुर्धा स्यान्मृदुत्वादि-विशेषणै ।

तत्तज्जाति विशिष्टत्वानान्यथा सिद्धिरज्ञसा ॥४२॥’

इस विवेचन के अनुसार दीप्त, आयत, मृदु एवं मध्य ऐसे चार प्रकार के पङ्क बन जायेंगे तथा उनके उक्त नामसदृश भाव भी प्रकट होंगे ।

(क) किन्तु अहोबल ने अपने स्वरों का बयान करते समय उनके 'जाति'-भेदों का त्याग करते हुए पूर्व, कोमल, तीव्र, तीव्रतर इत्यादि खर सजाओं का स्वीकार किया है, कारण कि उसको अपने समय के साथ चलना था ।

क० (३) तथा (४) में केशाग्र परिमाण द्वारा अनत श्रुतियों की सभावना दर्शाते हुए भी क० (५) के अनुसार पङ्क पचम भाव-जनित २२ श्रुतियों स्वीकृत की हैं । पङ्क-पचम भाव-जन्य श्रुतियों के सम्बन्ध में आगे विचार करेंगे । परन्तु, यहाँ इतना ही कहना प्रयाप्त होगा कि पचम भावी सप्त खर यही पापथेगोरियन् सप्तक है । अहोबल का कहना है कि यह श्रुतिनाम उन्होंने नारद के मतानुसार दिये हैं, किन्तु ना० शि० में ये उपलब्ध नहीं हैं । इससे ज्ञात होता है कि अहोबल ने अपने पूर्ववर्ती श्रुतिवादप्रिय ग्रन्थकारों का अनुकरण करने की दृष्टि से ही 'पूर्व' 'अतिकोमल' इत्यादि स्वरों की कल्पना जुटाई है ।

। ६ अथ षष्ठं श्रुति-लोप-गणना-प्रकरणम् ।

- ॥ ११७ ॥ लुप्यते यः स्वरश्चात्र पाडवे यदि वौडवे ।  
 ज्ञेयस्तु श्रुति-संसर्गे श्रुति-लोपस्तथा बुधैः ॥ ११४ ॥
- ॥ गान्धारेण निपादेन विहीनः पाडवो यदा ।  
 शेष-स्वरेषु जायन्ते श्रुतयो विंशतिस्तथा ॥ ११५ ॥
- ॥ ऋषभेण विहीनश्च धैवतेनाथ पाडवः ।  
 ततः शेष-स्वरेषु स्युः श्रुतयस्तत्र विंशतिः ॥ ११६ ॥
- ॥ पङ्कजेन पञ्चमेनाथ विहीनः पाडवो यदा ।  
 ( तदा शेष-स्वरेष्वेव श्रुतयोऽष्टादश स्मृताः ) ॥ ११७ ॥
- ॥ औडवितं च निपाद-गान्धार-रहिते यदि ।  
 अष्टादशैव श्रुतयः स्मृताः शेष-स्वरेष्वथ ॥ ११८ ॥
- ॥ गान्धारर्षभ-हीने च त्यक्त-गान्धार-धैवते ।  
 औडविते तु श्रुतयो बुधैस्तत्र दश स्मृताः ॥ ११९ ॥
- ॥ पङ्कज-गान्धार-हीने तु पङ्कज-निपाद-वर्जिते ।  
 धैवतर्षभ-हीने च त्यक्त-गान्धार-पञ्चमे ॥ १२० ॥
- ॥ निपाद-पञ्चमोपेताः श्रुतयः षोडश स्मृताः ।  
 पङ्कजर्षभ-विहीने च पङ्कज-धैवत-वर्जिते ॥ १२१ ॥
- ॥ पञ्चमर्षभ-हीने च त्यक्त-धैवत-पञ्चमे ।  
 औडवितेऽथ श्रुतयो बुधैः पञ्चदश स्मृताः ॥ १२२ ॥
- ॥ पङ्कज-पञ्चम-हीने तु ..... ।  
 ( चतुर्दश ) श्रुतयस्ततः शेषस्वरेष्विति ॥ १२३ ॥

टी०—( ११४-१२३ ) वर्ण्य स्वर की श्रुतियों भी वर्जित होती हैं, इस प्रकार की कल्पना नान्यदेव द्वारा उपर्युक्त श्लोको में प्रस्तुत की गयी है, जो अनावश्यक प्रतीत होती है ।

ग्रामे तु मध्यमे हीनो गनीभ्यां षाडवो यदा ।

पूर्ववद् विंशतिः शेष-स्वरेषु श्रुतयः स्मृताः ॥ १२४ ॥

॥ ५ ॥ रिपाभ्यां च परित्यक्तौ जायेते यदि षाडवौ ।

पैकोनविंशतिः शेष-स्वरेषु श्रुतयो मताः ॥ १२५ ॥

॥ ध-सा-भ्यां यद्विहीनं च षाडव-द्वितयं यदि । ॥ ॥

गं-नि-हीनौडवं चैत्स्यात्तदाऽष्टादश ताः स्मृताः ॥ १२६ ॥

॥ रि-गं-हीने ० ( रि-नि-हीने ) पं-नि-हीने प-गातिगे ।

औडवे श्रुतयः सप्तदशैव परिकीर्तिताः ॥ १२७ ॥

॥ ७ ॥ पं-रि-हीने ध-नि-हीने ० ( स-नि-हीने ) धं-गातिगे ।

स-ग-हीने त्रौडविते षोडश श्रुतयः स्मृताः ॥ १२८ ॥

॥ धं-रि-हीने र्स्-रि-हीने प-ध-त्यक्ते प-सातिगे ।

औडविते मता पञ्चदशैव श्रुतयः सदा ॥ १२९ ॥

॥ ८ ॥ स-धं-हीनौडवे शेषाः श्रुतयस्तु चतुर्दश ॥ १३० ॥

स- - - परित्यक्तं नि-ग-हीनं प-रि-च्युतम् ।

त्यक्तेतराणि सर्वाणि स्युर्यान्यौडवितानि तु ॥ १३१ ॥

॥ ध- - - षाडवश्चैको (?) गान्धारग्राम-सम्भवाः ।

ते षड्जग्राम एवोक्ताः श्रुति-संख्यान-संनिभाः ॥ १३२ ॥

॥ - - - षाडवौडवकारी तु यत्र यो यः स्वरः स्मृतः ।

तस्य तस्य श्रुतिस्तत्र लुप्यते नेतरा क्वचित् ॥ १३३ ॥

१ स्व०—(११४-१३३) ये लोक जालप्याय (अ० ६) के प्रारम्भ में प० ६८-६९ पर आये हैं, जो क्रमोचित्य के कारण इस स्थान पर समाविष्ट किये हैं ।

॥ १ ॥ मध्यम-हीने तु चतुः षाडवौडवित २ भेदो- ३ रिगहीनी ४ षाडवा ५ परिहीने  
६ पति- ७ वित- ८ रिगहीने



७. अथ सप्तमं श्रुति-रस-विनियोग-प्रकरणम्

°( अथ श्रुतीणां रसेषु विनियोगो, यथा :— )

ii हास्य-शृङ्गारयोर्दीप्ता श्रुतिर्भरत-सम्मता ।

आयता चापि कर्तव्या वीर-रौद्राद्भुतेषु च ॥ १३४ ॥

iii करुणा हि श्रुतिः प्रोक्ता वीभत्से सभयानके ।

iv मृदुर्मध्या च सर्वेषु रसेषु विनियुज्यते ॥ १३५ ॥

ii टी०—(१३४-१३५) ; श्रुतिजातियो के रसों का विवेचन ना० शा० में उपलब्ध नहीं है।

iii श्रुतिजाति दीप्तादि का विवेचन भी ना० शा० में नहीं है। 'श्रुतयो-  
ज्या द्वितीयस्य मृदुमध्याऽयता. सृता. । . . . मृदुमध्यमोस्तथा।' इत्यादि  
दो श्लोक ना० शा० [ २९। ३५-४० ] में आये हैं, वे प्रक्षिप्त होने चाहिये,  
जैसा पहले बतलाया गया है।

iv श्लोक १३५ में 'करुणा' श्रुतिजाति वीभत्स और भयानक रसों का परिणाम करनेवाली कही है, एव 'मृदु' सभी रसों में व्याप्त होनेवाली कही है।

v यह व्यवस्था समुचित प्रतीत नहीं होती, कारण पंचम की श्रुति की जाति करुणा है, एव पंचम स्वर शृङ्गार-हास्य का अभिव्यञ्जक कहा है। इसके अतिरिक्त ऋषभ और धैवत की प्रथम श्रुति की जाति करुणा है, किन्तु ये श्रुतियों संगीत में अनुपयुक्त रहती हैं, कारण कि वे कभी भी स्वर का रूप धारण नहीं करती, यही अवस्था ऋषभ-धैवत की द्वितीय श्रुति 'मध्या', 'आयता' एव गान्धार निषाद की प्रथम श्रुति 'दीप्ता' की है। तात्पर्य श्रुतिजाति के करुणा आदि नाम तथा उन नामों से सन्नद्ध अपना सूचित होनेवाली रसाभिव्यक्ति काव्यनिक ही माननी पड़ेगी। कतिपय श्रुतिपण्डित भरतोक स्वर-रस-व्यवस्था को मूर्च्छना द्वारा प्रचलित हिंदुस्तानी रागों में बलाव निहित करते हैं एव उक्त काव्यनिक आधार पर काफी, भैरवी जैसे शृंगार तथा करुण रसवाले रागों द्वारा शृंगारस्वद रसभावों के निर्माण की अपेक्षा करते हैं।

८. अथाष्टमं स्वर-साधारण-प्रकरणम्

अथ काकल्यन्तरौ स्वरौ :—

पङ्जं स्वरं परित्यज्य श्रुतिरेका यदा व्रजेत् ।

स्वरं निपादं स तदा काकलीत्यभिधीयते ॥ १३६ ॥

मध्यमं च परित्यज्य श्रुतिरेका यदा व्रजेत् ।

गान्धारं स तदा तज्जैरन्तर-स्वर उच्यते ॥ १३७ ॥

[पङ्जं स्वरं परित्यज्य मृदुमन्दाऽभिधा व्रजेत् ।

० ('स्वरं निपादं स तदा काकली-)-त्यभिधीयते ॥ १३८ ॥

तस्यैव हि तु मन्दाया याति-<sup>३</sup>तीव्राऽभिधा यदा ।

ऋषभं; द्विश्रुतिः पङ्जः, स्वर-साधारणं तदा ॥ १३९ ॥

मध्यमं च परित्यज्य मृदुः प्रीत्यभिधा यदा ।

गान्धारमेति; स तदा चान्तरः स्वर उच्यते ॥ १४० ॥]

मध्यमस्य यदा गच्छेद्दीप्ताख्या वज्रिकाऽभिधा ।

पञ्चमं च तदा ज्ञेयं स्वर-साधारणं तथा ॥ १४१ ॥

एवं मध्यम-पङ्जाख्य ग्रामयोर्भयोरपि ।

काकल्यन्तर-योगेन स्वर-साधारणेऽपि च ॥ १४२ ॥

साधारणं तद्विविधं जातिकृतं स्वरकृतं च ।

यत्रोभयोर्जात्योर्ग्रहांशापन्यासादीनामेकेनात्मकेन वा—

ध ... णो (?) यौवजातिरिव जातिरुत्पद्यते ।

तत्र जाति-साधारणमित्युच्यते ॥ १४३ ॥

टी० :—( १३६-१४२ ) श्लो० १३८-१४१ में अतर-काकली का एव ऋषभपञ्चम का वर्णन पृथक् पृथक् दिया है, किन्तु आगे आनेवाले वाक्य क्र० १४४, १४५ देखने से बात होगा, कि उक्त वर्णन ग्राम-साधारण त्रिश्रुतिक गान्धार निपाद का है ।

१. स्प०— श्लो० १३६ और १३७ MS में क्रमाङ्क ६२ तथा ६३ के हैं ।

॥ यही श्लोकप० ६८ पर पुनरुक्त हैं, जो ऊपर १३८ से १४० तक दिये हैं ।

MI १ पञ्चम २ भवेद ३ तितिया ४ पञ्चम ५ एता चैव ६ गच्छेदी ७ गान्धा  
राख्या ८ धध ९ गान्धार १० र ११ वा १२ भी १३ त्या १४ वा  
१५ म १६ यवद्रत्येव

यदा च पङ्कजस्य श्रुतिचतुष्कादेकां श्रुतिं निपाद,  
इतरां चर्षुभ आश्रयति, तदा निपादः काकली-संज्ञो भवति ।  
ऋषभश्च स्वर-साधारणतया साधारण-संज्ञो भवति ॥ १४४ ॥

यदा च मध्यमस्य श्रुतिचतुष्कादेकां श्रुतिं (गान्धार)  
आश्रयति, इतरां च पञ्चमस्तदा गान्धारोऽन्तर-संज्ञो भवति ।  
पञ्चमश्चर्षुभुर्वच्छ्रुति-साधारण इति ॥ १४५ ॥

एवं मध्यमग्रामेऽपि मध्यमस्य श्रुतिचतुष्कादेकैकां  
श्रुतिसाश्रयन्तावेतावेव काकल्यन्तरौ, स्वर-साधारणैश्च भवति  
॥ १४६ ॥

एवं गान्धार-ग्रामेऽपि न चैवैते . . . । एतेषामल्पे  
स्वरे . . . . .त्योऽल्पत्वं (?) नापि पङ्कज-धैवत-मध्यम-गान्धारा  
अल्पौ एव भवन्ति ॥ १४७ ॥

यतः कटुम्लादि-रसादीनां क्षार-सम-भुजोऽपि सन्,  
...ते: (?)....रन्यान्य सप्तमो नास्तीति व्यवहारो .....च  
कुत्रचित् ॥ १४८ ॥

टीका:—( १४४-१५२ ) । भरतमुनि ने साधारण सज्ञावाले दो विकृत

स्वर कहे हैं—अन्तर गान्धार एव काकली निपाद । भरत रगीत के शुद्ध गान्धार-  
निपाद द्विश्रुतिक ( मध्यम भारी कोमठ ) होने हैं, तथा अन्तर काकली चतु-  
श्रुतिक होते हैं । शुद्ध गान्धार मध्यम की दो श्रुतियाँ प्राप्त करने पर अन्तर  
गान्धार बन जाता है, उसी प्रकार पङ्कज की दो श्रुतियाँ लेकर शुद्ध निपाद  
काकली निपाद में परिवर्तित होता है । इस अवस्था में पङ्कज एव मध्यम  
द्विश्रुतिक हो जाते हैं । अन्तर गान्धार का प्रयोग मध्यमग्राम में तथा काकली  
निपाद का प्रयोग पङ्कजग्राम में होता था ।

॥ काकल्य स्वर के अतिरिक्त गान्धार निपाद की अन्य दो विकृतियाँ (‘साधा-  
रण’ या ‘ग्राम साधारण’) रत्नाकर द्वारा वर्णित हैं, जो त्रिश्रुतिक स्वर होते हैं  
तथा इन्हें रत्नाकर द्वारा ‘कैशिक’ सज्ञा दी गयी है । कैशिक गान्धार मध्यम-

M १ पङ्क २ पा ३ प्वा ४ श ५ धैवत ६ रा ७ धैवतश्च ८ पङ्क ९ प्वा

१० त्वण एव ११ र १२ णी १३ इना १४ त्य

।

यथा च घटा...भेदेन घटाकाशो विद्यते ।

वस्तुतस्वन्य एव....एतदिति नैवावभासते ॥ १४९ ॥

॥ १४९ तथा च भरतः,

(प्र०) "साधारणं तद्विविधं द्वैग्रामिक्यं, प्राप्तोपदेश-सिद्धश्च,

निपादः काकली गान्धारश्चान्तरः स्वरः," इति ॥ १५० ॥

दत्तिलाचार्योऽप्याह :—

साधारणे तु विज्ञेये स्वर-जात्युपलक्षिते ।

स्वरमध्ये तयोः पूर्वं तत्काकल्यन्तरौ स्वरौ ॥ १५१ ॥

निपादः काकली-संज्ञो द्विश्रुत्युत्कर्षणाद् भवेत् ।

गान्धारस्तद्भेदेव स्यादन्तर-स्वर-संज्ञितः" ॥ १५२ ॥

यशोभिः शोभन्ते शरदुदयमोः (?) न्मीलदमल-

स्फुरन्मध्वी-दाम-द्युतिभिरभितो यस्य ककुभः ॥

तत्राधारः (?) संग्रामः श्रुतिरपि न सोढा-रिपु-नृपैः ।

अमुं श्रुत्यध्यायं व्यस्तजदिह नान्यो नरपतिः ॥ १५३ ॥

इति महासामन्ताधिपति-धर्मावलोक-श्रीमन्नान्यपति-विरचिते सरस्वती-

हृदयालङ्कार-नाम्नि भरत-भाष्ये श्रुत्यध्यायस्तृतीयः समाप्तः ॥

ग्राम में प्रयोज्य होता है एवं कैशिक निपाद पञ्चमग्राम में प्रयोज्य होता है । म० ग्रामिक शुद्ध गान्धार मध्यम की एक (प्रथम) श्रुति लेता है एवं म० ग्रामिक पंचम मध्यम की एक (अन्तिम) श्रुति ग्रहण करता है; इस अवस्था में म० ग्राम में गान्धार, मध्यम तथा पंचम क्रमशः तीन, दो और चार श्रुति के बन जाते हैं । इसी प्रकार प० ग्राम में निपाद, पञ्च एवं ऋषभ क्रमशः तीन, दो और चार श्रुति से युक्त हो जाते हैं ।

iii त्रिश्रुतिक ग-नि का निर्देश तथा वर्णन सर्वप्रथम नान्यदेव ने किया है । नान्यदेव ने कै० ग-नि को अं० का० के साथ मिश्र किया है, इससे अनुमान होता है, कि 'कैशिक' गान्धारनिपाद नान्यदेव के समय में ही नये नये प्रचार में आये होंगे; फलतः उन स्वरों की श्रुतिव्यवस्था को उस समय के ग्रंथकार निश्चित नहीं कर पाये ।

## चतुर्थी मूर्च्छनाऽध्यायः

१ अथ मूर्च्छना-नाम-निरुक्ति-प्रकरणं प्रथमम्

इदानीं ग्रामभेदेन मूर्च्छनानामवस्थितिः ।

नामाधिदेवतानां च यथावदनुकीर्यते ॥ १ ॥

स्वराणां मूर्च्छना मूर्च्छा-धातुमोहे समुच्छ्रये ।

स्वरेभ्य उतथितो नादः स्वरेष्वेवहि मूर्च्छति ॥ २ ॥

॥ स्वर-मण्डल-संपूर्णा पाडवौडविता तथा ।

साधारणां च विज्ञेया चतुर्धा मूर्च्छना बुधैः ॥ ३ ॥

पङ्कज-मध्यम-गान्धार-ग्रामाणां क्रमशस्त्विमाः ।

सप्त सप्तैव मन्तव्या मूर्च्छना एकविंशतिः ॥ ४ ॥

तत्र पङ्कजग्रामे सप्त मूर्च्छनाः ।

एकविंशतिरौह भरतः ॥ ५ ॥

“आदा °(बु)त्तरमन्द्रा स्याद्रजनी चोत्तरायता ।

चतुर्थी शुद्धपङ्कजा च पञ्चमी मत्सरीकृता ॥ ६ ॥

अश्वक्रान्ता तथा षष्ठी सप्तमी चाभिरुद्धता ।

पङ्कजग्रामाश्रिता ह्येता विज्ञेयाः सप्त मूर्च्छनाः ॥ ७ ॥

॥ इत्यग्नी पङ्कज-निपाद-धैवत-पञ्चम-मध्यम-गान्धारर्षभाः

स्वराः क्रमादिति” ॥ ८ ॥

टीः—(१-३?) १. तीनों ग्रामों की मूर्च्छनाओं की नामनिरुक्ति दी है ।

अश्वक्रान्ता, शुद्धपङ्कजा, उत्तरायता, पौरवी, मार्गा इत्यादि शब्दों की निरुक्ति

। शब्द-सादृश्य के आधार पर दी हुई हैं, अतएव केवल कार्त्तिक है ।

Ad: (४-७) B. २/१२०, ३१;

(८) B. २८-३१; pb. 'आसा...गान्धारर्षभावा. स्वराः' ।

F. (२) M. ९३-९४ (३) B. २८/३३, ii; M. ९४, i; R. ११४/१९

(४-७) D. २१-२३; M. ९६-९८ R. ११४/१०

M: १ मां २-म्य ३-रा ४-ना ५-यां ६-नुष्ठितो ७-रो ८-मं ९-वे

१०-णे ११-आ १२-दे १३-सा १४-ज १५-नी

एता <sup>१</sup> सरिगमपधनिषु क्रमेण सनिरुक्तानामाधिदेवताभ्या दर्शयति, तद्यथा-

पङ्जेतूत्तरमन्द्रा स्यान्मन्द्रश्चात्रोत्तरः स्वरः ।

तस्मादुत्तरमन्द्रेयं, यक्षश्चात्राधिदैवतम् ॥ ९ ॥

अभिरौतीत्यभिरुता तद्गता चाभिरुद्गता ।

मूर्च्छना ऋषभेणेयं, वरुणश्चात्र दैवतम् ॥ १० ॥

अश्ववत्क्रमते यस्मादश्वक्रोश-सम-ध्वनिः ।

अश्वक्रान्तेति गान्धारे ह्यश्विनावत्र दैवतम् ॥ ११ ॥

मध्यमालाप-सरणा सा भवेन्मत्सरीकृता ।

स्वरेण मध्यमेनेयं, स्मृता नागाधिदेवता ॥ १२ ॥

शुद्धश्चात्र भवेत् पङ्जः, शुद्धपङ्जा ततः स्मृता ।

पञ्चमेन स्वरेणेयं, देवताऽस्याः पितामहः ॥ १३ ॥

उत्तरोत्तरतश्चास्यामायतो हि स्वरो यतः ।

तेनेयं मूर्च्छना प्रोक्ता धैवते चोत्तरायता ॥ १४ ॥

स्वरान्स्वरान् रञ्जयति तेनेयं रजनी मता ।

निपाद-स्वर-संभूता राक्षसश्चात्र दैवतम् ॥ १५ ॥

अथ मध्यमग्रामे । °(यथा) आह भरतः,

“सौवीरी हारिणार्श्वा च स्यात्कलोपनता तथा ।

शुद्धमध्या तथा चैव मार्गी स्यात्पौरवी तथा ॥ १६ ॥

हृष्यका चेति विज्ञेया मध्यमग्राम-मूर्च्छना ।”

आसां मध्यम-गान्धारर्षभ-पङ्ज-समुद्भवाम् ॥ १७ ॥

..... ।

ब्रह्माधिदेवता चास्या मध्यम-स्वर-मूर्च्छना ॥ १८ ॥

॥ श्लो० ३५ ३८ में ऋषि आदि की मूर्च्छनाओं के नारदोक्त नाम दिये हैं, जो ना० शि० से उद्धृत किये हुए हैं । इनमें पञ्चम्यामिक मूर्च्छनाओं के

Ad (१६-१७) B २८३२ ३३

F (१६-१७) D २४, २५, M १९ १०० B ११४ ११, १२

MI १ पधनि २ गता ३ वा ४ तद्वि ५ स्वाव ६ ध ७ घयकोत ८ सा ९ यौ १० थका

हृष्यन्त्यप्सरसश्चाद्भ्यो गन्धर्वाश्चैव....यतः ।  
 मूर्च्छना पञ्चमे ज्ञेया हृष्यका चार्कदेवता ॥ १९ ॥  
 अम्भोधर-स्वाकारान्पूर्णा तु - - कुरुते स्वरान् ।  
 पौरवी धैवते मूर्च्छा विधिश्चात्राधिदैवतम् ॥ २० ॥  
 मृगैः संचर्यते यस्मान्मृग्यते च स्वरैरियम् ।  
 मार्गी निपादे विज्ञेया मृगेन्द्रंश्चाधिदैवतम् ॥ २१ ॥  
 मध्यदेशे समुत्पन्ना पङ्के स्याच्छुद्धमध्यमा ।  
 मध्यमोऽत्र स्वरः सिद्धो गन्धर्वश्चात्र दैवतम् ॥ २२ ॥  
 काल-रूप-नता या तु मरुद्भिर्ऋषभे स्वरे ।  
 स्यात्कलोपनता मूर्च्छा मरुच्चात्राधिदैवतम् ॥ २३ ॥  
 हरिदेव-समुत्पन्ना गान्धार-स्वरसम्भवा ।  
 मूर्च्छना हारिणाश्वा स्यादिन्द्रश्चात्राधिदैवतम् ॥ २४ ॥  
 गान्धारग्रामश्च भरतेनालौकिकत्वात्प्रोपदर्शितः ।  
 अस्माभिश्चागमानुसारेण प्रदर्शितः ॥ २५ ॥  
 अतस्तदीयाः सप्त मूर्च्छना ग-म-प-ध-नि-स-रिपु स्वरेषु क्रमेण  
 सनिरुक्तनामाधिदेवताभ्यामुपदर्श्यन्ते ॥ २६ ॥ तद्यथा—  
 आलापस्यातिरौद्रत्वाद्गान्धार-स्वर-मूर्च्छना ।  
 आलापा मूर्च्छना ज्ञेया रुद्रश्चात्राधिदैवतम् ॥ २७ ॥  
 ग्रामेषु त्रिपु सर्वत्र मध्यमो नैव लुप्यते ।  
 मध्यमस्य विशालत्वाद् विद्याद् वै विष्णु-देवता ॥ २८ ॥

नामों के साथ भरतादि द्वारा कथित दोनों ग्रामों की मूर्च्छनाओं के कतिपय नाम समिध्र हैं ।

iii. अनुमान किया जाता है, कि भरत-समय क पूर्व नारदोक्त मूर्च्छना-नाम ही व्यवहृत होते थे ।

गये (?) षड्जश्चलव्यूढा पितामहमुपस्थिता ।  
 षड्जयेयं मूर्च्छना तेन पञ्चमेऽनल-देवता ॥ २९ ॥  
 गान्धार्यास्तूत्तरं यस्मात् . . . षट्ठयेयं मूर्च्छना ततः ।  
 धैवतोत्तर-गान्धारः सवश्चात्राधिदैवतम् ॥ ३० ॥  
 गान्धारयति-शब्देन गान्धारस्येति वा पुनः ।  
 निपादे <sup>१</sup> शुद्धगान्धारी गावश्चात्राधिदैवतम् ॥ ३१ ॥  
 .... . . . . .तेषां नन्दिनी षड्ज-संश्रिता ।

ऋषीणां स्नातकानां च विश्वेदेवाश्च दैवतम् ॥ ३२ ॥  
 सक्तु-तानारतं (?) श्रुत्वा यस्माद्गायन्ति किंनराः ।  
 ऋपमे तिमा(?) तस्मात्पक्षिराजोऽत्र दैवतम् ॥ ३३ ॥  
 नारदेनापि मुनिना प्रोक्ता नामान्तरे तु याः ।  
 मूर्च्छना ग्रामभेदेन तासां नामाभिधीयते ॥ ३४ ॥

तत्र षड्जग्रामे—

षड्जे तूत्तरमन्द्रा स्यादृषभे चाभिरुद्धता ।  
 अश्वक्रान्ता तु गान्धारे तृतीया मूर्च्छना स्मृता ॥ ३५ ॥  
 मध्यमे खलु सौवीरी हृष्यका पञ्चमे स्वरे ।  
 धैवते चापि विज्ञेया मूर्च्छना तूत्तरायता ॥ ३६ ॥  
 निपादे रजनी विद्याद् ऋषीणां सप्त मूर्च्छनाः ।

अथ मध्यमग्रामे—

आप्यायनी विश्वदूता चन्द्रा हेमा कपर्दिनी ।  
 मैत्री चान्द्रमसी चैव पितृणां सप्त मूर्च्छनाः ॥ ३७ ॥

अथ गान्धारग्रामे—

नन्दा विशाला सुमुखी चित्रा चित्रवती सुखा ।  
 आलापा चैव विज्ञेया देवानां सप्त मूर्च्छनाः ॥ ३८ ॥

स्प०—MS में इसके आगे उपरोक्त ३६ और ३७ पुनरुक्त हैं ।

F (१५,३०) B ११८२३,२४ pb 'उत्तरवर्णा', 'विश्वदूता' (३८) B ११४१ २२-२६

M १४ ३६ २ वि



पङ्कज-मध्यम-गान्धारप्रामाणामप्यनुक्रमात् ।  
 मूर्च्छनाः पूर्वकथिता ज्ञेया नामान्तरादिमाः ॥ ३९ ॥  
 यत्र ग्रामे यदा यस्तु पाडवे लुप्यते स्वरः ।  
 तदा तन्मूर्च्छना-हीनं विज्ञेयं पाडवं बुधैः ॥ ४० ॥  
 ज्ञेयं मौडवितेऽप्येवं पञ्च-स्वर-कृते सदा ।  
 लोप्ययोः स्वरयोरेव मूर्च्छा-द्वय-विलोपनम् ॥ ४१ ॥

२ अथ मूर्च्छनाऽतियोग-कथनं प्रकरणं द्वितीयम्  
 साम्प्रतं मूर्च्छनानां च ह्यतियोगो निगद्यते ॥ ४२ ॥  
 एताश्चैव प्रतिभामं सप्त, ता एकविंशतिः ॥ ४३ ॥  
 उत्तरमन्द्रा रजनी ह्यश्वक्रान्ता तथैव च ।  
 स्यान्मैत्सरीकृता शुद्धपर्द्धजा चैवोत्तरायता ॥ ४४ ॥  
 तथाऽभिरुद्धता, सप्त पङ्कजग्रामस्य मूर्च्छनाः ॥ ४५ ॥

तत्र येनैव स्वरेण तूच्छ्रायो गीतानामुद्गाहः प्रवर्तते, तेनैव  
 स्वरेण यदाऽपोहः समाप्तिरपि भवति, तदा 'सरिगमपधनिस'  
 इति स्वर-सन्निवेशे सति ॥ ४६ ॥

टीः— ( ४६-४७ ) i. मूर्च्छना के नियम समझाये हैं, कि उद्गाह तथा  
 समाप्ति एक ही स्वर द्वारा करनी चाहिए । अर्थात् मूर्च्छना का प्रारंभिक स्वर ही  
 मूर्च्छनान्तःपाती होना चाहिए, जिससे प्रत्येक मूर्च्छना 'स-सं', 'नि-नि',  
 'ध-ध' आदि प्रकार से बनेगी । अर्थात् यह मूर्च्छना आठ स्वरों की बनेगी ।

स्प०— ( ४२ ) i. MS. के पत्र ६४-६५ पर मूर्च्छनाविषय के श्लोक आये  
 हैं, जो यहां क्र० ४२ से ६३ तक दिये हैं ।

ii. श्लो० ४२ के आगे 'स्वराणां मूर्च्छना मूर्च्छा-धातुः' इत्यादि उपरोक्त श्लो०  
 क्र० २ MS. में पुनरुक्त है ।

F. ( ४३-४५ ) B. २८ ३-३५ ; D. २१-२५ ; M. १४-१०१ ; R. ११ ८१ ९-१५

M १-रा २ कार्यता ३ यशरीकृता ४-मध्या ५ नव-

एवं निपाद-स्वरेणैवोद्गाह-समाप्तौ कृतायां 'निसरिगमपध-  
नी'ति सन्निवेशे । तथा—'धनिसरिगमपध' इति; 'पधनिस-  
रिगमप' इति; 'मपधनिसरिगम' इति; 'गमपधनिसरिग' इति;  
'रिगमपधनिसरि' इति सन्निवेशे क्रमादेताः षड्जग्रामिकाः  
सप्त मूर्च्छना जायन्ते ॥ ४७ ॥

सौवीरा हारिणाश्चा स्यात्कलोपनता तथा ।

शुद्धमध्या च मार्गी च पौरवी हृष्यका तथा ॥ ४८ ॥

सप्तभिर्मुनिभिः प्रोक्ता मध्यमग्राममूर्च्छनाः ॥ ४९ ॥

यत्राप्युद्गाह-समाप्तौ मध्यम-स्वर-योगान्मपधनिसरिगमेति

ii. मतंग एव रत्नाकर ने मूर्च्छना की जो व्याख्या दी है, उसके अनुसार 'क्रमयुक्त सप्त ( या द्वादश ) स्वरों का आरोहावरोह करने' से मूर्च्छना पैदा होती है । इस प्रकार के आरोहावरोह को रत्नाकर ने मूर्च्छना संज्ञा दी है:—

“क्रमास्वराणा सप्तानामारोहश्चावरोहणम् ।

मूर्च्छनेऽयुच्यते.. ..... ॥ १।४।९ ॥”

किन्तु कल्लिनाथ ने स्पष्ट किया है, कि इस प्रकार के सप्तस्वरों के समुदाय को मूर्च्छना नाम दिया जाता है, न कि आरोहावरोहक्रिया को । कल्लिनाथ का यह स्पष्टीकरण मतंग के वचन पर आधारित होना चाहिये, जो इस प्रकार है:—'स्वराणामेव मूर्च्छनात्वं, न त्वारोहणावरोहणरूपायाः क्रियायाः' । इसके पश्चात् कल्लिनाथ ने मतंगकृत व्याख्या दी है ।

मतंग द्वारा की हुई मूर्च्छना की व्याख्या निम्नलिखित है:—

'आरोहणावरोहण-क्रमेण स्वर-सप्तकम् ।

मूर्च्छना-शब्द-वाच्य हि विज्ञेय तद्विचक्षणेः ॥ ९५ ॥'

iii. नान्यदेव ने मूर्च्छना के उदाहरण दिये हैं, वे क्रमयुक्त आठ स्वरों के आरोह के रूप दिये हैं, जैसा कि:— 'सरिगमपधनिस' इत्यादि । मतंग की दी हुई मूर्च्छनाएँ भी सप्त स्वरों के केवल आरोहरूप ही हैं । इस विषय में मतंग का वचन निम्नलिखित है:—

'एष तावदुभयग्रामिक्यथतुर्दश मूर्च्छनाः सम्पूर्णाः,— 'सरिगमपधनि' ।  
'निसरिगमपध' इत्यादि ( पृ० २३ ) ।

स्वर-सन्निवेशे सत्येवं रागादि (?).... ।

१०० ऋपभात् .... । गान्धारत्वादिभेदेन क्रमादेताः

सप्त मूर्च्छना जायन्ते ॥ ५० ॥

तथाऽऽर्लापा विशाला च पड्जाऽन्या तदनन्तरम् ।

तथैवोत्तरगान्धारी शुद्धगान्धारिका तथा ॥ ५१ ॥

नन्दिनी कु.....ना ।

.....वति गान्धारग्राममूर्च्छनाः ॥ ५२ ॥

अत्राप्युद्वाह-समाप्तिभ्यां गान्धार-स्वर-साधारणतया

'गमपधनिसरिगे'ति स्वर-सन्निवेशे सत्येवमृपभादि पड्ज (?)

ऋपभान्तत्वादि-भेदेन क्रमेणैताः सप्त मूर्च्छना जायन्ते ॥ ५३ ॥

न त्वभिन्न एवेशे (?) स्तद्गतौ मूर्च्छनाः सप्तभ्यः पृथगुपदि-  
श्यन्ते । नव-संज्ञान्तरकरण एव नियमादृष्ट-शक्तिरित्युच्यते

॥ ५४ ॥ नीचोच्चत्वादि-जनितो भेदो ग्रामेषु च स्फुटः ।

स्वरानुपूर्वी साम्येऽपि तत्तन्मूर्च्छनानर्थत्वम् त्रैगामिकीणामेतासां  
मूर्च्छनानां च जायते ॥ ५५ ॥

अनाशी मध्यम-° [स्त्रिपु] ग्राम-सप्तकेष्ववस्थितः ॥ ५६ ॥

यथाऽऽह भरतः

'सर्वं स्वराणां मुखरो ह्यनाशित्वादयं स्मृतः ।

गान्धर्व-कल्पे विहितः सामगैरपि मध्यमः' ॥ ५७ ॥

दत्तिलोऽप्याह-

"पञ्चमं मध्यमग्रामे पड्जग्रामे च धैवतम् ।

अनाशिनं विजानीयात् सर्वदैव तु मध्यमम्" ॥ ५८ ॥

यतेन स्वरालापपक्षे प्रवाह-प्रतिहत एव तत्तत्स्वर-

मूर्च्छनाऽन्यव्यपदेशः ॥ ५९ ॥

चतुर्धा मूर्च्छनाश्चैताः सम्पूर्णाः षट्स्वरास्तथा ।

.....पद्ज (?) साधारणात्मिकाः ॥ ६० ॥

तथा लुप्तस्वराः प्रोक्ता एक-द्वि-स्वर-लोपतः ।

पाडवा औडवाः साधारणात्साधारणाभिधाः<sup>१</sup> ॥ ६१ ॥

टी०:—( ६०-६१ ) i. मूर्च्छना के चार प्रकार प्रत्येक ग्राम में बताये हैं, वे प० ग्राम एवं म० ग्राम में ही समझना चाहिए; कारण, गान्धारग्राम में ग्रामांश स्वर षट्श्रुतिक गान्धार होने से उसमें अन्तर-काकलि-युक्त मूर्च्छना ठीक तरह से बन नहीं सकेगी ।

ii. मूर्च्छना के चार प्रकार १: सम्पूर्णा; २: पाडवा; ३: औडवा; तथा ४: काकलयन्तरयुक्ता इस प्रकार नान्यदेव ने कहे हैं । भरत, दत्तिल एवं मतंग ने यही चार प्रकार कहे हैं:—

( A ) 'एवमेताः प्रक्रम-युक्ताः पूर्णाः पाडवौडविती-

कृताः साधारण-कृताश्चेति चतुर्विधाश्चतुर्दश मूर्च्छनाः ।

क्रमयुक्ताः स्वराः सप्त मूर्च्छनास्त्वभिसङ्गिताः ।

षट्-पञ्चक-स्वरास्तासां पाडवौडविताः स्मृताः ॥३४॥

साधारण-कृताश्चैव काकली-समलङ्कृताः ।

अन्तर-स्वर-सयुक्ता मूर्च्छना ग्रामयोर्द्वयोः ॥२८।३५॥'

— म० ना०

( B ) 'सर्वास्ता पञ्च-षट्-पूर्ण-साधारण-कृताः स्मृताः ।'

— द० २५

( C ) 'तत्र सप्तस्वर-मूर्च्छना चतुर्विधा—पूर्णा, पाडवा, औडविता, साधारणा चेति । तत्र सप्तभिः स्वरैर्या गीयते सा पूर्णा । पद्भिः स्वरैर्या गीयते सा पाडवा । पञ्चभिः स्वरैर्या गीयते सा औडविता । काकल्यैरन्तर-स्वरैर्या गीयते सा साधारणा' —चृ० दे० ( पृ० २२ )

iii. मूर्च्छना-प्रकारों के विषय में रत्नाकर ने मतभिन्नता प्रकट की है । उसने शुद्धा, अन्तर-सहिता, काकली-सहिता एवं अन्तर-काकली-युक्ता इस प्रकार चतुर्विधा मूर्च्छना बतायी है, और पाडव-औडव मूर्च्छनाप्रकार तानों में अन्तर्भूत किये हैं ( सं० २० १।४।९ ) । रत्नाकर द्वारा किया गया यह वर्गीकरण सुव्यस्थित अत्यन्त है, किन्तु भरतादि से भिन्न है ।

स-रि-ग-प-ध-नि-हीनाः पाडवा (मूर्च्छनाः) स्युः ।

पाडव-स्वर-जनित एको मध्यमो नैव लोप्यः ॥

स्वर-युगुल-विहीना औडवास्तु स्वरज्ञै- ।

रिहहि मुनिभिरुक्ताः पञ्चधा मूर्च्छनास्तु ॥ ६२ ॥

स-प-हीनं रि-प-हीनं, ग-नि-हीनं,..... ।

रि-ध-हीनं, ग-नि-हीनं,..... ॥ ६३ ॥

iv. रत्नाकरोक्त वर्गीकरण के आधार पर आजकल कुछ ऐसे ही निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, कि (१) 'एवमेताः प्रक्रम-युक्ताः' इत्यादि भरत-वचन प्रक्षिप्त है; तथा (२) 'क्रमयुक्ताः स्वराः सप्त मूर्च्छनास्त्वभिसंज्ञिताः ।' इत्यादि (३४ एवं ३५) श्लोकों का अर्थ येनकेन प्रकारेण करते हैं, कि:—

'क्रमयुक्त सात स्वर मूर्च्छना कहलाते हैं । उन मूर्च्छनाओं के पठस्वर पाडव और पंचस्वर औडवित की उत्पत्ति होती है । साधारणकृत, काकलीयुक्त एवं अन्तर-संयुक्त मूर्च्छनाएँ भी दोनों प्रामों में होती हैं । यहां पाडवित औडवित यह मूर्च्छनाओं से उत्पन्न होनेवाले रूप हैं, जिनका नाम 'तान' है, ये मूर्च्छनाओं के भेद नहीं ।'

इन तर्कों का निराकरण इस प्रकार है:—

(अ) 'क्रमयुक्ताः स्वराः सप्त०' इत्यादि श्लोकों से मूर्च्छनाप्रकारों का वर्णन किया गया है तथा ये श्लोक 'एवमेताः प्रक्रम-युक्ताः पूर्णा०' इत्यादि वाक्य के पश्चात् स्पष्टीकरणार्थ आये हैं, अतः मानना पडता है, कि 'क्रमयुक्ताः स्वराः सप्त०' इत्यादि वाक्य प्रक्षिप्त नहीं है ।

स्प०— i. श्लो० ६३ के पश्चात् MS. में 'साधारण तद् द्विविधं; जाति-कृतं, स्वर-कृत...' इत्यादि 'साधारण' का विषय वर्णित है, तत्पश्चात् 'वादी' 'संवादी' आदि खरो की चर्चा आयी है । 'साधारण' का विषय तृतीयाध्याय में उद्धृत किया है ।

ii. निम्नोद्धृत श्लोक MS. के प० १३ ऊपर आये हैं ।

..... स-रि-हीनमथारम् ।

सध-हीनं, सरि-हीनं, रिग-हीनं परि-च्युतम् ॥

रिध-हीनं, गिरि-हीनं पय-हीनं पध-च्युतम् ।

गति-हीनं, पध-हीनं... धनि-च्युतम् ॥

। तानानामधुना सम्यग् व्युत्पत्तिः सिद्धिरेव च ।

पाडवौडव-पूर्णानां संयोगश्चैव कथ्यते ॥ ६४ ॥

पद्जर्षभ-गान्धार-मध्यम-पञ्चम-धैवत-निपादाः ।

। परस्परेण तन्यन्त इति तान-संज्ञां लभन्ते ॥ ६५ ॥

(३) 'क्रमयुक्ताः सराः सप्त' इत्यादि दो श्लोको से भरतमुनि ने मूर्च्छनाओं के चार प्रकारों का ही वर्णन किया है, कारण इन श्लोकों की अन्तिम पंक्ति में 'मूर्च्छना' शब्द स्पष्ट है:—

'अन्तर-स्वर-संयुक्ता मूर्च्छना ग्रामयोर्द्वयोः ॥ ३२ ॥'

(उ) उपर्युक्त निष्कर्ष (२) में भरतवचन का निकाला हुआ अर्थ— 'साधारणकृत, काकलीयुक्त एवं अन्तर-संयुक्त मूर्च्छनाएँ भी दोनों ग्रामों में होती हैं' भ्रामक है। कारण, उपरोक्त (A) में 'एवमेताः प्रक्रम-युक्ताः पूर्णाः' इत्यादि भरतवचन दिया है, उसमें चतुर्थ भेद 'साधारणकृता' इस प्रकार संक्षिप्तरूप से कहा गया है, उसी का स्पष्टीकरण बाद में श्लोक ३४, ३५ में भरतमुनि ने 'साधारण-कृताश्चैव काकली-समलङ्कृताः । अन्तर-स्वर-संयुक्ता मूर्च्छना.....।' इन शब्दों से किया है। तात्पर्य, इन श्लोकों द्वारा भरतमुनि ने १: 'साधारणकृत', २: अन्तरयुक्त एवं ३: काकली-युक्त ऐसे तीन मूर्च्छनाप्रकार नहीं बताये हैं; अपितु, 'साधारण-कृत' के दो भेद—१: अन्तर-युक्त तथा २: काकली-युक्त स्पष्ट किये हैं। 'साधारणकृत' के उक्त दो भेद बताने का कारण यह है, कि 'साधारणकृत' मूर्च्छना दोनों ग्रामों को न्याप्त करनेवाली है, परन्तु पद्ज-ग्रामिक 'साधारण-कृत' मूर्च्छना काकलीयुक्त होगी, तो मध्यम-ग्रामिक 'साधारणकृत' मूर्च्छना अन्तर-युक्त होगी। 'साधारण-कृताश्चैव' इत्यादि श्लोक से भरतमुनि ने 'साधारण-युक्त' मूर्च्छनाओं का ग्राम-विशिष्ट वियोजन करके बताया है; कारण कि भरतसंगीत में काकली निपाद केवल पद्जग्राम में प्रयोज्य होता था, उसी प्रकार अन्तर-गान्धार एकमात्र मध्यमग्राम में प्रयोज्य स्तर था। अतः आजकल के इन निष्कर्षों के अनुसार 'साधारण-कृत, अर्थात् काकली-युक्त एवं अन्तर-संयुक्त मूर्च्छनाएँ भी दोनों ग्रामों में होती हैं' ऐसा तर्क किया गया है, वह भरत-मन्तव्य के विपरीत है, अतएव भ्रामक है।

V. भरतादिओं के लिखने से स्पष्ट होता है, कि पाडव-ओडव मूर्च्छनाओं का ही दूसरा नाम 'तान' था। निम्नोद्धृत ग्रंथवचन इसके प्रमाण हैं:—

तनु विस्तार इत्यस्माद् धातोः कर्मणि तत्र तान-सिद्धिः ॥ ६६ ॥  
 ते च स्वराः पाडवौडव-पूर्णाः प्रस्तार-क्रमेण  
 कायामेव (?) चत्वारिंशदधिक-पञ्च-सहस्राणि भवन्ति  
 ॥ ६७ ॥ एकादि-क्रमेण सप्तान्तान् विनिवेश्य पूर्वं परेण  
 गुणयेत् । यथा एक-स्वरस्याधिकृतत्वादेकैव संख्या ॥ ६८ ॥

( १ ) 'तत्र मूर्च्छना-संश्रितास्तानाश्चतुरशीतिः ।'

( २ ) 'प्रयोक्तुः श्रोतुः सुखार्थं तान-मूर्च्छना-तत्त्वम् ।  
 मूर्च्छना-प्रयोजनमपि स्नान-प्राप्त्यर्थः ।'

— म० ना० २८।२६

[ ३ ] 'पञ्च-स्वराः षट्-स्वराश्च मूर्च्छना याः प्रकीर्तिताः ।  
 तानाश्चतुरशीतिस्तु ता एवातैरुदाहृताः-॥'

— द० ३०

( ४ ) 'इदानीं सम्प्रवक्ष्यामि पाडवौडव-मूर्च्छनाः ।' इत्यादि  
 — वृ० दे० पृ० २४

( ५ ) 'तानाः स्युर्मूर्च्छनाः शुद्धाः पाडवौडवित्तीकृताः ॥'  
 — सं० १० १।४।२७।।

( ६ ) 'प्रसङ्गात्कमानुवावा मूर्च्छनैक-देश-रूपत्वेन  
 मूर्च्छनाऽनन्तरमुद्दिष्टांशुद्ध-तानाँल्लक्षयति ।' (—क०)

मूर्च्छना और तान में वस्तुतः कोई अन्तर नहीं, इस प्रकार का नारद-भरत-  
 पूर्व ग्रन्थकार विशाखिल का मत मतंग ने उद्धृत किया है:—

'तनु मूर्च्छना-तानयोः को भेदः ? उच्यते मूर्च्छना-  
 तानयोर्नार्थान्तरत्वमिति विशाखिलः ।'

( ७ ) आगे चलकर मतंग ने विशाखिल के मत का खण्डन किया है, कि  
 मूर्च्छना आरोह-क्रम-युक्त होती है, तो तान अवरोह-क्रम से होती है, यही दोनों  
 का भेद है । 'एतस्मात्सङ्गतम् । संप्रहस्रोके तु मूर्च्छना-तानयोर्भेदस्य प्रतिपादित-  
 त्वात् । तत् कथम् ? । मूर्च्छनाऽऽरोह-क्रमेण तानोऽवरोह-क्रमेण भवतीति भेदः ।'  
 ( पृ० २६ ) । इस विषय में पहले ही स्पष्ट किया है, कि मतंग तथा नान्यदेव  
 द्वारा दिये गये मूर्च्छनाओं के उदाहरण केवल आरोह-युक्त ही हैं ।

मूर्च्छना तथा तानें प्रथमतः सामगायन में प्रयुक्त होती थीं और सामसतक  
 अवरोही या । यही कारण होगा, कि मूर्च्छना-तानें निम्न-निम्नस्व स्वरों से आरम्भ  
 होती थी ।

द्वयोः संयोगाद्भावेव । त्रयाणां षड् भेदाः । चतुर्णां  
 चतुर्विंशतिः । पञ्चानां विंशत्यधिकं शतम् ॥ ६९ ॥  
 षण्णां विंशत्यधिक-सप्त-शतानि । सप्तानां चत्वारिंशद्-  
 धिक-पञ्च-सहस्राणि । अत्र स्वर-संख्यया समुच्चार्य  
 त्रयस्त्रिंशद्दधिक-पञ्च-सहस्राणि ताना इति ॥ ७० ॥  
 ब्रूमोऽऽधुना तान-संख्या ग्रामेषु त्रिष्वनुक्रमात् ।  
 प्रस्तारं योगं च तथा नाम तानस्य यस्य तत् ॥ ७१ ॥  
 षड्जमृषभ-गान्धार-मध्य-पञ्चम-धैवतान् ।  
 निपादं च क्रमादेवं षड्जग्रामे न्यसेत्स्वरान् ॥ ७२ ॥  
 स्वरा मपधनीत्येवं सरिगैः सह विन्यसेत् ।  
 मध्यमग्राममासाद्य कथितोऽयं स्वर-क्रमः ॥ ७३ ॥  
 ग-म-प-ध-नि-स-रीति ग्रामो गान्धार उच्यते ।  
 अत्राप्यनुक्रमेणैवं स्वरान्सप्त निवेशयेत् ॥ ७४ ॥  
 त्रयस्त्रिंशत्परा पञ्च-साहस्री पूर्ण-संख्यया ।  
 विज्ञेया ग्राम एकस्मिन् तानानां तान-वेदिभिः ॥ ७५ ॥  
 सविंशतिः सप्तशती प्रत्येकमपि पाडवे ।  
 प्रत्येकमौडवे विंशत्यधिकं शतमिष्यते ॥ ७६ ॥  
 केचिदेवावकृष्टासु ध्रुवासु चोपयोगतः ।  
 चतुःस्वर-प्रयोगस्तु मुनिना चोपदर्शितः ॥ ७७ ॥  
 क्रियां...स्तस्य हेतुत्वाद् विंशतिश्च तथा पुनः ।  
 अधिका सप्तनवत्या ज्ञेया तान-प्रयोक्तृभिः ॥ ७८ ॥  
 एवं ग्रामे मध्यमाख्ये त्रिभिरेव च पाडवैः ।  
 ओडव-द्वितयेनापि तथा चतुःस्वरेण च ॥ ७९ ॥  
 पूर्णेन च भवेत्सप्तसाहस्री तान-भेदतः ।  
 चतुःशती तथा सप्तपञ्चाशद्दधिका पुनः ॥ ८० ॥



गान्धारेऽपि तथा ग्रामे एकादशभिर्बौडवैः ।

पाडवेनापि चैकेन तथा चतुःस्वरेण च ॥ ८१ ॥

पूर्णेन च भवेत्तानं संख्यया सह कथ्यते ॥ ८२ ॥

तानानां सप्तनवति सहस्राण्यथ सप्त च ।

गान्धारग्राममासाद्य संख्येयं समुदाहृता ॥ ८३ ॥

ग्रामत्रयेऽपि चैवं स्यात्संख्याऽत्र समुदायतः ॥ ८४ ॥

एकपञ्चाशदधिका भवेदष्टशती तथा ।

द्वाविंशतिः सहस्राणि तानाः स्युः पुनरुक्तितः ॥ ८५ ॥

अत्र च पुनरुक्त-निरन्तरैकान्तर-विवादिता ।.....

....म-परित्यागात् ॥ ८६ ॥ नारदेन स्तोत्र-यज्ञोपयोगितया

ग्राम-त्रय एकोनपञ्चाशदेव पाडवौडवयोः कथितास्तानाः

॥ ८७ ॥ यदाह—

“विंशतिर्मध्यमग्रामे पड्जग्रामे चतुर्दश ।

तानाः पञ्चदश प्रोक्ता गान्धारग्राममाश्रिताः ॥”

इति । भरताचार्यस्तु स्वशास्त्रे प्रयोगाद्गतता-गीतोपयोगिनः

पड्ज-मध्यम-ग्रामयोरनुलोम-पाडवौडवाभ्यां चतुरशीतिमथ

तानानुक्तवान् ॥ ८८ ॥ अस्माभिश्च कश्यप-मतंग-तुम्बरु-विशा-

खिलाद्याचार्य-निखिल-मुनि-वचनाद् ग्राम-त्रयेऽप्यनुलोम-

विपर्ययात् ॥ ८९ ॥

स्प०—( ८७-८९ ) वाक्य ८७-८९ MS. प० १५ ऊपर पुनरुक्त हैं, उनका पाठ शुद्ध होने से वे यहाँ उद्धृत किये हैं । वाक्य ८६ के पश्चात् क्रमशः आये हुए वचन [ प० १४ ऊपर ] निम्नानुसार हैं :—

नारदेन यज्ञज्ञानं स्तवपानयकतया कृप्या मत् एकोनपञ्चाशदेव तानाः

प्रदर्शिताः ॥ ८७ ॥ . प्रयोगाद्गतता पुनरुक्ते पञ्चविंशतिभिः सह ग्रामद्वये...

रेवोक्ताः ॥ ८८ ॥ अस्माभिस्तु विशाखिलाद्याचार्य-प्रोक्तैकं प्रामिक पञ्चसहस्र

तानस्य रागोत्पत्ति-हेतुतयाऽन्यंभवं ग्रामत्रयेऽप्युपदर्शितस्तानभेदः ॥ ८९ ॥

न तु ग्राम-त्रये सम्पूर्णा-पञ्चसहस्र-ताना वृद्धा इ  
नवनवत्यधिक-पञ्च-सहस्र-तानेषु षड्जग्रामतानानामेव पु  
रुक्तत्वम् ॥ ९० ॥ मध्यम-गान्धार-ग्राम-तानानां ततः कि  
तामेव पुनरुक्तत्वम् ? पुनरुक्तास्तु वहवस्तत्र तेषामुपादानमि  
प्रयोजनम् ॥ ९१ ॥

अत्रोच्यते— ग्राम-भेद एव श्रुति-भेद-निबन्धनः ।  
यदाहुः—“यदाऽन्योन्य-विपर्यस्त-श्रुती पञ्चमधैवतौ । तदा तं  
मध्यमग्रामं प्रवदन्ति मनीषिणः ।” इति ॥ ९२ ॥

अतः श्रुतेः प्राधान्यात् तन्निबन्धनो भेदः । सर्वत्र  
संप्रयुक्त एक-रूपतः पुनरुक्तत्वेऽपि ग्राम-भेदा....न श्रुतनु-  
सारेण तान-भेदस्य स्पष्टतरत्वादितस्मिन् रागोत्पत्ति-हेतुत्वमेव  
न स्यात् ॥ ९३ ॥

ननु माभूदेवं पुनरुक्तानां रागोत्पादकत्वम् । ननु  
पाडवौडव-चतुःस्वराणां पञ्चसहस्राणीति वचनात् ॥ ९४ ॥

अतोऽनर्थकं पाडवौडव-चतुःस्वर-संख्या-कथनम् ।  
अत्रोच्यते— पञ्चसहस्राणीति । ....पूर्ण-स्वराभिप्रायेण पुनर-  
न्यस्य व्यवच्छेदात् । चतुःस्वर-योग-प्रयोगस्यापि दर्शितत्वात् ॥  
यदाह भरतः—“पद-स्वरस्य प्रयोगोऽस्ती”ति । ‘जातिभ्यो  
राग-सम्भव’ इति मुनि-वचनाज्जातीनां दश-लक्षणत्वेन  
पाडवौडव-कृतत्वाद्वापि सुव्यक्तम् ॥ ९५ ॥ पाडवौडवयो  
रागोत्पादकत्वं अतो...सादिभिर्लक्षणैः, चिन्दु-कुहरादिभिरल-  
ङ्कारैस्तिरिपादिभिर्गमकैः । दीप्तादिभिरनुरञ्जिकाभिर्मूर्च्छना-  
भिश्च व्यक्तिभिः ॥ ९६ ॥ सम्पूर्णस्वर-ताना ग्राम-राग-मूल-रागाः,

पदस्वर-ताना भाषा-विभाषाः । पञ्चस्वर-ताना अन्तरभाषा-  
श्चतुःस्वर-तानाः क्रियाङ्ग-रागानुत्पादयन्ति, इति स्थितम् ॥ ९७ ॥

यद्यपि च प्रतिग्रामं पाडवं सम-वर्जितं (?)....  
पाडवाः । पञ्चदशैवौडवाः । प्राप्तास्तथा ह्याप्तोपदेश-सिद्ध-  
त्वादिति ॥ ९८ ॥

मुनि-वचनाद् यथोक्त-पाडवौडव-व्याप्तिभी रोचति  
तदभियुक्तैरुद्दनीयम् ॥ ९९ ॥

अथ प्रस्तारः—

सरिगमपधनीति पङ्कजग्रामे विनिवेशयेत् स्वरानु-  
क्रमशः । जानीयात्त्रैतेषां क्रमादितोऽष्टतां (?) कनिष्ठ-  
त्वम् ॥ १०० ॥

एवं षष्ठाविक्रम-(?) - मादायारोपयेत् स तान्  
यथासंख्यम् । अपि मध्यम-गान्धार-ग्राम-द्वितये च सर्वदा  
विद्वान् ॥ १०१ ॥

आदि-स्वरस्य संख्या विंशत्यधिकेह भवति सप्तशती ।  
कथिता स्वर-संख्या विंशत्यधिक-शतं द्वितीयस्य ॥ १०२ ॥

ख्यातश्चात्र चतुर्विंशति-संख्याकः स्वरस्तृतीयोऽपि ।  
पद-संख्या-गुणित...स्वरश्चतुर्थे स्थितस्तथा स्थाने ॥ १०३ ॥

स्थाने च पञ्चमे यः स्थितः स्वरोऽसौ.... ।  
अथ षष्ठ-सप्तमौ च स्वरौ यथा-क्रम-विपर्ययौ ज्ञेयौ ॥  
एवं प्रस्तार-विधौ स्वर-विनिवेशं विजानीयात् ॥ १०४ ॥

४ अथ नारदोक्त-तानवर्णन-प्रकरणं चतुर्थम्  
अथ तानानाम्—

....तेषु यज्ञेषु तानेन स्तोत्रं प्रवर्तते ।

तथा तानस्य प्रशम-कर्म-नामा च ये क्वचित् ॥ १०५ ॥

स्तोत्र-कर्तृ-प्रिय-नामा केषां .... ।

सादृश्यात्कस्यचिन्नाम, निरुक्तं तेन नोदितम् ॥ १०६ ॥

पाडवौडव-चतुःस्वराणां तानानां यथासंभवं भेदोऽभि-  
हित एव सम्प्रति ग्राम-त्रयेऽपि नारदोक्तैकोनपञ्चाशतां  
नामानि प्रदर्शयिष्यामः ॥ १०७ ॥

नामानि च षड्ज-मध्यम-ग्रामयोरनुलोमे पाडवौड-  
वाभ्यां भरताभिहित-चतुरशीति-तानेभ्यो निरन्तरैकान्तर-  
विवाद-पुनरुक्त-त्यागात् चतुर्विंशतिः ॥ १०८ ॥

गान्धार-ग्रामेऽप्यनुलोम-पाडवौडवाभ्यां पञ्चत्रिंशत्ता-  
नेभ्यः पञ्चदशानामेव; तद्यथा—

प्रस्तारकोऽथ पैशाचो जीवः सावित्र एव च ।

अर्धसावित्र-नामा च सर्वतोभद्र एव च ॥ १०९ ॥

स्वर्णो विष्णुश्च जिष्णुश्च तथा विष्णुकरः स्मृतः ।

शारदश्चाथ त्रिजयो हंसो ज्येष्ठस्तथैव च ॥

षड्जग्रामे भवन्त्येवमेते तानाश्चतुर्दश ॥ ११० ॥

एकपादंश्च वायुश्च दानोऽग्निष्टोमिकस्तथा ।

वाजपेयिक-नामा च पौण्डरीकाश्वमेधिकौ ॥ १११ ॥

राजसूयक-नामा च बहुसौवर्णिकस्तथा ।

तथा चौपाधिकः प्रोक्तो महाव्रतिक एव च ॥ ११२ ॥

स्प०— [ १०६ ] श्लोक १०६ के पश्चात् MS. में “तत्र नारदेन  
स्तोत्रयज्ञोपियोगितया०” इत्यादि वचन आये हैं, जो प्रथम क्र० ८७ से ८९  
तक ऊपर उद्धृत किये हैं ।

ब्रह्मचारिकनामा च प्राजापत्यभिधस्तथा ।

गौदानिको ह्यक्रान्तः स्यादजक्रान्त एव च ॥ ११३ ॥

विष्णुक्रान्तोऽरण्यपत्रः कोकिलो जीवकस्तथा ।

ताना विंशतिरित्येते मध्यमग्राम-सम्भवाः ॥ ११४ ॥

तुष्टुर्हप्रिय-नामा च महालक्षण एव च ।

गन्धर्वानुमतश्चैव तथैवालम्बुपप्रियः ॥ ११५ ॥

नारदप्रिय-संज्ञोऽथ भीमसेनप्रियस्तथा ।

विनतश्चैव मातंगो भार्गवप्रिय एव च ॥ ११६ ॥

अभ्रागमोद्यसंस्तुत्यः किंनरप्रिय-पुष्पकौ ।

मनोहरोऽथ विज्ञेयः कल्याणकर एव च ।

तानाः पञ्चदशैवैते गान्धारग्राम-संश्रिताः ॥ ११७ ॥

तत्र पड्जग्रामे पाडव-चतुष्टयमौडव-त्रयं च ।

यथाऽऽह भरतः,

“पड्जर्पुभ-पञ्चम-निपादवद्दीनाश्चत्वारः पाडवास्तानाः

पड्ज-ग्रामे ॥ ११८ ॥”

पड्ज-पञ्चम-हीनम् । ऋपभ-पञ्चम-हीनम् । गान्धार-

निपादवद्दीनमित्यौडवत्रयमिति ॥ ११९ ॥

मध्यमग्रामे तु पाडवत्रयमौडव-वर्ज्यं च । यथाऽऽह-

“पड्जर्पुभ-गान्धार-हीनार्धयः पाडवास्तथा गान्धार-निपाद-

वद्दीनमृपभ-धैवत-हीन-मित्यौडव-द्वयमिति ॥ १२० ॥

अत्र नारदोक्त-मध्यमग्रामिकोक्त-विंशति-ताना निद-

र्श्यन्ते । तथा हि- पड्जहीने निरन्तरैकान्तर-विवादि-पुन-

रुक्त-योगास्त्रयस्ताना यथा- ‘निरिगमधे’त्येकपादः । ‘रिगम-

पधनी’ति बाँयुः । ‘गमपधनिरी’ति हि दानः ॥ १२१ ॥

Ad ( १२० ) B. २८११६ pb

MI: १ जे- २ का- ३-ध- ४-र ५-र: ६-णः ७ क्रमस ८ त्रय  
९ वा पुनः १० वातः

ऋषभ-हीने- ऋषभा.....देवाविरोधे चतुष्टयं नास्तीति पुनरुक्तैक-योगात्; तानपट्टकमेव ॥ यथा-‘मपधनिस २ गे’त्यग्निष्टोमिकः । ‘पधनिसगमे’ति वाजपेयिकः । ‘धनिसगमपे’ति पौण्डरीकः । ‘निसगमपधे’ति चाश्वमेधिकः । ‘सगमपधनी’ति राजसूयः । ‘गमपधनिसे’ति बहुसौवर्णिकः ॥ १२२ ॥

गान्धार-हीने स्वरेऽपि यथा ‘मपधनिसरी’त्यौपाधिकः । ‘पधनिसरिम’ इति महाव्रतिकः । ‘धनिसरिमप’ इति ब्रह्मचारिकः । ‘निसरिमपध’ इति प्राजापत्यः । ‘सरिमपधनि’ इति गौदानिकः । ‘रिमपधनिस’ इति हयक्रान्तः । एवं षाडवे पञ्चदश ॥ १२३ ॥

निपाद-गान्धार-हीनमौडवितं षड्जग्रामे भविष्यतीति पुनरुक्तत्वान्न कथितम् ॥ १२४ ॥

ऋषभ-धैवत-हीने तु पुनरुक्त-द्वय-योगात् पञ्च ताना यथा-‘सगमप २ नि’ इति विष्णुः । ‘गमप २ निस’ इति.... । ‘मप २ निसग’ इति.... । ‘पनिसगम’ इति शारदः । ‘निसगमप’ इति विजयः । त इमे विंशतिर्मध्यमतानाः ॥ १२५ ॥

अथ षड्जग्रामे । तत्र षड्जर्षभ-हीनं द्वयं मध्यमग्राम एवोक्तमतो नेह कथितम् । पञ्चम-हीने.....चैका पुनर्विवादि-पुनरुक्तयोगो.....मेव ॥ १२६ ॥

यथा-‘गम १ धनिसरि’ इति प्रस्तारः । ‘निसरिगम १३ ध’ इति पैशाचः ॥ १२७ ॥

गान्धार-निपादवद्धीनौडवे तु पुनरुक्त-परित्यागात् पञ्च  
तानाः । यथा—‘सरिमपध’ इति जीवकैः । ‘रिमपधसै’  
इति सावित्रः । ‘मपधसरि’ इत्यर्धसावित्रः । ‘पधसरिम’  
इति सर्वतोभद्रः । ‘धसरिमप’ इति सौवर्णः ॥ १२८ ॥

ननु पङ्जर्पम-हीन-पाडवयोर्मध्यमग्रामेण पुनरुक्त-  
त्वात्कुत्र तानोपादानम्? म-हीन-पाडवान्तर-घ्रात-नि-हीन-  
पाडव-कथने तु को हेतुः? उच्यते—खलु सम्भवादत्र तानो-  
पादानम् । तथा सति गान्धारग्रामेऽप्येकादशौडव-कथन-  
प्रसङ्गः । किन्तूनपञ्चाशद्द्वे येषां नामानि त इमे समुदीरिता  
इति न दोषः ॥ १२९ ॥

अथवा यथोक्तं नारदीय-शिक्षा-विवरण-टीका-कृतानि  
नि-ग-हीनौडव-कृत-पञ्चानां नामानि नि-हीन-पाडव-कृत पञ्च-  
तानानामतो न पृथगभिधानमिति न दोषः ॥ १३० ॥

ऋपर्भै-धैवत-हीनौडवितानां न पृथगभिधानमिति न  
दोषोऽस्ति; पुनरुक्त-परित्यागात् ॥ १३१ ॥

पञ्च ताना यथा—‘मपनिसग’ इत्यजक्रान्तः । ‘पनि-  
सगम’ इति विष्णुक्रान्तः । ‘निसगमप’ इति रैक्तपत्रः । ‘सग-  
मपनि’ इति कोकिलः । ‘गर्मपनिस’ इति जीवकः ॥ १३२ ॥

पङ्ज-पञ्चम-हीने तु निरन्तरैर्कान्तर-विवादि-पुनरुक्त-  
त्यागात्तानद्वयमेव । यथा—‘गमधनिरि’ इति हंसैः । ‘निरि-

M: १ तरमा २-नः ३-स्य ४-यं- ५-ए-वय- ७-साप्रानु- ८-दशक-९-उं  
१०-लि ११-म्यतो १२-भं १३-पम १४-छोनि १५-पा-पि १६-घोरयमितः  
१७-मी १८-ग १९-काजुति २०-मा २१-प २२-याः

गमध' इति .... । त एते षाड्वौडवाभ्यां चतुर्दश तानाः षड्ज-  
ग्रामे ॥ १३३ ॥

अथ गान्धारग्रामे—धैवत-हीने तु पुनरुक्तैक-योगात्  
षट् तानाः । यथा—'गमप॒ निसरि' इति तुष्टुरप्रियः । 'मप-  
निसरिग' इति महालक्षणः । 'प॒निसरिगम' इति गन्धर्वानुमतः ।  
'निसरिगमप' इत्यलम्बुपप्रियः । 'सरिगमप॒नि' इति भीमसेन-  
प्रियः । 'रिगमप॒नि' इति नारदप्रियः ॥ १३४ ॥

षड्जर्षभ-हीने तु क्रमो दत्तोऽयं ग्राम इति नीच-स्वरः  
(?) । धैवत-तान-परित्यागात्तान-चतुष्टयमेव । यथा—'गमप-  
धनि' इति विनतः । 'मपधनिग' इति मातंगः । 'पधनिगम'  
इति भार्गवप्रियः । 'निगमपधु' इत्य॑भ्रागमः ॥ १३५ ॥

षड्ज-धैवत-हीनौडवेऽपि पञ्चैव । यथा—'गमप॒निरि'  
इति संस्रुत्यः । 'मपनिरिग' इति किन्नरप्रियः । 'पनिरिगम'  
इति पुष्पकः । 'निरिगमप' इति मनोहरः । 'रिगमपनि' इति  
कल्याणकरः । इत्येवमेता गान्धारग्रामे पञ्चदश तानाः ॥ १३६ ॥

एवं ग्राम-त्रयेऽप्यूनपञ्चाशन्नारदोदिताः ।

तानाः प्रदर्शिताः सम्यगस्माभिर्नामतः पृथक् ॥ १३७ ॥

सामगाने प्रयुज्यन्ते ताना यज्ञोपयोगिनः ।

गीतोपयोगिनस्ताना भरतेनोपदर्शिताः ॥ १३८ ॥

षड्ज-मध्यमयो.....प्यनुक्रमात् ।

चत्वारस्त्रय इत्येवं भवेयुः सप्त षाड्वाः ॥ १३९ ॥

षड्जेग्रामे तु षड्जेन पञ्चमेनर्षभेण च ।

निपादेन विहीनं च विज्ञेयं षाड्वं बुधैः ॥ १४० ॥



मध्यमाख्ये तथा ग्रामे सरिगैस्तु त्रिभिः स्वैः ।  
 प्रत्येकं सप्त तानास्तु कृत्वा संख्येति जायते ॥ १४१ ॥  
 तानानां तूनपञ्चाशद् ग्रामयोः षड्ज-मध्ययोः ।  
 ओडवाश्चात्र पञ्चैव ग्रामयोरुभयोरपि ॥ १४२ ॥  
 षड्जेन पञ्चमेनाथ पञ्चमेनर्षभेण च ।  
 गान्धारेण निषादेन हीनमौडवित-त्रयम् ॥ १४३ ॥  
 षड्जग्रामे मध्यमाख्ये ग्रामे चौडवित-त्रयम् ।  
 विना निषाद-गान्धारौ खरावृषभ-धैवतौ ॥ १४४ ॥  
 प्रत्येकमौडवे सप्त तानाः कृत्वेह जायते ।  
 पञ्चत्रिंशत्तान-संख्या ग्रामयोरुभयोरपि ॥ १४५ ॥  
 एवं चतुरशीतिः स्युस्ताना भरत-संमताः ॥ १४६ ॥  
 ' इत्यथ गान्धारग्रामेऽपि ब्रूमहे पुनः ।  
 कश्यपादि-मतेनात्र तानसंख्यामनुक्रमात् ॥ १४७ ॥  
 षड्जेन चर्षभेणाथ धैवतेन स्वरेण च ।  
 हीनं गान्धारग्रामेऽपि विज्ञेयं षाडव-त्रयम् ॥ १४८ ॥  
 षड्जर्षभौ सं-धैवतौ गौनी चैवौडव-द्वयम् ।  
 कृत्वा सप्तैव तानाः स्युः प्रत्येकं षाडवौडवे ॥ १४९ ॥  
 पञ्चत्रिंशद्भवं तत्र ताना ग्रामेऽनुलोमतः ।  
 एवं ग्राम-त्रयं षुक्कोनविंशत्यधिकं शतम् ।  
 तानानामनुलोमेन ज्ञेयमेतन्मनीषिभिः ॥ १५० ॥  
 'तनु' विस्तार इत्यस्माद्धात्वर्थः कर्तरि स्मृतः ।  
 षड्जर्षभ-पञ्चम-निषादानां, षड्जर्षभ-गान्धाराणां

क्रमात् षड्जमध्यमग्रामयोः सप्त चौडवा.....एकोनपञ्चा-  
शत्सम्पद्यन्ते । एतदभिप्रायेण नारदाचार्येणाप्युक्तम् —

“तानाश्रैकोनपञ्चाशदित्येवं स्वरमण्डलम्” इति ।

( अन्ये तु ) नामाभिप्रायेण चैतद्व्याचक्षते ।

“विंशतिर्मध्यमग्रामे षड्जग्रामे चतुर्दश ।

तानान्पञ्चदशेच्छन्ति गान्धारग्राममाश्रितान् ॥”

नामानि चाधुना वक्ष्याम्येतेषां ग्राम-भेदतः ॥ १५१ ॥

भरतेन तु षड्ज-पञ्चमाभ्यां निषाद-गान्धाराभ्यां  
विना षड्जग्रामे; ऋषभ-धैवताभ्यां निषाद-गान्धाराभ्यां विना  
मध्यमग्राम इति पञ्चौडवित-तानानां सप्तक-गुणनया पञ्च-  
विंशतिरिति पूर्वाभिहितः पञ्चाशन् मिलिताश्चतुरशीतिरुपद-  
र्शिताः । अस्माभिस्तु गान्धारग्रामस्या.....त-स्वरतायां काश्य  
पादिभी रागा अभ्यनुज्ञाता इति ग्रामत्रयेऽपि पूर्ण-पाडवौड-  
वितावि.....ताने विस्तर एव स्वीकृतः ॥१५२ ॥

यथा—

प-रि-हीनं स-प-त्यक्तं नि-ग-हीनमिति त्रयम् ।

औडवाः; पाडवाः षड्ज-पञ्चमर्षभ-सप्तमैः ॥ १५३ ॥

हीनाश्चत्वार एव स्युः षड्जग्राम-समुद्भवाः ॥

षड्जर्षभ-हीनं च त्यक्तं गान्धार-सप्तमम् ॥ १५४ ॥

औडव-द्वितयं, षड्ज-गान्धारर्षभ-वर्जितम् ।

औडव-त्रितयं च स्यान्मध्यमग्राम-सम्भवम् ॥ १५५ ॥

ध-हीनं पाडवश्चैको स-ग-हीनं ग-नि-च्युतम् ।

म-प-हीनं स-म-त्यक्तं रि-ध-हीनं ध-नि-च्युतम् ॥१५६ ॥

स-प-हीनं ग-धापेतं प-ध-हीनं प-रि-च्युतम् ।

ध-नि-संत्यक्तमित्येकादश-संख्यानि सर्वदा ॥ १५७ ॥

गान्धारग्रामिकाश्चाहुरौडुविता मनीषिणः ।

गान्धारग्राम-वर्जं तु ग्रामयोरुभयोरपि ॥ १५८ ॥

पङ्कादि-मध्यमादिश्च संख्या पूर्ण-स्वरे द्वयी ।

सम्पूर्ण-स्वर-पर्यन्तं तु पूर्वोक्त-स्वरादितः ॥ १५९ ॥

क्रमोक्तमत्रिपर्यासात्तानसंख्या विधीयते ।

त्रिस्वरस्य प्रयोगे तु १ दशोत्तरै-शत-द्वयम् ॥ १६० ॥

चतुःस्वरेष्वपि ह्युक्तं सार्ध-शत-चतुष्टयम् ।

औडवेषु च विंशत्या प्रत्येकमधिकं शतम् ॥ १६१ ॥

तथा सप्तशतानीह विंशत्यभ्यधिकानि च ।

जायन्ते पङ्कविधास्तानावसूयप्रन्मता (?) ॥ १६२ ॥

पूर्णे पञ्च-सहस्राणि त्रयस्त्रिंशत्पराणि च ।

इति द्वि-त्रि-चतुर्योगे विज्ञेयं गान-योक्तृभिः ॥ १६३ ॥

एक-ग्रामेषु सहिता प्रोक्ता सप्त-शती मया ।

स्यादेकविंशतिः शती चतुर्विंशतिर्ग्रामगा ।

ग्राम-त्रये च स्यात् पूर्व-संख्या त्रैगुण्य-योगतः ॥ १६४ ॥

ग्राम-त्रये पौनरुक्त्या पाडवौडवितेष्वथ ।

.....विंशतिः शती विंशत्यभ्यधिका सदा ॥ १६५ ॥

पाडवे चाष्टसु (?) ग्राम-त्रये पुनरुक्तितः ।

पष्टयत्व -- भवेत्सप्त-पञ्चाशदधिका तथा ॥ १६६ ॥

.....धिका ज्ञेया दश-साहस्रिका यथा ।

पूर्ण-स्वर-प्रयोगे तु ग्राम-द्वय-समुद्भवा ॥ १६७ ॥

इति सप्तति-युक्ता स्यादष्टशती तैह्यधिका ।

ऊनविंशतिः साहस्री तानाः स्युः समुदायतः ॥१६८॥

सम्प्राप्त-प्रतिराज-मण्डल-भयो मूर्च्छाल-कण्ठामर-  
ग्रामोद्गीत-गुणोदयो दिशि दिशि प्रोत्ताल-दान-ध्वनिः  
श्रुत्युत्कर्ष-कृतो नतित...धिया सुव्यक्त-बोधासये ।

तानाध्यायमचीकरन्नरपतिः क्षमापालनारायणः ॥१७०

इति महासामन्ताधिपतिधर्मावलोक-श्रीमन्नान्यपति-

विरचिते सरस्वती-हृदयालङ्कारे तानाध्यायः

समाप्तः ॥



## पञ्चमोऽलङ्काराध्यायः ।

१ अथ प्रथमं वर्णालङ्कार-प्रकरणम्

वर्णा एव हि जातीनां देहा इत्यभिधीयते ।

अलङ्काराय; तद्वक्ष्ये वर्णानामेव लक्षणम् ॥ १ ॥

आरोही चावरोही च स्थायि-सञ्चारिणौ तथा ।

वर्णाश्चत्वार एवैते ह्यलङ्कारास्तदाश्रयाः ॥ २ ॥

आरोहन्ति स्वरा यत्र ह्यारोहीति स कीर्तितः ।

यत्र चैवावरोहन्ति सोऽवरोहीति भण्यते ॥ ३ ॥

स्थिताः स्वरा समास्तत्र स्थायी वर्णः स उच्यते ।

सञ्चरन्ति स्वरा यत्र स सञ्चारीति कीर्तितः ॥ ४ ॥

सञ्चारि-स्वर-पर-भूताः(?) त्रिस्थान-स्वर-गाः.... ।

चत्वारो लपगोपेता ...त्येवं षोडश स्मृताः ॥ ५ ॥

“शशिना रहितेव निशा, विजलेव नदी, लता विपुष्पेव ।

अनलङ्कृतेव नारी गीतिरलङ्कार-शून्या स्यात्” ॥ ६ ॥

निष्कूजितः सङ्कुकार-हसितो विन्दुरेव च ।

प्रेङ्खोलितस्तथा क्षिप्तो विधुतोद्वाहितौ तथा ॥ ७ ॥

टी०:—( १—१७ ) । नान्यदेवोक्त अलंकारों की सख्या इस प्रकार होगी:—आरोही = १४; अवरोही = ५; स्थायी = ७; संचारी = १४ कुल निष्कार ४० होते हैं । तदुपरान्त सर्व वर्णम् १३ कहे हैं । अलंकारों के कतिपय नाम पुनरावर्तित होते हैं, उनको घटा देने से अलंकारों की वास्तविक संख्या ३३ हो जाती है, जो निम्नानुसार है:—

१ निष्कूजित, २ विन्दु, ३ हुंकार, ४ हसित, ५ विधुत, ६ द्वादमान, ७ प्रेङ्खोलित, ८ आक्षिप्त, ९ उद्वाहित, १० संप्रदान, ११ संधिप्रच्छादन,

Ad, (१) B, २५।१०

F. (७) M, १३०; B, २८।२७ का. pb: 'विधुसंघटित'

MI: १- मलंकार-महितं २-४-

ह्लादमानः संप्रदानः सन्धिप्रच्छादनस्तथा ।  
 प्रसन्नादिः प्रसन्नान्तः प्रसन्नाद्यन्त एव च ।  
 .....इत्यारोहे चतुर्दश ॥ ८ ॥

विधूतो गात्रवर्णश्च तथोद्गाहित एव च ।  
 उद्गीतश्च तथा वेणुर्विज्ञेयाश्चावरोहिषु ॥ ९ ॥

प्रसन्नादिः प्रसन्नान्तः प्रसन्नाद्यन्त एव च ।  
 °( प्रसन्नमध्यश्च तथा क्रम.....एव च । )

प्रस्तारश्च प्रसादश्च सप्तैते स्थायि-वर्णगाः ॥ १० ॥

१२ प्रसन्नादि, १३ प्रसन्नान्त, १४ प्रसन्नाद्यन्त, १५ प्रसन्नमध्य, १६ गात्रवर्ण,  
 १७ प्रस्तार, १८ प्रसाद, १९ मन्द्र, २० कंपित, २१ सग, २२ कुहर  
 २३ वेणु, २४ रंजित, २५ उपलोकक, २६ प्रावर्तक, २७ परावृत्त,  
 २८ उद्गीत, २९ मन्द्रतार, ३० तारमन्द्र, ३१ क्रम, ३२ रेचित,  
 ३३ संनिवृत्तःप्रवृत्त ।

ii. नाट्यशास्त्र में अलंकार-संख्या तैंतीस कही है:-

‘अलङ्काराख्यखिंशदशदेवमेते मयोदिताः’ ( का० ) । मतंग ने भी तैंतीस  
 संख्या बतायी है तथा संदर्भ में भरत का श्लोक उद्धृत किया है:-

‘इदानीं सुप्रसिद्धाख्यखिंशदलङ्कारा नामतः प्रयोगतश्च कथ्यन्ते ।’

‘अलङ्काराख्यखिंशदशदेवमेते मयोदिताः ।

नोदिता अपि तेऽप्यत्र प्रत्येतव्या मनीषिभिः ॥ १७० ॥’

इस विषय में ना० शा० के अनेक श्लोक मतंग ने उद्धृत किये हैं, जो  
 अधिक शुद्ध भी हैं ।

iii. ना० शा० के पाठभेद तथा अशुद्धि के कारण अलंकारों के कतिपय  
 नाम प्रकारान्तर से दिये गये हैं, जैसा कि:-निष्कृजित = निष्कर्ष; उद्गीत =  
 ऊहित; उपलोकक = अवलोकित; अत्युच्चय, व्यालित, प्रस्तार इत्यादि ।

F: (९) B. २९।२९ क०; M: १३२

F: (१०) B. २९।२३, २४; M. १२५, १२६

M: १ नि २ केलि ३ हाचारिणु

मन्द्रस्तथा प्रसन्नादिः प्रेङ्खितो विन्दुरेव च ।  
 सन्निवृत्तः प्रवृत्तश्च रेचितः कम्पितः समः ॥ ११ ॥  
 कुहंरश्चैव वेणुश्च रञ्जितश्चोपलोलकः ।  
 प्रावर्तकः परावृत्तः सञ्चारिणि चतुर्दश ॥ १२ ॥  
 प्रसन्नादिः प्रसन्नान्तो विन्दुः कम्पित-रेचितौ ।  
 प्रेङ्खोलितस्तारमन्द्रो मन्द्रतारः समस्तथा ॥ १३ ॥  
 सन्निवृत्तः प्रवृत्तश्च प्रसादाख्यस्तथैव च ।  
 तथोपलोलको वेणुरित्येते सर्ववर्णगाः ॥ १४ ॥

iv. एलाकर ने ६३ अलंकार इस प्रकार बतये हैं:- स्थायी ७ + आरोही १२ + अवरोही १२ + संचारी २५ + अन्य ७ = ६३ ( ११६ )

सामसंगीत में प्रयोज्य 'वर्ण' एवं कुछ गमकसदृश स्वर-योग पुष्पसूत्रादि ग्रंथों में कहे हैं, जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किये हैं:-

( १ ) प्रत्युत्क्रमः- स रे, रे ग, ग म, इ०

एलाकर ने इसको प्रेङ्खित नाम दिया है । इस प्रकार के स्वरयोग को पाश्चात्य संगीत में attack अथवा initial step कहते हैं । 'खटका' गमक में यह स्वरयोग प्रयोज्य होता है ।

( २ ) रौहः- सरे; सरेग; सरेगम इ०; यह आरोही वर्ण होगा ।

( ३ ) अतिक्रमः- स-ग, स-म, स-प इ०

( ४ ) उद्धातः- म गाऽ। पाश्चात्य संगीत में appoggiatura (downward) प्रयोग इसी के समान होता है ।

F: (१२) B. २५।२५, २६ pb; B. १२८, १२९ pb.

(१३, १४) B. २५।३३, ३४ pb; M. १३३, १३४

यानि देवताऽलङ्कार-भेद-जातानि तानि तु ।

योज्यानि सर्वगान्धर्वे सप्तगीतिषु जातिषु ॥ १५ ॥

यत्तु भरताचार्येणोक्तम्—

“सप्तरूप-गता ज्ञेया अलङ्कारा वृधैस्त्वमे ।

°(न नियोज्या ध्रुवास्वेते ह्यति-वर्ण-प्रकर्षणात्) ॥ १६ ॥

तत्र सप्तरूप-शब्दः सकल-गान्धर्व-जात्युपलक्षणस्तथा हि सप्तरूप-गता ह्येवेति नियमादेव ध्रुवास्वलङ्कार-निषेधः सिद्ध एव करोति, तन्निषेधं च न नियोज्या ध्रुवास्विति ह्यति-वर्ण-प्रकर्षणादित्येतदेवोपलक्षणे कारणमिति ॥ १७ ॥

(५) उद्ः— ऊर्ध्वस्य संवादी स्वर को उक्त संज्ञा दी गयी है ।

(६) गतिः— अक्षर को इ, ऊ स्वर लगाना; जैसा कि— ‘हो’= होइ होउ ।

(७) अतिहारः— मन्त्राक्षर को स्तोभाक्षरो द्वारा बढ़ाना, जैसा कि— ‘बर्हिषी’ मन्त्र-शब्द है, उसके ‘ब’ को सामगान में ‘बा औ होवा’ किया जाता है, जो अतिहार ही है ।

(८) कर्षणः— म ग, म ग रे, म ग रे स । यह स्वर-क्रिया ‘नीड’ के समान प्रतीत होती है ।

(९) विनतः— गा ऽ म, मा ऽ ग ।

(१०) पर्वन्ः— एक साथ गाया जा सके, ऐसा गान-विभाग (Phrase) । त्रिशिष्ट अवरोही स्वर-युग्म को विनतादि संज्ञा दी गयी हैः—

मग=विनत; गरे=प्रणत; सध=उत्खरित; गम=अभिगीत ३० ।

ना० शि० में गमकों का निर्देश उपलब्ध नहीं है । कानून-जातिक वीणा में गमकों के प्रयोग की गुंजाइश भी कम है ।



२ अथ द्वितीयं गमक-प्रकरणम् ।

गमकानामतो वक्ष्ये नाम-लक्षण-संयुतम् ।  
स्फुरितं कम्पितं लीनं तिरिपान्दोलिते तथा ॥ १८ ॥  
आहतं च त्रिभिन्नं च गमकं नाम सप्तधा ।  
तारे मन्त्रे च दीप्ते च स्वर-स्थाने च युज्यते ॥  
स्वर-क्रमेण गृह्णीयादिदं गमक-लक्षणम् ॥ १९ ॥  
स्वरे स्वरे स्फुरेदीप्ते स्फुरितं गमकं च तत् ।  
त्रिस्थाने कम्पितो यस्तु कम्पितो गमकः स्मृतः ॥ २० ॥  
तथा गति-समायुक्तो लीनं गमकमिष्यते ।  
सर्व-स्वर-सुसंवादी तिरिपो शीघ्रगः स्मृतः ॥ २१ ॥

टी०:—( १८-२३ ) : नान्यदेव ने गमक ७ प्रकार के बताये हैं । गमकों का वर्णन वृ० दे० में उपलब्ध नहीं है । परन्तु वृ० दे० के राग वर्णन में 'स्फुरित' गमक का निर्देश पृ० १२९ पर आया है । तदुपरान्त राग तथा प्रबन्धों के वर्णन में कहे हुए 'त्रिन्दु' एव 'मूर्च्छना' दोनों गमक प्रकार ही होंगे, ऐसा प्रतीत होता है —

'त्रिन्दुभिर्गमकैर्युक्ता चन्द्रिकेति प्रकीर्तिता ॥ ४७९ ॥'

'पञ्च पाद समायुक्ता मूर्च्छना गमकान्विता ॥ ४८४ ॥'

ना० श्या० में 'त्रिन्दु' धातु-प्रकारों में वर्णित है —

'गुर्वक्षर कृता तप्ती त्रिन्दुरित्यभिसञ्जित ॥ २९।६९ ॥'

रत्नाकर द्वारा 'त्रिन्दु' एव 'मूर्च्छना' प्राचीन बीजाभ्यादन के प्रकरण में वर्णित हैं । ( ६।७८, ८४ ) 'मूर्च्छना' प्रचलित 'पसीट' गमक के समान प्रतीत होता है —

'स्वर स्थाने द्रुत कन्नासारण मूर्च्छना मत्ता ॥ ८४ ॥'

॥ पार्श्वदेव द्वारा कथित सप्त गमक नान्यदेवोक्त के अनुसार ही हैं ( १।४७-५५ ) । गमक की रत्नाकरोक्त व्याख्या—'स्वरस्य कम्पो गमक थोलु-चित्त सुलाग्रह' ( ३।८७ ) सर्व विदित है । रत्नाकर ने पद्मह गमक बताये हैं, उनमें अधिकांश गमक काल मान द्वारा समझाये हैं । मौमनाथ ने उन्नीस गमक कहे हैं और उनकी क्रिया की रीति तथा स्वर लेखन भी दिया है, जो

आन्दोलयेत् स्थितं नादं गमकं दोलितं च तत् ।  
 आहतं हन्ति यः सर्वान्स्वरान्द्रीघ्रं पुनः पुनः ॥ २२ ॥  
 स्थाने मन्त्रे ततस्तारे स्वर उद्दीपितस्तु सः ।  
 उद्दीप्यते च तत्स्थाने त्रिभिन्नं दुष्करं मतम् ॥ २३ ॥

३ अथ तृतीयं स्वर-जाति-रस-देवतादि-प्रकरणम्  
 रसाश्छन्दांसि देवाश्च ये चास्मिन्गीतके स्थिताः ।  
 स्वर-जात्यंशक-द्वारा तानिदानीं प्रचक्ष्महे ॥ २४ ॥  
 मध्य-पञ्चम-भूयिष्ठं कार्यं शृङ्गार-हास्ययोः ।  
 षड्जर्षभ-प्रायमपि वीर-रौद्राद्भुतेषु च ॥ २५ ॥  
 गान्धार-सप्तम-प्रायं करुणेन गमिष्यते ।  
 तथा धैवत-भूयिष्ठं वीभत्से सभयानके ॥ २६ ॥

महत्त्वपूर्ण है । सोमनाथ द्वारा वर्णित बहुतांश गमक रत्नाकरोक के समान ही है । सोमनाथोक्त गमकों का विवेचन आर. झीमन् ने विस्तार-पूर्वक किया है । सोमनाथ ने कतिपय रागों के आलाप गमक-सहित लिख के बताये हैं । रत्नाकर-सोमनाथ द्वारा वर्णित गमक प्रचलित हिं० गमकों के समान ही हैं । पार्श्वदेव ने की हुई गमकों की व्याख्या नाविन्यपूर्ण है:—

‘स्व-श्रुति-स्थान-सम्भूतां छायां श्रुत्यन्तराश्रयाम् ।

स्वरो यद् गमयेद् गीते गमकोऽसौ निरूपितः ॥ १।४७ ॥’

हिं० प्रचलित गमक लरजा (= कंप) मुर्का, जमजमा, मीड, छोटा-बड़ा ‘गमक’ खटका तथा घसीट आदि प्रसिद्ध हैं ।

टी०:—( २४-३६ ) i. उपरोक्त वचन के अनुसार षड्जादि स्वरों से साहित्यिक रसों की अभिव्यक्ति निम्नप्रकार से होगी:—

स—रे	म—प	ग—नि	ध
वीर-रौद्र-अद्भुत	हास्य-शृंगार	करुण	वीभत्स-भयानक

तत्र भूयिष्ठ-शब्देनार्थ-सिद्धोऽशक एवाभिमतः ।

यो यत्रांशः स कलितच (?) भूयः प्रयोगवान्भवति ।

यत्रांश-स्वर-व्यक्ति-निरुक्तस्य कचिद्वाहुल्यमुक्तम् ।

तदितर-स्वरवदभिप्रायमतोऽश-स्वर-द्वारेण रसव्यवस्य

प्रसंगतो विधाय, कचिदपवादं कचिदनुवादमाह—

“पङ्जोदीच्यवती चैव पङ्जमध्या तथैव च ।

पङ्ज-पञ्चम-चाहुल्यात्कार्यं शृङ्गार-हास्ययोः ॥ २७ ॥

पाङ्गी तथार्पणी चैव स्व-स्वरांश-परिग्रहात् ।

वीर-रौद्राद्भुते नित्यं प्रयोज्या गान-योक्तृभिः ॥ २८ ॥

इसो अर्थ का रत्नाकर का श्लोक 'सरी वीरेऽद्भुते रौद्रे, धो बीभसे भयानके ।' इत्यादि है ( १।३।५९ ) । जाति-रागों के रस उनके अंश स्वरों के ऊपर अवलंबित होते हैं:—'सर्वजातिषु जानीयादंशस्वरगतं रसम्'—सं० २० १।७।११२ ॥ अर्थात् 'यस्यां जाती यदा योऽंशो भवति, तस्याम् 'सरी वीरे' इत्यादिनोक्त-प्रकारेण तत्तदंश-स्वर-गतं रसं विजानीयात् । ज्ञात्वा तत्तदसा-मिव्यञ्जकैः पदैर्गायेदित्यर्थः ।' 'पाङ्ग्यादि-सर्वजातिषु अंश-स्वर-गतो रसो वेदितव्यः ।' ( १।७।६३—क० )

ii. मूल प० ग्रामिक ( या म० ग्रामिक ) सप्तक द्वारा न्यास-परिवर्तन के कारण ( ध्रुतिपंढितों के मतानुसार 'मूर्च्छना'ओं के कारण ) 'आर्पणी', 'गान्धारी' आदि जाति-रूप अन्य षाट उत्पन्न होते थे । उस समय ऐसे नये षाटों के स्वरों के नाम मूल प० ग्रामिक या ( म० ग्रामिक ) ही रहते थे तथा इन नये षाटों के रस मूलग्रामिक स्वरों के अनुसार नाने जाते थे, जैसा कि उपरोक्त "पङ्जोदीच्यवती चैव" ( २९।१, २ का० ) इत्यादि उद्धृत श्लोकों में भरतमुनि ने कहा है; परन्तु वास्तव में नये षाट के स्वरांतर पङ्ज-संचालन के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए मूल स्वरनाम के आधार पर उनके रस निर्धारित करना स्पष्टतः एक असंगति है । उदाहरणार्थ.—काफी षाट में ऋषभ को वादी बनाकर गाने-बजाने से ऋषभ-गत वीर-रौद्र-रस की अनुभूति होगी, किन्तु काफी षाट के ऋषभ को पङ्ज करने से भैरवी षाट की उत्पत्ति होती है, अतः पङ्ज-भावी 'ऋषभ' के आधार पर इस भैरवी षाट का रस मूल ऋषभ-गत वीर-रौद्रादि

नैषादीत्यद्भुते कार्या निषादांश-परिग्रहात् ।

गान्धारांशोपपत्त्या च करुणे पङ्जकैशिकी ॥ २९ ॥

धैवती धैवतांशत्वाद् वीभत्से च भयानके ।

गान्धारी रक्तगान्धारी गान्धारांशोपपत्तितः ।

करुणे तु रसे कार्या जातिर्गान्धर्व-वेदिभिः ॥ ३० ॥

मान लेना एक भूल होगी । जातिरूप ग्राम-सप्तक-जन्य पाटों के रस ग्रामिक मूल स्वर-नामो से प्राचीन शास्त्रकार निर्धारित करते थे, इसका दूसरा अर्थ यह निकल सकता है, कि पङ्ज-संचालन से निकाले हुए नये पाटों का स्वतन्त्र व्यक्तित्व उस समय दृढ़ नहीं हुआ था, जिससे जन्य पाटों को मूल ग्रामिक सप्तक के अंश ( विभाग ) जैसा ही माना जाता होगा । संचालित पङ्ज की 'अंश 'न्यास' आदि संज्ञाएँ इसी वस्तुस्थिति की ओर संकेत करती हैं । यही कारण होगा, कि जिससे ग्रामों का महत्त्व भी अत्यधिक माना जाता था । प्राचीन ग्रीक 'जाति' (=रागों) के विषय में भी विद्वानों की यही धारणा है:—

'.....Let us again consider the essence of the distinction between these modes. It is not a distinction of modality such as exists between our major and minor scales. The development of Greek music preserved, amidst all its changes, the original tetrachord as the permanent unit of composition..... so that the principle of construction remained identical in the change of mode. Again, it is a distinction in the order of intervals, but only in so far as the several modes are different sections of one common whole.' ( Artx., p. 39 )

iii. प्राचीनों का प० ग्रामिक पाट प्रचलित काफी जैसे ही मान लेने पर उस पाट के पङ्ज, ऋषभ आदि स्वरों द्वारा उपरोक्त वचन में कहे हुए रस निष्पन्न हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त इस पाट से निकलनेवाले प्रत्येक राग का एक स्वर जो वादी ( 'अंश' = प्रमुख ) होगा, उसी के अनुसार रस भाव भी उत्पन्न होने चाहिए; किन्तु रागजन्य रस केवल एकमात्र वादी स्वर के ऊपर ही अवलंबित नहीं होता । बुलंद या मृदु आवाज, राग में प्रयुक्त होने-वाले गमक, राग के कोमल तीव्र तथा वर्ज्यावर्ज्य स्वर, स्वरसंयोग, विलंबित आदि लय, लयकारी, बोलतानों, बोलबौट, ह्याल-ठुमरी आदि प्रबंध-रचना इत्यादि के विशिष्ट प्रयोग से राग के निर्धारित रस का प्रकारान्तर अंशतः हो

मध्यमा पञ्चमी चैव नन्दयन्ती तथैव च ।

मध्य-पञ्चम-चाहुल्यात्कार्या शृङ्गार-हास्ययोः ॥ ३१ ॥

मध्यमोदीच्यवा चैव गान्धारोदीच्यवा तथा ।

द्वे षड्ज-पञ्चमाभ्यां तु वीर-रौद्रे प्रकीर्तिते ॥ ३२ ॥

सम्पत्ता है। करुण कोमल प्रकृतिक भैरवी राग स्वरचलन के अनुसार करुण, शृङ्गार अथवा वीर हास्यादि विभिन्न रसों को अल्पाधिक निर्माण करता है, तथा उसे अनुभव भी किया जा सकता है।

v कोमल ऋषभ धैवत एव तीव्र मध्यम का रसकार्य जानने के लिए प्राचीन ग्रन्थों का आधार प्राप्त नहीं हो सक्ता। तीव्र गान्धार निपादों का रस परिणाम भरत ने स्वतन्त्ररूप से नहीं कहा है। इसका कारण यह हो सकता है, कि भरतसंगीत में अंतरकाकली स्वरों का अस्तित्व स्वतन्त्र नहीं था। तथापि—

v काकल्यन्तर स्वरों के कारण अशक्त रस विशेष बलवान् होते हैं, इस प्रकार के भरत के मतव्य की ओर निम्नोद्धृत वचन इंगित करता है—

“सर्वेष्वशेषु रसा नियम विधानेन सप्रयोजन्या ।

काकल्यन्तर विहिता विशेषयुक्तास्तु प्रत्यन्त ॥ २९।१५ ॥”

v: प्राचीन, ग्रीक, ईरानी आदि संगीत में तथा प्रचलित पाश्चात्य संगीत में भी रागों द्वारा साहित्यिक रसों का निर्माण होता है, इस प्रकार की कल्पना प्रचलित थी तथा आज भी है (Artex p 39, 71, H, p 180 183 Phymus p 187-181)

vii राग रस कल्पित हैं, ऐसा हेल्महोल्ड्ज़ आदि का कथन है—

The whole matter is one of subjective imagination, possibly based in the first instance on association of ideas' (p 184) अन्य विद्वान् अल्पस्वरूप मतमेव होते हुए भी हेल्महोल्ड्ज़ से सहमत हैं—

Plato would have forbidden the use of the last two modes in his ideal republic It therefore seems wiser to assume,

without being too dogmatic that the association of particular keys with music of particular type, and especially with familiar examples, has given rise to a belief in distinctive emotional characters for which there is in fact no rational foundation, although the possible association with absolute pitch should not be entirely discounted (Phymus p 181)

कामारवी तथा तथाऽऽन्धी च निषादांश-परिग्रहात्  
वीराद्भुते तु कर्तव्ये नित्यं गान-प्रयोक्तृभिः ॥ ३३ ॥

कैशिकी धैवतांशत्वात्तथा गान्धार-पञ्चमी ।

प्रयोक्तव्या बुधैः सम्यग् वीभत्से सभयानके ॥ ३४ ॥

पाश्चात्य विद्वानों के यह निष्कर्ष हि० राग-संगीत के लिए यथावत् प्राक्ष नहीं होंगे; इतना ही नहीं, परन्तु रागों द्वारा साहित्यिक 'रस' निर्माण नहीं होते हैं, ऐसा कतिपय भारतीय विद्वानों का भी कथन है। विशिष्ट राग द्वारा विशिष्ट 'रस' संपूर्णतः पैदा नहीं होता होगा, किन्तु—

viii. आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है, कि कलाकार के हृदयस्थ भाव ही संगीत को निर्माण करते हैं तथा ऐसे संगीत द्वारा श्रोताओं के हृदय में वे ही भाव पैदा होते हैं; अर्थात् संगीत-जन्य रंजन अथवा आनंद इसी परिणाम का नाम है:—

'Music is essentially a play upon feeling. It is appreciated only in - so - far as it arouses feeling and can be expressed only by active feeling in music. On the degree and the kind of feeling, we may again classify persons into characteristic types in terms of affective responsiveness.' संगीत के यह भाव 'दिव्य' माने जाते हैं, किन्तु यथार्थ में वे मानवीय ही हैं। इन भावों की उच्चनीचता के साथ साथ अल्पाधिकता के ऊपर संगीतकारों की श्रेणी का क्रम लगाया जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य दो विशेष भाव विचारणीय हैं, एक सृजनात्मक भाव और दूसरा कलात्मक अनुभव:—

"we are, of course not thinking here about mystic inner something which is spoken of as feeling, as such, but of the expression of feeling. In modern psychology, to feel is always to do, to express something - action of the organism. The expression does not take ethereal, magical or even mystic form, but comes to us through the media to which our senses are open. There are two other aspects of feeling in music. One is the nature of esthetic experience, and the other is what we may call, 'The creative feeling' as it operates in the composer." संगीत के भावों का यह आविष्कार सर-ताल-रागों के दृढ नियमों के प्रति कलात्मकता से हेतुपुरस्सर विचलित होने पर

एकैव षड्जमध्या विज्ञेया सर्व-संश्रया जातिः ।  
अस्यास्त्वंशाः सर्वे खरास्तु विहिता प्रयोग-विधौ ॥ ३५ ॥

ही निर्माण होता है:— "As a fundamental proposition we may say that the artistic expression of feeling in music consists in 'esthetic deviation from the regular - from pure tone from pitch, even dynamics, metronomic time, rigid rhythms, etc. .... The emotional medium at one moment may be primarily *fine modulation in tonal timbre, at another in rhythms; at another in stress and each of these in countless forms of sublimation or hierarchies. In the ensemble of such deviation from the regular, lies the beauty, the charm, the grandeur of music.*" (Psymus., p. 9-10).

राग-भाववशात् खरस्थानों का सूक्ष्म उतार-चढ़ाव को ही संगीतकार 'श्रुति' नाम से पहचनाते हैं । ऐसी श्रुतियों का निर्माण केवल संवादी गणितागत स्वरों द्वारा नहीं होता है, न उनकी संख्या भी २२ ही हो सकती है । तात्पर्य, संगीत की निर्मिति, स्वरूप तथा रसास्वाद में 'भाव' ही कारण होते हैं । इसी अर्थ में राग का अर्थ फॉक्स स्टैन्बेज ने colour और mood किया है । यद्यपि 'राग' शब्द का अर्थ 'रञ्जक खर-समुदाय' इस प्रकार मूलतः माना गया है, तथापि राग का आविष्कार अ-कलात्मक हो, तो वह अरञ्जक भी हो जाता है; जैसा कङ्किनाथ ने स्पष्ट किया है:— "राग-शब्दस्य केवल-रूढत्वं तु येन केनचिद् रागेण यः कश्चन न रच्यते तं प्रति तस्य अरञ्जकत्वात् 'अयं रागो महां न रोचते' इति तद्वाक्यप्रयोगे द्रष्टव्यम् (२।१)" सारांश जिस शास्त्रोक्त संगीत द्वारा ओकरंजन नहीं होता है तथा जो भावपूर्व नहीं है, ऐसे संगीत को संगीत-विद्या कहना उचित होगा, संगीत कला नहीं । संगीतकार बनने के लिए आत्म-निवेदन का माध्यम एकमात्र संगीत होना अनिवार्य है; तदुपरान्त शास्त्र-ज्ञान, अभ्यास ('रियाज'), अनुभव, एवं कल्पनाशक्ति की आवश्यकता होती है । सांगीतिक बुद्धि—musical intelligence—गणित, विज्ञान आदि के समान ही होती है; परन्तु संगीत-कृति यदि केवल बुद्धिजन्य हो, तो उसे कला न कहते हुए संगीत कारीगरी कहना अधिक उचित होगा । संगीत में कल्पना imagination के स्थान पर यदि बुद्धि-पक्ष अधिक विरसित हुआ है, तो वह संगीत रूखा तथा कृत्रिम होकर परिणाम-कारक

पङ्जर्षभ-गान्धारास्तथा मध्यम-धैवतौ ।

पञ्चमश्च निपादश्च यत्रांशास्त्वेव संश्रिताः ॥ ३६ ॥

(जातिषु छन्दसां योजना, यथा—)

गायत्र्यादि जगत्यन्तं तत्र छन्दः क्रमाद्भवेत् ।

एतत्तु वेद-विषयमन्यद् गान्धर्व-गोचरम् ॥ ३७ ॥

हीने गीत-विहीनानि, मध्ये मध्यानि, चोत्तमे ।

उत्तमानि प्रयोज्यानि छन्दांसीति मुनेर्मतम् ॥ ३८ ॥

विलम्बित-लग्नैश्चात्र तुर्य-पर्यन्त-निर्मिते ।

गीते गुर्वक्षरं छन्दः प्रतिष्ठानं प्रशस्यते ॥ ३९ ॥

औडवादीनि गीतानि पूर्वाण्यन्यानि यानि च ।

लघु-प्रायाक्षरैः सम्यग् निर्मिते च द्वैतैर्लग्नैः ॥ ४० ॥

गुरु-लघ्वक्षर-प्रायो मध्यमेऽप्य....लाञ्छ ।

गायत्र्यादीनि सर्वाणि तत्र छन्दांसि योजयेत् ॥ ४१ ॥

अपेक्षित-रसापेक्षं....यदि....स्यत्युदीरिताः ।

ध्रुवास्तत्र....छन्दांसि सदा नित्यं तमिष्यते (?) ॥ ४२ ॥

प्रतीत नहीं होता है । ऐसी गायकी को आजकाल 'बुद्धि-प्रधान' गायकी नाम देकर उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए तार्किक प्रयत्न हो रहे हैं । इसी प्रकार के 'तैयारी'—युक्त किन्तु रसहीन गायन को तन्त्र लोग रियाज का गाना अथवा 'कसरत' (vocal gymnastics) नाम देते हैं । स्व-बुद्धि-कौशल रहित केवल पायी हुई शिक्षा का यथातथा प्रदर्शन 'तालीम' का गाना कहा जाता है । दूसरों की नकल कर के गानेवाले गायकों को रनाकर ने 'अनुकार' नाम दिया है । केवल ताल और छपकारी का अंग प्रदर्शित करते रहने पर 'तबले का गाना' कहते हैं । रनाकर ने गायकों के पाँच प्रकार बताये हैं, जो लगभग ऐसे ही हैं.—



‘शिक्षाकारोऽनुकारश्च रसिको रञ्जकस्तथा ।

भावुकश्चेति गीतज्ञः पञ्चधा गायन जगुः ॥ ३।२० ॥’

इनके लक्षण पार्श्वदेव ने भी दिये हैं ( ८।५२-७२ ) । तात्पर्य ‘रसिक’ ‘रंजक’ और ‘भावुक’ ऐसे कलाकारों के तीन ही भेद हैं । संगीत-शिक्षकों की संज्ञा ‘शिक्षाकार’ है, जिनको प्रचलित में ‘तालिमीये’ कहते हैं । रत्नाकर ने रसहीन गायक को ‘विरस’ तथा कानसुरे गायक को ‘विकल’ कहा है ।

‘राग-चित्रण की अपार क्षमता जिस कंठ में विनाभ्यास अर्थात् निसर्गतः रहती है, उसे रत्नाकर ने ‘शारीर’ संज्ञा दी है—

‘रागाभिव्यक्ति-शक्तमनभ्यासेऽपि यद् ध्वनेः ।

तच्छारीरमिति प्रोक्त शरीरेण सहोद्भवात् ॥ ३।८२ ॥’

‘शारीर’ को प्रचार में ‘सुरीले’ शब्द से पहचानते हैं । ‘शारीर’ गुण के लक्षणों की स्पष्टता पार्श्वदेव ने की है ( १।१६-१९ ) ।

संगीत के कतिपय सौंदर्य तत्त्वों का विश्लेषण पूर्ण वर्णन रत्नाकर तथा पार्श्वदेव ने स्थाय प्रकरण में किया है । उदाहरणार्थ—

( १ ) ‘ढालो मुक्ताफलस्यै च ललन लुण्ठनात्मकम् ॥ ३ । ११३ ॥

....नमन त्वतिकोमल लयनी . ॥

यत्तु कम्पनमारोहिष्यररोहिणि वा भवेत् ॥ ११४ ॥

वहनी साऽथ सचारिष्यपि वा स्वर-कम्पनम् ॥

यस्यामन्तर्निशन्तीय स्वराः सुत्तेति सा मता ॥ ११७ ॥

सोरकुल्ले-युदिता यस्या निर्यान्तीरोपरि स्वराः ॥ ११८ ॥

रागमग्रा वाच-शब्दा येषु ते वाचशब्दजाः ॥ ११९ ॥

श्रुतिन्यूनानधिकत्वेन या स्वरान्तर-संश्रया ॥ १२१ ॥

स्वरान्तरस्य रागे स्यात् स्वरकाकुरसो मता ।

या रागस्य निजच्छाया रागकाकुं तु ता मिदुः ॥ १२२ ॥

रागस्यातिशयाधानं प्रयत्नाद् भजनं मतम् ॥ १२८ ॥

सपिलासास्ति गीतस्य मत्त-मातगयद् गतिः ॥ १२९ ॥

तद्युक्तास्तु गतेः स्थायाः, क्षिण्वो माधुर्यमासलः ।

वहुलो येषु नादः स्यात्ते नादस्य प्रकीर्तिताः ॥ १३० ॥

युक्ताः कोमलया कान्त्वा छवेः स्थाया निरूपिताः ॥ १३१ ॥

रक्तेरुत्कर्षतो रक्तेरुक्ताः स्थाया मनीविभिः ।

दुतत्वान्चर्ष-नामानो भूतस्य भरणद् ध्वनेः ॥ १३२ ॥

रागान्तरस्यावयवो रागेऽशः स च सप्तधा ॥ १३३ ॥

निकृतेः करुणायाश्च स्थायास्त्वन्वर्थ-नामकाः ॥ १४३ ॥

वहन्त इव कम्पन्ते स्वरा येषु बहस्य ते ।

अक्षराडम्बरो येषु मुख्यास्ते स्युस्तदन्विता ॥ १५२ ॥

वेगेन प्रेरितैरुष्मै स्वैरुल्लासितो मतः ।

यत्र गङ्गातरङ्गन्ति स्वराः स स्यात्तरङ्गितः ॥ १५३ ॥

परितोऽर्धभृते कुम्भे जलं डोलायते यथा ।...सलम्बितः ॥ १५४ ॥

स्थायों का विवेचन पार्श्वदेव ने भी अच्छा किया है, जिसमें कतिपय मराठी शब्दों का उपयोग किया गया है :-

‘ठायं यद् वेधकत्वेन क्रियते तद्विचक्षणैः ॥ २। ६६ ॥

चित्ताचे-ठायमुदित श्रोतुश्चित्तानुवर्तनात् ।

करुणाराग-योगेन चिन्ता-दीनतयाऽथवा ॥ ६७ ॥

करुणा-काकु-संयुक्तां ठायं चेत्करुणाभिधम् ॥ ६८ ॥

भवेद् यत्र सुनादोऽन्ते तार-स्थान-गत-ध्वनैः ॥ ७१ ॥

सादाचे-ठाय इत्युक्तः स तु गीत-विचक्षणैः ॥ ७२ ॥

इनमें ‘चित्त,’ ‘करुणा’ एवं ‘सादा’ के ठाय अर्थात् स्थाय कहे हैं । ‘सादाचे ठाय’ को ही प्रचलित में पुकार की तानें कहते हैं । रत्नाकर ने मधुर सुरीले आवाज को असाधारण ‘शारीर’-गुण कहा है:-

‘शब्द-शारीर-गुणतः सुकरः सुस्वरोऽथवा ॥ १७३ ॥

यः कस्यचिन्न सर्वेषां सोऽसाधारण उच्यते ॥ १७४ ॥’

सिंहभूपाल द्वारा स्पष्टीकरण इस प्रकार है:-

‘यस्तु कस्यचिदेव पुरुषस्य शब्द-गुणेन शारीरगुणेन वा सुकरः, सुखेन कर्तुं शक्यः स सुस्वरः; अपस्वर-हीनो वा; न तु सर्वेषां पुरुषाणां, सोऽसाधारणः ।’ इससे कह सकते हैं, कि सुरीले आवाजवाले गायक सभी युग में अपवाद-रूप ही होते हैं ।

राग के प्रमुख स्वर-समुदाय को ही ‘स्थाय’ कहते हैं । गमक, स्वरों के गुण और लगान, तानें तथा बोलतानें, ध्रुति-रूप स्वर एवं राग-मिश्रण आदि सभी गायकी-क्रियाओं का समावेश स्थाय के अन्तर्गत होता है । संगीत के सौंदर्य-गुणों की समालोचना करने के लिए स्थाय-विवेचन अत्यंत उपयुक्त है । इस महत्त्व के निषय की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमने यद् विस्तार किया है ।

४ अथ चतुर्थं राग-देवता-कालादि-प्रकरणम् ।

देवतास्तत्र रागाणां गीते तूत्संगतः स्मृताः ।  
 कश्यपाद्यैः कचित्काश्चिन्नाम्नैव परिकीर्तिताः ॥ ४३ ॥  
 पङ्कजग्रामः सुरस्येष्टो, मध्यमे चैव माधवः ।  
 ग्रामे गान्धार-पूर्वे तु दैवतं पार्वतीपतिः ॥ ४४ ॥  
 इति सामान्यतः प्रोक्तं, विशेषादधुनोच्यते ।  
 टकरागे स्मृतो रुद्रो, भिन्नपङ्कजे प्रजापतिः ॥ ४५ ॥  
 ककुभे धर्मराजस्तु, हिन्दोले मकरध्वजः ।  
 पञ्चमे पञ्चवाणस्तु, विष्णुमालवकैशिके ॥ ४६ ॥  
 पङ्कजग्रामाभिधे रागे देवता स्याद् बृहस्पतिः ।  
 ध्रुवस्तु मध्यमग्रामे, भार्गवः शुद्धपाडवे ॥ ४७ ॥  
 शनैश्चरः पञ्चमे च, सूरः साधारिते स्मृतः ।  
 मध्यमे कैशिके सोमो, लोहितः पङ्कज-कैशिके ॥ ४८ ॥  
 राहुश्च देवता प्रोक्ता रागे गान्धारपञ्चमे ।  
 देवता केतुरेकस्तु स्मृता मालवपञ्चमे ॥ ४९ ॥  
 अनुक्त-देवतानां तु रागाणां दैवतं शिवः ॥ ५० ॥

यदाह मतंगः —

“सर्वे रागा महादेवे सम्यक् सन्तोपकारकाः ” ॥ ५१ ॥

हेमन्त-ग्रीष्म-वर्षासु कालेषु गण-शासिभिः ।

पङ्कज-मध्यम-गान्धार-ग्रामा गेया यथाक्रमम् ॥ ५२ ॥

हेमन्ते भिन्नपङ्कजाख्यः शिशिरे चैव कैशिकः ।

वसन्ते चैव हिन्दोलः, प्रेङ्खः कण्ठे (?) विगीयते ॥ ५३ ॥

पञ्चमो गीयते ग्रीष्मे मध्यमग्राम-नामकः, ।

अभ्रागमे पङ्कजग्रामपटकरागश्च गीयते ॥ ५४ ॥

ककुभः शुभमिच्छद्विर्गेयस्तु शरदागमे ।

पूर्वाह्णे चैव मध्याह्णे चापराह्णे यथाक्रमम् ॥

॥ ५५ ॥ ग्रामः त्रितयमेतत्तु गेयं श्रेयोऽभिवाञ्छता ॥ ५५ ॥

शुद्धा भिन्ना च या गीतिरायामे प्रथमे मता ।

॥ मध्य-प्रहर-युग्मे च शौडी गीतिः प्रशस्यते ॥ ५६ ॥

°(अथ रागाणां रसेषु विनियोगो, यथा—)

॥ ५७ ॥ हिन्दोलो मालवाख्यश्च शृङ्गार-रसमाश्रितौ ।

पञ्चमष्टकरागस्तु वीर-रौद्रे यथाक्रमम् ॥ ५७ ॥

कारुण्ये ककुभश्चैव, हास्ये मालवकैशिकः ।

ककुभो भयानके कार्यः पडूजो वीभत्स-शान्तयोः ॥ ५८ ॥

एते रसाश्रिता रागा योज्याः सर्वत्र गीतके ।

प्रकरणार्थवशाद्वाऽपि, रागः पात्रानुरागतः ॥ ५९ ॥

॥ ६० ॥ ५ अथ पञ्चमं पाठ्य-काकु-प्रकरणम्

यज्ञ-पाठ्येषु कौकुः स्यात्तस्मात् स च ध्रुवां गतः ।

सामनि च लयाः प्रोक्ता इति सामान्य-लक्षणम् ॥ ६० ॥

॥ उच्चैः पाठ्यमृचां प्रादुरुच्चैः सांमनस्तु योजयेत् ।

उपाहु (?) यजुषां च स्तुतौ पाठ्य-विनिश्चयः ॥ ६१ ॥

॥ ६२ ॥ प्रेरेव्यष्य (?) कर्माणि शास्त्रे चम्पूष (?) कर्मणि ।

अत्रोदात्तः स्वरः कार्योऽनुदात्तो जपकर्मणि ॥ ६२ ॥

॥ टी० :— (६०।१०८) वक्ता के मनोगत भावों के अनुरूप वाक्यों के स्वरों का चलन मन्द्र-तारादि स्थानों में होता है, स्वरों के उच्चार भी मृदु, कठोर, कंपित आदि होते हैं। इस प्रकार के भावाभिव्यञ्जक वाक्योच्चार को 'काकु' संज्ञा दी गयी है। 'काकुर्व्यनेर्विकारः' (—क० ३।१०४ १२७)। एनाकर ने स्वरकाकु, रागकाकु, यद्यकाकु आदि कही है।

- पाठ्य-गुणानिदानीं वक्ष्यामः । तैवथा—  
 सप्तस्वराः, त्रीणि स्थानानि, ( चत्वारो वर्णाः ), द्विविधा  
 काकुः, षडलङ्काराः, षडङ्गानि, इति ॥ ६३ ॥  
 त्रीणि स्थानानि तूरः, कण्ठः, शिर इति ।  
 प्रातःसवनमुरसा, कण्ठयं माध्यंदिनं मतम् ॥  
 तृतीयं शिरसा योज्यं; त्रिविधं सवनं मतम् ॥ ६४ ॥  
 शारीर्यामथ वीणायां त्रिभ्यः स्थानेभ्य एव तु ।  
 उरसः शिरसः कण्ठात्स्वर-काकुः प्रवर्तते ॥ ६५ ॥  
 आभाषणं तु दूरस्थे शिरसा संप्रयोजयेत् ।  
 नातिदूरे च कण्ठे च ह्युरसा चैव पार्श्वतः ॥ ६६ ॥  
 उरसोदाहृतं वाक्यं शिरसोद्दीपयेद् युधः ।  
 कण्ठेन शमनं कार्यमर्थयोगेषु सर्वदा ॥ ६७ ॥  
 उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितः कम्पितस्तथा ।  
 वर्णाश्चत्वार एव स्युः पाठ्ययोगे च सर्वदा ॥ ६८ ॥  
 तत्र हास्य-शृङ्गारयोः स्वरितोदात्तैर्वीर-रौद्रान्ध्रुतेषूदात्त-  
 कम्पितैः करुण-वीभत्स-भयानकेष्वनुदात्त-स्वरितकम्पि-  
 तैर्वर्णैः ( पाठ्यमुपपादयेदिति ) । द्विविधा काकुः;  
 साकाङ्क्षा, निराकाङ्क्षा च ॥ ६९ ॥

11. मन्द्र-तारादि वाच्योच्चारण के अतिरिक्त शब्दोच्चारण के स्वरों में भ्रान्तिकूल चढ़-उतार भी करने में जाता है, यह चढ़ उतार स्वर-मीलन ( blending of notes ) के रूप में अर्थात् भांड के रूप में किया जाता है । हमारे संगीत में प्रयुक्त होनेवाले सभी गमक इस प्रस्तुत शब्दोच्चारण-जन्य स्वर मीलन के परिणाम रूप हैं ।

अनियुक्तार्थकं वाक्यं साकाङ्क्षमिति संज्ञितम् ॥

नियुक्तं यद्भवेद्वाक्यं निराकाङ्क्षं तदुच्यते ॥ ७० ॥

°( अत्र साकाङ्क्षं मन्द्रादि-तारान्तम् ) । अनियुक्तार्थमनिर्यातित-वर्णालङ्कारं कण्ठोरःस्थान-गतम् ।

निराकाङ्क्षं नाम नियुक्तार्थं निर्यातित-वर्णालङ्कारं शिरःस्थान-गतं मन्द्रादिना गतमिति ॥ ७१ ॥

°( अथ पडलङ्काराः । )

उच्चो दीप्तश्च मन्द्रश्च नीचो द्रुत-विलम्बितौ ।

पाठ्यस्यैते ह्यलङ्कारा लक्षणं च निबोधत ) ॥ ७२ ॥

उच्चो नाम शिरःस्थान..... ।

नीचो नाम उरःस्थान-गतो मन्द्रतरः स्वभावाभाषण-व्याधित-पथिश्रान्त-त्रस्त-पतित-मूर्च्छितादिषु ॥ ७३ ॥

ह्रस्वो नाम कण्ठ-गत-स्वरित-लज्जित-मन्मथ-भय-शीत-ज्वरार्त-त्रस्तात्यधिक-कार्य-वेदनादिषु । विलम्बितो नाम कण्ठ-स्थान-गतो मन्द्रः शृङ्गार-वितर्क-विचारामर्षा-सूयिताव्यक्तार्थ-प्रवाद-लज्जा-चिन्ता-विस्मित-तर्जनदोषा-नुकीर्तन-दीर्घ-रोग-निपीडनादिषु ॥ ७४ ॥

अत्रानुबन्ध्यां श्लोका भवन्ति—

उत्तरोत्तर-सञ्जल्पे परुषाक्षेपणे तथा ।

तीक्ष्ण-रुक्षाभिनयन आवेगे क्रन्दिते तथा ॥ ७५ ॥

iii. दाक्षिणात्य संगीत में 'दाह' आदि सात गमक प्रचलित हैं, जिनका उच्चार भी हिन्दुस्तानी गमकों से भिन्न है। राग-चित्रण तथा गमकों के उच्चार इनकी भिन्नता के कारण दाक्षिणात्य संगीत की भिन्नता प्रतीत होती है। राग-संगीत का रस-परिणाम निर्दिष्ट आलाप एवं गमकों के प्रचुर प्रयोग के ऊपर निर्भर है। तानवाजी के गायन में गमकों के प्रयोग के लिए अवकाश बहुत कम रहता है।

परोक्षावाहने चैव तर्जने त्रासने तथा ।  
 दूरस्थाभाषणे चैव तथा निर्भर्त्सनेषु च ॥ ७६ ॥  
 भावेष्वेतेषु हि नित्यं नाना-रस-समाश्रया ।  
 उच्चा दीप्ता द्रुता चैव काकुः कार्या प्रयोक्तृभिः ॥ ७७ ॥  
 व्याधिते च ज्वराते च क्षोभे च क्षुत्पिपासिते ।  
 विषमस्थे वितर्के च गाढ-शस्त्र-क्षते तथा ॥ ७८ ॥  
 गूढार्थ-वचने चैव चिन्तायां, तपसि स्थिते ।  
 मन्द्रा दीप्ता च कर्तव्या काकुर्नाट्य-प्रयोक्तृभिः ॥ ७९ ॥  
 मल्ले च मर्दने चैव भयाते, शीत-विभ्रुते ।  
 मन्द्रा द्रुता च कर्तव्या काकुर्नाट्य-प्रयोक्तृभिः ॥ ८० ॥  
 दृष्टानष्टानुसरण इष्टानिष्ट-श्रुतौ तथा ।  
 इष्टार्थारूपापने चैव चिन्ता-ग्रस्ते तथैव च ॥ ८१ ॥  
 उन्मादेऽसूयने चैव ह्युपालम्भे तथैव च ।  
 अव्यक्तार्थे प्रवादे च तथायोगे तथैव च ॥ ८२ ॥  
 उत्तरोत्तर-सञ्जल्पे, कार्यातिशय-संयुते ।  
 .....विस्तेषूपपाद्यते ॥ ८३ ॥  
 .....क्रोधे, दुःख-शोके तथैव च ।  
 विस्मयामर्षयोश्चैव हर्षेणपरिवादिते ॥  
 विलम्बिता च दीप्ता च काकुर्मन्द्रा तु वै भवेत् ॥ ८४ ॥  
 यानि सौम्यार्थ-युक्तानि सुख-भाव-कृतानि च ।  
 मन्द्रा विलम्बिता चैव तत्र काकुर्विधीयते ॥ ८५ ॥  
 यानि स्युस्तीक्ष्ण-रूक्षाणि दीप्त-मन्द्र-कृतेष्वपि ।  
 एवं नानाश्रयोपेतं पाठ्यं योज्यं मनीषिभिः ॥ ८६ ॥

°(अथ काकुनां रसेषु विनियोगो, यथा—)

हास्य-शृङ्गार-करुणेष्विष्टा काकुर्विलम्बिता ।

वीर-रौद्राद्भुतेषुच्चा दीप्ता चापि प्रशस्यते ॥ ८७ ॥

भयानके सवीभत्से द्रुता नीचा च कीर्तिता ।

एवं भाव-रसोपेता काकुः कार्या प्रयोक्तृभिः ॥ ८८ ॥

अथाङ्गानि—

विच्छेदोऽर्पणं विसर्गोऽनुबन्धो दीपनं प्रशमनमिति  
षडङ्गानि ॥ ८९ ॥ तत्र विच्छेदो नाम विरामकृतः ।

अर्पणं नाम लीलायमान-मधुर-वर्णेन स्वरेण पूर्य-  
दिव रसं यत्पठ्यते ॥ ९० ॥ विसर्गो नाम वाक्यापन्यासः ।

अनुबन्धो नाम पदान्तरेषु विच्छेदोऽनुशासनं वा ।

दीपनं नाम त्रिस्थान-शोभि वर्धमानस्वरं च ॥ ९१ ॥

प्रशमनं नाम तार-गतानां स्वराणामविस्वरेणावतरण-  
मिति । एषां रस-गत-प्रयोगः ॥ ९२ ॥

तत्र हास्य-शृङ्गारयोरर्पण-विच्छेद-दीपन-प्रशमन-युक्तं

(पाठ्यं कार्यम्) । वीर-रौद्राद्भुतेषु विच्छेद-दीपनार्पणा-  
नुबन्ध-बहुलं पाठ्यं प्रयोज्यम् ॥ ९३ ॥

वीभत्स-भयानकयोर्विसर्ग-विच्छेदार्पण-प्रायमिति ।

सर्वेषां चैवेतेषां मन्द्र-तारस्य व्यवस्थया त्रिस्थान-गतः  
प्रयोगः । मन्द्र-तारं<sup>३</sup> गच्छेत्ताराद्वा मन्द्रमिति ॥ ९४ ॥

एषां च द्रुत-मध्य-विलम्बितास्त्रयो लयास्तेषूपपाद्याः ।

तद्यथा—

हास्य-शृङ्गारयोर्मध्य-लयः । करुणे विलम्बितः ।

वीर-रौद्राद्भुत-वीभत्स-भयानकेषु द्रुत इति ॥ ९५ ॥



अथ विरामः—

अर्थ-समाप्तौ काव्यवशान्न छन्दोवशात् । तस्माद्  
दृश्यन्ते हि एक-द्वि-त्रि-चतुरक्षरा विरामाः ॥ ९६ ॥

यथा—

किं, गच्छ, मा विश, सुन्दुर्जन, वारितोऽसि ।

कार्यं त्वया न मम, सर्व-जनोपभुक्तः ॥ ९७ ॥

सूचासुवां शरगते (?) तथोपचारे ।

स्वल्पाक्षराणि हि पदानि भवन्ति काव्ये ॥ ९८ ॥

एवं विरामे प्रयत्नोऽनुष्ठेयः, यस्माद् विरामो पूर्व-  
निदर्शकः । तथा हि—

विरामेषु प्रयत्नस्तु नित्यं कार्यः प्रयोक्तृभिः ।

कस्माद्भिनयो ह्यस्मिन्नर्थपेक्षी यतः स्मृतः ॥ ९९ ॥

ये विरामाः स्मृता वृत्ते तेष्वलङ्कार इष्यते ।

समाप्तेऽर्थे, व्रीडिते च, व्यथिते..... ॥ १०० ॥

विलम्बिते विरामे च गुरोर्यत्र भरो भवेत् ।

भाषाणामर्थयोगेन विरतो विरमेद् बुधः ॥ १०१ ॥

एक-द्वि-त्रि-चतुः-पञ्च-षट्-कलं वा विलम्बनम् ।

पण्णां कलानां परतो विलम्बो न विधीयते ॥ १०२ ॥

अथवा कारणोपेतं प्रयोगं कार्यमेव च ।

समीक्ष्य वृत्ते कर्तव्या विरामा रस-भावतः ॥ १०३ ॥

ये विरामाः स्मृता वृत्त-काव्ये ( पाद- )-समुद्भवाः ।

वक्त्रस्यापि क्रमं प्राज्ञैः कार्यास्तेऽर्थ-रसाश्रयाः ॥ १०४ ॥

नापशब्दं पठेत्तज्ज्ञो भिन्नवृत्तेऽपि चैव हि ।  
 विश्रमेत्तु विरामेषु, दैन्ये काकुं न दीपयेत् ॥ १०५ ॥  
 व्यपेतं काव्यदोषैस्तु लक्षणं च गुणान्वितम् ।  
 खरालङ्कार-संयुक्तं पठेत्पाठ्यं यथाविधि ॥ १०६ ॥  
 अलङ्कार-विरामाश्च ये पाठ्ये संस्कृते स्मृताः ।  
 त एव सर्वे कर्तव्याः स्त्रीणां पाठ्ये तु संस्कृते ॥ १०७ ॥  
 एवमेतत्स्वरकृतं कला-काल-लयान्वितम् ।  
 दश-रूप-विधाने तु पाठ्यं योज्यं प्रयोक्तृभिः ॥ १०८ ॥

६ अथ षष्ठं गीतिप्रकरणम्

.....पङ्कज-मध्य-वर्णा (?) स्त्वेते प्रकीर्तिताः ।  
 अत्र वर्ण-शब्देन गीतिरभिधीयते । नाक्षर-विशेषाः ।  
 नापि षड्जादि-सप्त-स्वराः ॥ १०९ ॥ पद-गानेऽनिय-  
 मादेव स्वेच्छया प्रयुज्यन्ते; षड्जादि-स्वरान्.....  
 तानामप्यविशेषेण वावरोहादिधर्माणां प्रत्येव स्वोप-  
 लम्भात् । अतो वर्ण एव गीतिरवस्थितम् । साऽपि  
 चतुर्विधा ॥ ११० ॥

तथा चाह भरतः,

“ प्रथमा मागधी ज्ञेया, द्वितीया चार्धमागधी ।  
 संभाविता तृतीया च चतुर्थी पृथुला स्मृता ” इति ॥ १११ ॥  
 त्रि-निवृत्ता प्रगीता या गीतिः सा मागधी स्मृता ।  
 एतल्लक्षणसम्बन्धादर्धतश्चार्धमागधी ॥ ११२ ॥

F: (८९-१०८) B. १७११९-१२० Pb.

( ११२ ) B. २९१४९ pb, M. १७२ pb; ( ११३ ) B. २९१५०; M. १७४

Ad: (१११) B. २९१४८; M. १७१

संभाविता तथा गीतिर्गुर्वक्षर-समन्विता ।

पृथुलाख्या तथा नित्यं लब्धक्षर-समन्विता ॥ ११३ ॥

अनेन मागध्यर्धमागध्यौ, संभाविता, पृथुला च क्रमेण विवर्तिताः । दक्षिण-क्रमेण चित्र-वृत्तिर्दक्षिण-मार्गेषु प्रयोक्तव्या, इति दर्शयति; तथा च अन्यैरपि स्वीकृत-मेतत् ॥ ११४ ॥

यथा च—

“ द्विगुरुर्द्विनिवृत्ता च चित्रे वृत्तिस्तु मागधी ।

लघु-पुताकृता चैव तदर्धे चार्धमागधी ॥ ११५ ॥

संभाविता गुरुर्द्वित्तौ पृथुला दक्षिणे लघुः” इति ॥११६॥

आसां चतसृणामेव लब्धादि-परिकल्पिताः ।

भेदाः प्रत्येकमन्येऽपि दृश्यन्ते पञ्चधा यथा ॥ ११७ ॥

गीतिः पञ्च-विधा तु ता निगदिता शुद्धा च भिन्नाभिधा ।

गौडी स्याद्दृथु वेसरा निगदिता साधारणाख्या तथा ॥११८

शुद्धा स्याद्दृजुभिः स्वरैः सुललितैः श्लक्ष्णैस्तु वक्रैः

स्वरैर्भिन्ना, गौडभवा (सम-मृदुस्वरैः)-गीतिर्द्वितै-

वेसरा ॥ ११९ ॥

एतासामेव गीतीनां लक्षणैरुपलक्षिता ।

साधारणाभिधाना च तज्ज्ञेर्गीतिरिहेष्यते ॥ १२० ॥

७ अथ सप्तमं वायादि-स्वर-प्रकरणम्

अत्रैव स्वराणां साधारण्य-धर्म-प्राप्तावप्राप्ताव-

न्येऽपि चैतेषां धर्मा उच्यन्ते । यद्योक्तम्—

Ad: ( ११५-११६ ) अ. ११७-११८

( ११५-११६ ) अ. ११७-११८.

M: १ विविध २ हस्तादि ३ श्रुभिः ४ स च ५ स्वरेगीति इत्यर्थेसप्त

“ चतुर्विधत्वमेतेषां विज्ञेयं गान-योक्तृभिः ।

वादी चैवार्थं संवादी ह्यनुवादी विवादिनः” इति ॥१२१॥

तत्र यो यदांशत्वेनाभिमतोऽपवाद-विषयमुत्सृज्य ग्रहां-  
शापन्यासेषु प्रायः नियतावस्थितत्वेन प्रयोगे बाहुल्येन  
प्रयुक्तो ( भवति, स वादी, इत्युच्यते ) ॥ १२२ ॥

श्रुति-मण्डले च नव-त्रयोदशान्तरौ परस्परं संवादना-  
विति । तथैव द्विश्रुत्यन्तराः

षाडवौडविता अल्पत्वादिकरा विवादिन इति ॥१२३॥

शेषा वादि-संवादि-विवादिनः, सञ्चलितोद्धारणातुल्य-  
धर्मिणोऽनुवादिन इति ॥ १२४ ॥

यथा—

समौ नि १३ सपौ रिधौ गरी म १४ स्वरौ ।

धनी रिगौ विवादिनौ; चतुर्दशानुवादिनः ॥ १२५ ॥

यथा—

समौ मनी सनी सधौ रिपौ रिमौ....।

रिनी गधौ गपौ गमौ १५ पनी स्वरौ ॥ १२६ ॥

तथा च भरतः,

“ तत्र यो यत्रांशः स तत्र वादी । यद्योश्च नव-त्रयो-  
दशकं परस्परतः श्रुत्यन्तरं तावन्योन्य-संवादिनौ; यद्योश्च  
द्विश्रुतिकमन्तरं तौ विवादिनौ; शेषार्थो-नुवादिनः” इति  
॥ १२७ ॥ नन्वेवं काकल्यन्तर-स्वर-प्रयोगेषु श्रुत्युत्कर्षान्नायं  
वाद्यादि-प्रकारो नियमितुं शक्यत, इति सूत्रेणैवाह—

M: १-ए २ हवि- ३-दिनाए ४ तत्तेयोर्वद ५ निमनो- ६ स्व ७ प्रायसा  
८-ति- ९ प्रवादिन १०-भिः ११-धर्माणातु १२-मा १३-गो १४-नी १५ ध-  
१६ गमो गधौ १७ वादुवादिन

“पङ्ज-पञ्चमौ ऋपभ-धैवतौ गान्धार-निषादौ” (पङ्ज-  
मध्यमाविति पङ्जग्रामे) । मध्यमग्रामेऽप्येवमेव (पङ्ज-  
पञ्चम-वर्ज्य) १ पञ्चमर्षभयोश्चात्र-संवाद इति । ऋपभ-  
गान्धारौ धैवत-निषादाविति त्रिवादिनौ । वादि-संवादि-विवा-  
दिषु प्रस्थापितेषु शेषा अनुवादिन” इति ॥ १२८ ॥

अथमेवाधौ दत्तिलाचार्येणाप्युक्तः, यथा—

“योऽल्पन्त-बहुलो यत्र वादी वांशश्च तत्र सः ।  
सिधः संवादिनौ ज्ञेयौ त्रयोदश-नैवान्तरौ ॥ १२९ ॥  
अतोऽनुवादिनः शेषा ह्यन्तरौ तु विवादिनौ”  
इति ॥ १३० ॥

८ अथ अष्टमं गेयपदादि-प्रकरणम्

गेयपदं स्थितं पाठ्यमासीनं पुष्पगण्डिका ।  
प्रच्छेदकं द्विमूढकं प्रत्युक्तमुक्त-भाविके ॥ १३१ ॥  
चित्रं पदं सैन्धवकमुत्तमोत्तमकं तथा ।  
एते पाठ्य-विशेषास्तु शृङ्गार-रस-संश्रिताः ॥ १३२ ॥  
शुष्कं यदासनस्थे तु गीयते गायनैः पदम् ।  
वीणा-वर्षवादि-वाद्यं च तद्देयपदमुच्यते ॥ १३३ ॥  
पत्रावलं प्रिय गात्र शास्त्र (?)  
संतप्त-गात्र लविका गाय-संस्था (?) ॥

टी० १—(१२८) काकल्पान्तरक्षरों द्वारा ध्रुवन्तरों में परिवर्तन होता है । उसका स्पष्टीकरण करने हेतु नान्यदेव ने भरतउचन उद्धृत किया है, परन्तु फिर भी उससे मूल शंका का समाधान नहीं किया गया है ।

Ad: (१२९, १३०) D. १८, १९

F: (११७, ११८) D. २८१४, २५

M: १ पङ्ज- २ विवादिनैरादि ३ वाहुध ४-ही ५ मयाज्जरी ६ पत्तो ७ छन्तरी ८ छुर

यत्प्राकृतं पठति नायक-वर्णनाद्यम् ।  
 ख्यातं बुधैस्तदिह वैस्थितपाठ्य-संज्ञम् ॥ १३४ ॥  
 यत्प्रोषित-प्रियतमानुगुणैक-चिन्ता- ।  
 संवेग-मन्थर-विकारमिहास्यते च ॥  
 निश्चेष्ट-गात्र-पणवादिक-वाद्य-हीनम् ।  
 आसीनपाठ्यमिति तत्प्रवदन्ति सन्तः ॥ १३५ ॥  
 गाथादि-वृत्त-परिपेशल-पाठ्य-युक्तम् ।  
 तद्वस्तु-वाद्य-महितं किल गीयते यत् ॥  
 भाषा-विमिश्रित-विचित्र-पदाभिरामम् ।  
 रामा वनाश्रयवती खलु पुष्पगण्डा ॥ १३६ ॥  
 कान्ते कृता मम (?) विशेष-गृहीतमन्युः ।  
 शीतांशु-सीकर-हता कलहान्तरा च ॥  
 यां सज्जते प्रियकरे निरुदार-चित्ते ।  
 प्राच्छेदिकं तदिह मान-विभेदि चोक्तम् ॥ १३७ ॥  
 अनिष्टुर-श्लक्ष्ण-पदं, स्पष्ट-भावार्थ-वाचकम् ।  
 वर्ण्यमान-गुणोपेतं, वृत्तालङ्कार-योजितम् ॥ १३८ ॥  
 ताल-मान-कलयोपदेशोभितम् ।  
 वक्र-वाक्य-रचनो-विराजितम् ॥  
 वर्ण्यमान-गुण-कीर्तनोज्ज्वलम् ।  
 सैद्धितीयमिह मूर्खकं विदुः ॥ १३९ ॥

M: १ दिव्यपाठ्यमाद्य २ यत्तत् ३ पा ४ विक्रमिहा- ५ आसीद्वनपाठ ६ पाठ्य-  
 ७ मान्यं ८ सीतांशु ९ -ने १० यो ११ पिप्रवरे १२ नोठः १३ मे  
 १४ स्वभाव १५ क्ष १६ श्लक्ष्णो १७ -नु-गु- १८ प १९ स्वन्ता  
 २० सूचिकं २१ य २२ गी २३ तद्वि २४ -२-

संकेतैर्विहितैर्विना गतवती प्रेयस्य पाल.... (?) ।  
 ....सुवद्भुते प्राकृत-भाषया सपुरुषा (?) विप्रलब्धाङ्गना ॥  
 सुव्यक्तैः करणैरुदार-मधुरैरुद्भान्त-चेष्टैरिदम् ।  
 प्राहुः सैन्धवकं सदा रस-विधि-ज्ञानैक-दृक्षा जृनाः ॥ १४० ॥

या खण्डिता पैरुप-भेदक-वाक्य-युक्तम् ।  
 आरुण्यति प्रियतमं रुचिरायताक्षी ॥  
 तं बह्वभं प्रणयवत्पुरुषं पुनः सा ।  
 प्रत्युक्तमुक्तमिति तत्प्रवदन्ति सन्तः ॥ १४१ ॥  
 या नित्यं प्रिय-संगमोत्सुकमना कान्ता मनान्हुतम् (?) ।  
 तं सख्यादिभिर्लिख्य पत्र-फलके चेतो विनोदार्थिनी ॥  
 ब्रूते किं ऽ प्रौढ-मन्मथमुपालम्भेन यद्बल्लभम् ।  
 तच्चित्रं पर्दमामनन्ति सुधियः स्त्री-पाठ्य-योगे सदा ॥ १४२ ॥  
 स्वप्ने स्वोदित-बल्लभा सरभसं बाहू प्रसार्यात्मनः  
 कान्ताल्लिङ्गन-तत्परा सुमनसा संभोगमातन्वती ॥  
 गत्वा मन्मथ-विह्वला सुविविधान्भावानसौ चेष्टते ।  
 प्रागल्भ्यं गदितं स्वभाव-मधुरं तद्भाविकं भ्रातृकैः ॥ १४३ ॥

वृत्तैर्विचित्र-रचनैः समलङ्कृतं यद्  
 हेलादिभिः प्रकृतिजैः परिभूषितं च ।  
 स्वाधीन-नायकतया सुविचित्र-पाठ्यम्  
 अत्रोत्तमोत्तमकमाहुरिदं विदग्धाः ॥ १४४ ॥

इति श्रीमन्नान्यपति-विरचिते भरतभाष्ये  
 पञ्चमोऽलङ्काराध्यायः समाप्तः ॥



## शेष-टीका

### १ ऐतिहासिक समालोचन

i. इजिप्शियन्, सुमेरियन् तथा असीरियन् आदि संस्कृतियों का इतिहास उपलब्ध हुआ है। सुमेरियन्स के पश्चात् असीरियन् (असुर), खाब्डीयन् तथा बाबिलोनियन् साम्राज्य हुए। एशिया तथा इजिप्त पर इस प्रत्येक जाति ने राज्य किया होने से इनका घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहा है। ग्रीक ईरानी तथा भारतीय आर्य एक ही वंश के लोग थे तथा अतीत में एक साथ रहते थे। ग्रीक जाति एशिया से ही ग्रीस में गयी। ईरान में जो आर्य आये थे, उनकी एक शाखा ई० पू० १५००-७०० के मध्य में भारत में प्रविष्ट हुई, ये ही भारतीय आर्य कहलाते हैं। ई० पू० ५६० से ३३० तक इजिप्त, बाबिलोन, लीडिया, सीरिया, भारत इत्यादि देशों पर ईरानियों का अधिकार था; फलतः इजिप्शियन्, असुर तथा भारतीय संस्कृति का कुछ अंश ईरानियों ने ग्रहण किया। ई० पू० ६०० के पश्चात् ईरानियों ने सिंध तथा पंजाब पर अधिकार किया। डरायस के बहुखिन्न के शिलालेख (ई० पू० ५१७) में गान्धार प्रदेश का उल्लेख है। ई० पू० ३२६ तक ईरानियों की राजधानी तक्षशिला थी। सम्राट अशोक (ई० पू० २७२-२३२) के तीन शिलालेख में ग्रीक लिपि का तथा दो शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया है। खरोष्ठी लिपि ४०० ई० तक उत्तर भारत में चालू रही (Anc. Ind, p. 8) भारतीय स्थापत्य के स्तम्भ, सिंहस्तम्भ, घुमट, पर्वत-शिला-लेख, गुफाएँ इत्यादि ईरानी शैली के बिन्दू माने जाते हैं। ई० पू० ५२५ में ईरानियों ने इजिप्त जीत लिया और वहाँ एक शती तक राज्य किया। पश्चात् के साम्राज्यकर्ता अरबों ने ग्रीक तथा इरानी विद्या एवं कला अपना ली (H. Arab. M., p. 69, 151)। तत्पश्चात् २५० ई० की अवधि के समय ईरानी सासानियन् राजवंश ने पंजाब-सिंध पर शासन किया। द्वितीय शती में शकों का अधिराज्य मध्यभारत से मध्य-एशिया तक के प्रदेश पर प्रचलित हुआ। तत्पर्यन्त, प्राचीन ग्रीक, ईरानी तथा भारतीय संस्कृति का घनिष्ठ संबंध रहा (Cult. Art. Ind, p. 135-138; Hin. Cult, p. 48-49)। इन तीनों जातियों के वंश, धर्म तथा संस्कृति बहुतांश समान ही थीं, संगीत भी एकप्रमाण था।

ii. प्राचीन काल में ग्रीक और भारतीयों का निरूढ़ संबंध रहा। ग्रीक सम्राट् अलेक्जेंडर (ई० पू० ३२७) के समय से पंजाब ने अरबों का राज्य ८० ई० की अवधि तक रहा।

ग्रीक लोक मूलतः एशिया खण्ड के ही निवासी थे। उनके संगीत का इतिहास ई० पू० ७०० से उपलब्ध है। ग्रीकों के ग्राममूर्च्छनाओं के नाम तथा उनके कतिपय पाद्य पौर्वात्त ही थे (H. M., p. 13)। तीन ग्राम की तथा स्वर विभाग-रूप ध्रुतियों की कल्पना ग्रीक संगीत में प्रचलित थी। ग्रीक गान (modes) डोरियन्, लिडियन्, आयोनियन् इत्यादि एशिया मायनर के अन्तर्गत विभिन्न अंचलों के नामों से प्रसारित हुए थे। यमन शब्द आयोनियन् का संस्कृत पर्याय है।



iii. भरतनाट्यशास्त्र में यवन, शक तथा पल्लवों का निर्देश पाया जाता है:-

( १ ) 'शबरानां शकानां च तत्त्वभावश्च यो गणः । १७ । ५३ ॥'

( २ ) 'शकाश्च यवनाश्चैव पल्लवा बाल्हिकदयाः ॥ २१ । २०३ ॥'

यहां 'यवनाः' से ग्रीकों का निर्देश किया गया है; बाल्हिक से बाल्ख ( Bacteria ) का निर्देश है । शकों ने उत्तर एवं मध्यभारत पर १०० ई० से ३८० ई० तक राज्य किया । महाराजा कनिष्क ( ७८-१०१ ई० ) का साम्राज्य मध्य एशिया तक फैला हुआ था । ( मध्य एशिया में भारतीय कलाकृतिक के अवशेष उपलब्ध हुए हैं, जो छठीं से आठवीं शती तक के माने जाते हैं । ) आन्ध्र के राज्य कर्ता पल्लवों का समय चौथी शती से दसवीं शती तक का माना जाता है ( Anc. Ind, p. 189, 269 ) । इन सभी विदेशी लोगों के कालमान की तुलना करने से सिद्ध होता है, कि भरतनाट्यशास्त्र चतुर्थ शती के पश्चात् तथा मत्स्य के पूर्व लिखा गया था । भरतनाट्यशास्त्र द्वारा वर्णित ग्राममूर्च्छना-जाति रूप संगीत तथा प्राचीन ग्रीक संगीत दोनों में अत्यधिक साम्य है । मूर्तिकला में गान्धार-संप्रदाय प्रसिद्ध ही है ( Drama, p. 58 ) ।

iv. रामायण तथा महाभारत में 'मूर्च्छना', 'जाति' एवं विपंनी वीणा का उल्लेख है:-

१: ( अ ) 'पाट्ये गेये च मधुरं ग्रमाण्जिनिरन्वितम् ।

जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तन्त्री-लय समन्वितम् ॥'

( इ ) 'तौ तु गान्धर्वे तत्रज्ञौ स्नान-मूर्च्छन कोविदौ ॥' वा० का०

२: ( अ ) 'सप्ततन्त्री प्रथिता चैव वीणा ॥' च० प० १३६।१४।३।१३४ ॥

रामायण-महाभारत की जो प्रति आज उपलब्ध है, वह चौथी से चतुर्थ शती तक निर्माण हुई, ऐसा इतिहासकारों का कथन है ( Anc. Ind, 195 ) । महाभारत के 'हरिवंश प्रकरण में रोमन सिक्का 'दीनार' का उल्लेख है । दीनार सिक्के का प्रवेश भारत में प्रथम से द्वितीय शती तक हुआ । पाणिनीय व्याकरण में नटसूत्रों का उल्लेख है, किन्तु पाणिनि (चतुर्थ शती ई० पू०) से पतंजलि ( १४० ई० पू० ) के समय तक भरतसंगीत की परिभाषा का निर्देश किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है । अमरकोश में भरतकोश में 'मार्जना' संज्ञा उपलब्ध नहीं है ।

v. विदेशियों के साथ भारतीय संगीतादि कलाओं का संपर्क इसके बाद भारत के शौंगल राज्यकर्ताओं के समय में आया । अलाउद्दीन खिलजी का काल सांस्कृतिक आदानप्रदान के लिए अनुकूल नहीं था । मोगलों का शासन स्थिर होने के पश्चात् शांततामय तथा विलासप्रसुर युग में ही यह हुआ । विशेषतः सम्राट् अकबर के दरबार में एक दो अरबी ईरानी वादक और गायक नौकरी में थे, जो खोरासान, तमीज तथा टैन्सोवशानिया के निवासी थे ( De, -vido Trg. c., p. 21 ) तम्बूर, घिचक और कुजुर ईरानी वाद्यों के नाम प्रतीत होते हैं । सम्राट् अकबर के समय में अरबी-ईरानी संगीत का परिचय भारतीय संगीतरंगों को हुआ । किन्तु इस समय भारतीय संगीत अत्यधिक प्रगत हुआ था, भारतीय संगीत के राग, आलाप, ताल तथा ध्रुपदादि प्रबंध प्रगति के दिग्दर्शक पर पहुँच गये थे, तथा तानसेन, सूरदास जैसे श्रेष्ठ संगीतकार विद्यमान थे, जो भारतीय संगीत को ही गति बजाले थे ।

आईने-अकबरी तथा उर्दू ग्रंथों ने ग्राममूर्च्छनादि भारतीय पद्धति ही स्वीकृत की है । आज भी अरबी ईरानी संगीत भारतीय संगीत की तुलना में निम्न श्रेणी का तथा अविकसित ही है । अतः भारतीयों के लिए ईरानी संगीत में विशेष ग्रहणीय कुछ था ही नहीं । इस युग में कतिपय ईरानी-अरबी राग तथा तानों की कुछ छटाएँ भारतीय संगीतकारों ने अपनायी होंगी । प्रचलित टप्पा-गायन में अफगानी ईरानी तानों का कुछ ढंग पाया जाता है । तुरुष्क गौद, तुरुष्क तोडी इ० यावनी रागों का निर्देश रत्नाकर ने किया है । तत्पश्चात् के ग्रंथकार पुंडरीक विठ्ठल आदि ने इराक, माहूर आदि ईरानी रागों के निर्देश तुलना सहित किये हैं ।

vi. ग्रीक, ईरानी एवं भारतीय संगीत में कतिपय शास्त्रीय सजाएँ तथा वाद्यों के नाम मिलते-जुलते हैं । मध्ययुगीन अरबी संगीत की संज्ञाएँ ग्रीक, ईरानी तथा भारतीय संगीत से अज्ञीकृत की गयी हैं :- 'The most of the technical terms are borrowed from Persian and Indian Language' (M. Arab, p. 114-185) परन्तु अधिक खोज करने के बाद ज्ञात होता है कि ग्रीक, भारतीय आदि वाद्यों के नाम मूलतः सुमेरियन् और खाल्डियन् नामों से सम्बन्धित हैं । इस विषय में कई उदाहरण नीचे दे रहे हैं:-

( १ ) सुमेरियन् :- गिस् वन्; इजिप्शियन् :- वन्, बेन, बईन; संस्कृत :- वीणा, पिनाकी; सयामी :- पिन; फंघोडियन् :- किन; हिन्दी :- बीन

( २ ) सुमे० :- पन्-तुर ( जॉर्जियन्- ' तर ', ' थिर ' ; ' तुर ' = छोटा + पन् = धनुष्य )

जॉर्जियन् :- पंतुरी; आर्मेनियन् :- पंडीर; यूरोपियन् :- पॅन्डोरा; अरब-ईरानी :- तुंद्र

थ्रोक्स, भारतीय आर्य एवं प्राचीन ईरानी लोगों का आनुवंशिक तथा सांस्कृतिक बातों में पारस्परिक घनिष्ठ संबंध था, अतः इन जातियों की विद्या तथा कलाओं में बहुत कुछ समानता भी थी । इसके अतिरिक्त यह भी स्मरणीय है कि प्राचीन ग्रीस से मध्यएशिया एवं इजिप्त तक के जंचल में संगीत की एक ही प्रणाली प्रचलित थी । यह प्रणाली श्रुति-ग्राम मूर्च्छना के तत्वों पर ही आधारित थी, जिसकी विस्तृत चर्चा एक पृथक् विषय है ।

[ अ० = अरेबियन्; ई० = ईरानी; इंग० = इंग्लीश; असीरि० = असीरियन्; सं० = संस्कृत;

सुमे० = सुमेरियन्; जॉर्जि० = जॉर्जियन्; खाल्डी० = खाल्डीयन्; हिं० = हिंदी; अक्का० = अक्काडीयन्; ]

सुमे० :- इनिने ( इनिन - ए = सप्त + स्वर ); संस्कृत० :- वेणु

सुमे० :- ना; अक्काडियन्० :- ननु; अरबी :- ने, सुरनई; ई० :- नाई; अंबान = Bag-pipo  
हिं० :- शहनाई

सिरोयन्० :- तबिल; जॉर्जि० :- डबडबी; सं० :- दुन्दुभि

सुमे० :- अडब, अडप; अरबी :- तबल; मोरक्को :- डेफ; टिग्रू :- टोक; सं० :- डमरू; हिं० :- डफ  
खाल्डी० :- कन्ज ( इ० पृ० ११०० ); सं० :- करताल

( २ ) सुमे० :- शिमिटु = दो तारवाली; असीरियन् :- शडगु = तीन तारवाली ( वीणा );  
ईरानी :- शस्सार = छ. तारवाली; संस्कृत :- पिना; हिन्दी :- सितार; ग्रीक :- किथार;

लेटिन्-सिधाग; इटैलियन्-चितारा; स्पैनिश-गियारा; अँग्लोसॅक्सन्-विदेर;  
पुरानी इंग्लिश-सिट्टर्न; जर्मन्-क्विटर

सिधाग वीणा का प्रचार मध्ययुगीन यूरोप में अत्यधिक था। स्टिरियन् तथा बर्हेरियन  
आल्प्स पहाड़ के काश्तकारों का यह एक परंपरागत वाद्य था, जिसे भूमि पर आड़ी रखकर अंगुष्ठ,  
दूसरी और तीसरी अंगुलि से बजाया जाता था। अंगुष्ठ में एक छडा (ring) डालते थे। मुक्त  
तन्त्रियों पञ्च, षष्ठम तथा पंचम में मिलायी जाती थी। इस वीणा में पदे भी होते थे; किन्तु  
कई तन्त्रियों मुक्त प्रकार से और कई पदों पर दबा कर बजायी जाती थी (Catg. Mus, p. 168)।  
ग्रीकः-हार्मोनिया; सं०ः-ग्राम; अ०ः-मज्रा; ग्रीकः-टोनेइ; सं०ः-तान; अ०ः-तानिन; इ०ः-टोन  
ग्रीकः-जेनेरा; सं०ः-जाति; अ०ः-अज्ञात

सुमे०ः-करन (इ० पू० १३९०); अक्काः-करनु; इ०ः-करन; हिं०ः-कर्णा

सुमे०ः-सीम, सिमिट्ट, सीमु; सं०ः-रुंग

असैरि०ः-एरसेना; हिब्रुः-शमारू, शिम्रा; सं०ः-साम; इ०ः-साम (Psalm)

असैरि०ः-नगु; सं०ः-नाद; अ० नध्म (= स्वर); हिं०ः-नगरा

असैरि०ः-निगुत; सं०ः-गीत (संगीत); हिब्रुः-नगन (=वादन); अ०ः-घीना (गायन); निगिना  
(= वादन)

असैरि०ः-शिरू (hymn-मंत्र); सं०ः-ऋक्; इ०ः-शिर (गीत); अ०ः-शरू, शाहीर (गायक);  
[ सं०ः-ऋषी (गीत-रचनाकार)

सं०ः-पह्ज; अ०ः-सजाह, शुहाज, नियाह (सप्तक)

सं०ः-अंश; अ०ः-अक्षाम (= विभाग)

सं०ः-अवसान; अ०ः-अवज्ञान (measures)

सं०ः-किंनयी; अ०ः-किरन, किलार, किलौर; हिब्रु०ः-किन्नार; चिनीः-किन

ईरानीः-कमान; सं०ः-कमा

सं०ः-दारवी (वीणा); अः-उद (= लकड़ी, wood)

अ०ः-शाहरूद ( arch-lute ); हिं०ः-सरोद.

[ Ref: Sumer. Mus; Mus. Anc. Nat.; Catg. Mus.; Anc.  
Arab. M. Instru.; Hist. Fact. Arab.; Hist. Arab. Mus.; M. Instru.  
Arab.; Encycl. Mus., I. ]



## २ वेद-कालीन वीणा वीणाएँ

1. संगीत के विकास में वीणा-वाद्यों का सहकार अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण माना गया  
है। स्वरस्वान, स्वर-सप्तक, स्वर-सेवाद, गमक-क्रिया इत्यादि का उद्भव तथा ज्ञान तन्त्री-वाद्यों  
की सहायता से ही हो सकता है। स्वयम्भू स्वरों की अनुभूति भी तानपूर जैसी उच्च श्रेणी की  
विशिष्ट वीणा द्वारा ही हो सकती है। सारंग राग-संगीत का तथा संगीतशास्त्र का निर्माण होना  
बहुतांश तन्त्री-वाद्यों के विकास पर निर्भर है। विशिष्ट युग की वीणाएँ ज्ञात होने से उस युग के

संगीत का स्वरूप भी ज्ञात हो सकता है। संगीत का इतिहास अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि वाद्यों में प्रथम वाद्य वेणु निर्माण हुई।

ii. वेदों में वीणा के कुछ उल्लेख उपलब्ध हैं जो बहुत स्पष्ट नहीं हैं। वैदिक विद्वानों के मतानुसार 'कर्करी' एवं 'गर्गी' शब्द ऋग्वेद आदि में वीणा के अभिवाचक हैं ( ऋ० वे० २।४३।३; ८।६९।९; अ० वे० ४।३७।४ )। इसी प्रकार 'आडम्बर' शब्द वेद में वीणा के लिए प्रयुक्त हुआ है ( य० जा० सं० ३०।६।१९।२० )। प्राचीन वीणाओं की नामावली में 'जौदुंबरी' नाम नान्यभूपाल ने दिया है, जो आडंबर शब्द के सदृश है। इसके पश्चात् ऐतरेयारण्यक में वीणा का अस्पष्ट वर्णन उपलब्ध है:—

“अथ खल्वियं दैवी वीणा भवति, तदनुकृतिरसौ मानुषी वीणा भवति। यथाऽस्त्राः शिरः, एवममुष्याः शिरः; यथाऽस्त्रा उदरमेवमुष्या अम्भणम्; यथाऽस्यै जिह्वा, एवममुष्यै वादनम्; यथाऽस्त्रास्तन्त्रया, एवममुष्या अङ्गुलयः; यथाऽस्त्राः स्वराः, एवममुष्याः स्तराः; यथाऽस्त्राः स्पर्शाः, एवममुष्याः स्पर्शाः; यथा ह्येवेयं शब्दवती तर्ध्वती, एवमसौ शब्दवती तर्ध्वती, यथा ह्येवेयं लोमशेन चर्मणाऽपिहिता भवति, एवमसौ लोमशेन चर्मणाऽपिहिता।” इ०

— दे० आ० ३।२।५

वीणा के उपर्युक्त वर्णन से इतना ही ज्ञात होता है, कि इस वीणा में तन्त्रियाँ तथा बालवाला चमड़ा लगाया जाता था। तर्ध्व का अर्थ है—सुरास।

हार्प (कानून) वीणा बहुत ही प्राचीन वाद्य है। आठ तारवाला सुमेरियन् कानून का चित्र उपलब्ध हुआ, है, जो ई० पू० २००० वर्ष पहले का माना जाता है (Sumer. Mus. p. 86)। कानून-जातिक वीणाओं का प्रचलन प्राचीन एशिया माइनर, चीन तथा इजिप्त आदि देशों में अत्यधिक रहा; बाद में उसका प्रचार यूरप में भी हुआ। इजिप्त और एशिया माइनर में इस वीणा की प्राचीन मूर्ति तथा चित्र आदि विपुल उपलब्ध हुए हैं। भारत में अमरावती (द्वितीय शती), गोली गुंतुर (२५० ई०) सान्ची आदि के मंदिरों में तथा समुद्रगुप्त (३३०-३७० ई०) और कुमारगुप्त (४१४-४४५ ई०) की मुद्रा में हार्प की मूर्ति पायी गयी है।

iii. वैदिक 'आघाटी' का अर्थ एक लेखक ने वीणा किया है (मु०, पृ० ४३); किन्तु वैदिक पंडितों के मतानुसार इस शब्द का अर्थ मँजिरा होता है (अ० वे०, ४।३७।४; ऋ० वे०, १७।१४६।२)। 'तृणव' तथा 'वाण' शब्द वेदों में बोंसुरी के लिए प्रयुक्त हुए हैं (ऋ० वे०, १।८५।१०)। वीणा-वाचक वैदिक तथा संस्कृत शब्द आडम्बर तथा जौदुंबरी दोनों परिस्यन् 'तंबूर' शब्द से संबन्धित प्रतीत होते हैं। अर्थात् यह केवल शब्द-साम्य समझना चाहिये। कारण, वेदों में उपलब्ध निर्देश वीणा के विशिष्ट स्वरूप के बोधक नहीं है।

### ३ भरत-कालीन वीणाएँ

i. भरतमुनि ने ( १ ) चित्रा, ( २ ) विपंची, ( ३ ) कच्छरी तथा ( ४ ) घोषक, इन चार वीणाओं का निर्देश किया है; इनमें प्रथम की दो वीणाएँ मुख्य एवं कच्छरी और घोषक को उपवीणाएँ कही हैं:-

‘विपक्षी चैव चित्रा च दारवीध्वज-संज्ञिते ।

कच्छरी-घोषकादीनि प्रत्यङ्गानि तथैव च ॥ ३४ । १४ ॥’

वीणाओं का वर्णन करनेवाला एक ही श्लोक नाट्यशास्त्र में उपलब्ध है, उससे इतना ही ज्ञात होता है, कि चित्रा वीणा में सात तार और विपंची में नौ तार लगते थे तथा उनको क्रमशः उंगलियों से तथा ‘कोण’ से बजाया जाता था:-

‘सप्ततन्त्री भवेच्चित्रा, विपक्षी नवतन्त्रिका ।

कोणवाद्या विपक्षी स्याच्चित्रा चाङ्गुलि-वादन ॥ २९ । १३४ ॥’

नान्यभूपाल ने चित्रा का वादक मत्तंग को बताया है एवं मत्तंग का अपर नाम ‘त्रिक’ कहा है:-

‘चित्रोक्ता सप्ततन्त्रीभिर्वक्ति सप्त स्फुटान्स्वरान् ।

मत्तंगो वादकस्तस्मात्त्रैत्रिको नाम नापरः ॥’

नान्यभूपाल के कथनानुसार विपंची में काकत्यन्तरसहित सप्त स्वर के नौ तार होते थे:-

‘पूर्ण-स्वरैर्नियमिता या मातृस्तां तु तद्विदः ।

दारवी सप्त-तन्त्रीकामित्वाह मिथिलाधिपः ॥

येषा सप्तस्वरा, ग्रामः काकत्यन्तर-संयुतः ।

विदुस्तां नवतन्त्रीकां वीणा वीणाविदः सदा ॥’

रत्नाकर ने प्राचीन घोषकदि पाँच वीणाओं का वर्णन किया है, उससे प्रतीत होता है, कि घोषक, चित्रा विपंची आदि चार वीणाएँ सरोद-नातिक थीं, तथा पाँचवी मत्तकोकिला वीणा, कन्नन जाती की थी ।

ii. मत्तकोकिला में तीन सप्तक के लिए २१ तार थे, अतः वह मुख्य वीणा कहलाती थी:-

‘तन्त्रीणामेकविंशत्या कीर्तिता मत्तकोकिला ॥६।११२॥

मुख्येयं सर्व-वीणानां त्रिस्त्रानैः सप्तभिः स्वरैः ।

संपन्नत्वात्सदभ्यास्तु तस्याः प्रत्यङ्गमीरिताः ॥११३॥’

इक्कीस तारवाली वीणा का नाम नान्यदेन ने ‘महती’ दिया है और कहा है, कि इस दुनिया में नारद के अतिरिक्त अन्य कोई इस वीणा को बजा नहीं सकता:-

‘एकविंशतितन्त्रीया नारदोऽनादयन्मुनिः ।

अत्र व्यक्तास्त्रयो ग्रामाः स्फुटाः सप्त स्वरा अपि ॥

त्रि ग्राम स्वर-संख्यामिसृजन्नीभिर्नहतीति या ।’

नारदो वादकस्तथा नापरो दिवि विश्रुतः ॥

...एकविंशतितन्त्रीभिर्महती नारदीति च ॥

मत्तकोकिला का लौकिक नाम कल्लिनाथ ने 'स्वरमंडल' बताया है । मत्तकोकिला वीणा का नामनिर्देश तक नाट्यशास्त्र में नहीं है ।

iii. घोषक वीणा का नान्यदेवोक्त वर्णन संदिग्ध प्रतीत होता है । एकतन्त्री वीणा में उदात्त यह एक ही स्वर, द्वितन्त्री में उदात्त अनुदात्त मिल कर दो स्वर इत्यादि व्यवस्था उसने बतायी है । एकतन्त्री घोषक वीणा से एक उदात्त स्वर निकलता है तथा अनेक स्वर, ग्राम एवं मूर्च्छनाएँ भी पैदा होती हैं, ऐसा नान्यदेव ने लिखा है:—

( अ ) 'श्रुति-स्वर-ग्राम-मूर्च्छा-तान-मण्डल-योगिनी ।

विज्ञेया त्वेकतन्त्रीका केवलोदात्त-नामकः ॥'

( क ) 'श्रुतयोऽथ स्वरा मूर्च्छास्ताना नानाविधास्तथा ।

एकतन्त्रीक-वीणायां सर्वमेतत्प्रतिष्ठितम् ॥'

iv. नाट्यशास्त्र में आये हुए उल्लेखों से प्रतीत होता है, कि वादन-क्रिया के लिए विपंची तथा चित्रा दो ही वीणाओं का उपयोग होता था:—

( अ ) 'तत्र चित्रायां संक्षिप्त-वादनम्..... ।'

( क ) 'दक्ष्येऽधुना विपची-वाद्य-विधाने तु करणार्थम् ।'

.....द्वाभ्यामपि वीणाभ्यां गाने वा वादने वाऽपि ।'

( ख ) 'सप्ततन्त्री भवेच्चित्रा विपची नवतन्त्रिका ।

विपची कोण-वाद्या स्यात्, चित्रा चाद्गुलि-वादना ॥'

( ग ) 'एवं वेद्या तज्ज्ञैर्नाना-करणाश्रया विपची तु ।'

( घ ) 'धातुभिश्चित्र-वीणायां गुरुलम्बक्षरान्वितम् ।

वर्णालङ्कार-संयुक्तं प्रयोक्तव्यम् दुवैरथ ॥५।४३॥'

( च० ) 'तते कुतप-विन्यासो गायनः सरप्रियहः ।

वैपचिको वैणिकश्च वंश-वादस्तथैव च ॥२८।४॥'

नाट्यशास्त्र में आये हुए 'वैणिक' शब्द का अर्थ 'मत्तकोकिला-वादक', इस प्रकार एक विद्वान ने किया है; परन्तु इस अर्थ के लिए आवश्यक शास्त्राधार नहीं है ।

v. रामायण में 'मत्तकोकिला' वीणा का निर्देश आया है, ऐसा इन्हीं विद्वानों द्वारा कथन है; किन्तु रामायणान्तर्गत उक्त निर्देश वीणा के संबंध में नहीं हो कर कोकिला पक्षी के वर्णनात्मक है:—

'मारुतश्चलितस्थानैः पद्पदैरनुगीयते ॥ १४ ॥

मत्तकोकिल-संनारदैर्नर्तयश्चिव पादपान् ॥' इ०

— क्विप्किन्धा० १

गुन्दरकण्ठ में आशिम्वर वीणा का निर्देश है ( १०।४९ ) ।

१1 भरतमुनि ने वीणावादन की रीति बतायी है, उसमें 'घातु' याने मित्रराव का प्रासुर्य है। उदाहरणार्थ —

“द्विरथोत्तराघरान्तौ द्विरधरश्चोत्तर विरामश्च ॥२९॥८॥

द्विरथोत्तरावसानोऽधरादिरुत्तर मुखो द्विरधरश्च ॥” इ०

“ द्वित्रिधनुष्क-नेवकै प्रहारै क्रमशः शनै ।

आविद्ध घातुर्विज्ञेय सातुवन्ध विभूषित ॥६४॥” इ०

“ये प्रहार विशेषोऽथा स्तरस्ते घातमो मता ॥६१०५॥” स० १०

“आद्यौ मन्द्रमुच्चार्य पश्चात्तारोच्चारणम्, उत्तरावधारात्क ।

त्रिभार तार-स्तराभिघातात्, निरवर । ... एवो

लघु, गुरुद्वय च क्षेप । चतुर्भिर्लघुभिः तिकीर्ण ॥”

...“एकस्मिन्नेव स्वरं क्रमान् सर्वाभिः कृतो घातो रेफ । दक्षिण-कनिष्ठाम्यामघ सरत्, गच्छत्, स्थानत्रय एकस्वर तत्रो-न्नय यत्र पृथक् हन्ति, तदवमृष्टम् ॥ १४१-१४१ ॥” (-सि०)

१11 प्राचीन अनेक वीणाओं का एक साथ वादन किया जाता था, उस वादन को 'करण' सजा देते थे। इस प्रकार के सामूहिक वादन में भी मित्रराव का नाम ही सुन्यत होता था —

‘मुख्यो वैणिक मत्तरोकिल्या यदा लघुद्वय वाद्यते, तदा विपश्च्यादि-वीणाभिः तद्विधि गुरु कियते स प्रतिभेद ॥ ११४-१२३ ॥’ (-सि०)

उपरिनिर्दिष्ट मित्रराव के प्रकार देखने से सिद्ध होता है, कि भरत-वालीन विपश्च्यादि वीणाएँ कानूनजातिक ही थीं।

रत्नाकर ने घोषसादि चार वीणाएँ, यद्यपि सरोदजातिक बतायी हैं तथा 'कम्पासारणा' भी कही है, तथापि इस प्रकार की वादन क्रिया कानून पर भी समाहित हो सकती है —

(अ) 'स्वर स्थाने द्रुत कम्पा-सारण मूर्च्छना मता ॥ ८४ ॥'

(इ) 'सुद्ध सारणया तत्रो घर्षण ससितो मत ॥ ८६ ॥'

विपश्च्यादि के नियम में नान्यदेव तथा रत्नाकर ने जो रतिपय मतभेद निर्दिष्ट किये हैं, उनसे एव अन्य कारणों से प्रतीत होता है, कि विपश्च्यादि कानून-जातिक वीणाएँ नान्यदेव के समय-पूर्व ही प्रचार में कम हो गयी थीं।

१111 घोषक वीणा के वादन का भरतमुनि ने किंचित् उल्लेख किया है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि, विपश्चो एव बिना वीणा के स्वायी स्वर का परिशेषक घोषक की ध्वनि से होता था।

(अ) 'प्रतिपुष्का विशेषा बाधे सहेकतत्रि कृता ॥ २९ । ८० ॥ का० ७

इस वीणा का घोषक यह नाम भी सूचक है।

(इ) पाणिनीय शिक्षा में 'अलायु' वीणा का निर्देश है, उसमें 'निर्घोष' शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिससे अनुमान कर सकते हैं, कि अलायु वीणा का प्रयोग तानपुरे के समान होता होगा -

‘अलायु-वीणा-निर्घोषो दन्तगूल्य सराजुग ॥२३॥’

रशियन् लेखक डॉ० मरिचर्थ ने तानपुरे की ध्वनि को a pleasant humming sound इन शब्दों से वर्णित किया है। (Instiu, p 8) यही अभिप्राय 'निर्घोष' शब्द से व्यक्त होता है। अलायु शब्द से तुवी फल का अर्थ ध्वनित होता है। तानपुरे की पर्यायी सज्ञा 'तबोरा' यह भी तुवीफल की अभिवाचक होगी, यद्यपि अनेक प्रकार की 'तबूर' वीणा ईरानी अरबी संगीत में मध्ययुग में प्रचलित थी।

अलायु वीणा में दो तार लगाये जाते थे, ऐसा नान्यदेव का कथन है -

‘द्वितन्त्रीका तु विज्ञेया, अलायुपाङ्ग-सञ्ज्ञिता ।’ (-प० १८४)

अलायु वीणा का निर्देश अन्य ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं है।

(उ) तानपुरे को फ्रेन्च प० ग्रॉसो (J Grosset) ने तुवरु वीणा बतायी है (Encycl Mus I, p 346), किन्तु तुवरु वीणा का नाम ही कल्पित है।

१५ प० ग्रामिक सप्तक के शुद्ध गान्धार को दो श्रुति चढ़ा करने से प० ग्रामिक वीणा की म० ग्रामिक वीणा बन जाती थी, इस श्रुति को भरतमुनि ने 'द्विविधैक-मूर्च्छना' की विधि कही है। इस विधि से भी सिद्ध होता है कि, भरत-संगीत की वीणाएँ कानून-जातिक थीं तथा उनका स्वरक्षेत्र सकुचित था। अनेक वीणाओं के एक साथ वादन की रीति भरतयुग में 'करण' नाम से प्रचलित थी। प्रायः दो या तीन वीणाओं से दो या तीन सप्तक का क्षेत्र प्राप्त करने के लिये 'करण' का उपयोग किया जाता होगा। सकुचित वीणाओं के कारण ही भरत के समय में मूर्च्छना क्रिया अनिवार्य रूपेण आवश्यक थी। इसी प्रकार मूर्च्छना के संपूर्ण, षाड्ज, ओडव तथा सान्तरा या सकाकली प्रकार भरतसंगीत में पृथक् पृथक् मानते थे, इसमें भी मर्यादित क्षेत्रयुक्त कानून वीणा का कारण होना चाहिए।

तानीकरण में वर्जित स्वर का अर्थात् स्वर की तन्त्री का 'प्रवेश' प्रकर्ष द्वारा याने चढ़ा कर अथवा 'मार्दव' द्वारा याने उतार कर पूर्वोत्तर स्वर में कर लेने को कहा है, यह क्रिया कानून वीणा के लिये ही आवश्यक है। उसी प्रकार ग्रामों में मूर्च्छनाओं के अनेक द्विरुक्त प्रकार तथा तानों के गणितागत असरथ प्रकार सकुचित कानून पर अपेक्षित स्वरक्षेत्र स्थापन करने के प्रयत्न रूप पैदा हुए थे। ग्रीक संगीत में भी यही प्रचार था। (Artx, p 19 20, H, p 269]

५ वृ० दे० का वाचाध्याय लुप्त है। तान प्रकरण में मतग ने 'पन्पठितन्त्री' तथा 'शततन्त्री' इस प्रकार दो वीणाओं का निर्देश किया है -

‘तदेवमेतेषा स्वरणा तान विधान पट्पठितन्त्र्या शततन्त्र्या चोपलभ्यते ।’ (पृ० ३१)  
नान्यदेव का कथन है कि उक्त वीणाएँ यज्ञ संगीत में प्रयुक्त होती थीं -

‘अथै द्वादश तन्त्र्यश्च यासा तन्त्र्या शत तथा ।

ता सर्वा यज्ञयोगिन्यो वीणा वीणाद नामिका (१) ॥’



सितार जैसी पर्देवाली वीणाएँ, 'ख्याल'-प्रबंध तथा घाट वर्गीकरण आदि अमीर खुसरौ ने निर्माण किया, ऐसा कतिपय विद्वानों ने लिखा है। पर्देवाली वीणा का इतिहास पूर्व में ही देखा जा चुका है। फौज एवम् तराना सुमरो ने समत तथा तेतार के सहाय से बनाये, ऐसा आईने-अकबरी के लेखक ने लिखा है (Aq.-Tg. c., p. 204)। खुसरौ फारसी के कवि थे, जिस कारण से कौलक्याली गीतों की तर्ज बनाने के लिए उन्हें गायकों का सहाय लेना पड़ा होगा। एक पंडित ने उक्त 'समत' को संगीत 'समिति' तक बना डाली है। (५०, पृ० ३०८) वीणाएँ तथा घाट आदि पैदा करने का ध्येय आईने-अकबरी ने खुसरौ को नहीं दिया है। इस सम्बन्ध में मुस्लिम गायक-वादकों से सुनी हुई किंवदंतियों के आधार पर श्री शौरीन्द्रमोहन टागोर तथा कॅ० विल्हार्ड ने जो कुछ लिखा है, उससे वह अद्भुत कल्पनाओं का जन्म हुआ। तत्पश्चात् हिन्दुस्तानी संगीत शास्त्र के लेखकों ने एव हिन्दुस्तानी संगीत को विकृत दृष्टि से देखने-गले भारत-संगीत के भक्तों ने भी इन्हीं कपोल-कल्पित बातों को इतिहास मान कर दोहराने से इन बातों का अत्यधिक प्रचार हुआ। खुसरौ ने संगीत के कोई आविष्कार किये होते, तो उसने लिखी हुई आत्मचरित्र की पुस्तक में उसका उल्लेख वह अवश्य करता। परन्तु वैसा उल्लेख खुसरौ के आत्म चरित्र में उपलब्ध नहीं है (Khus., p. 238-240)।



### ४ वैज्ञानिक स्वर-सप्तक की सिद्धि

i. वैज्ञानिक (= पाश्चात्य) स्वर-सप्तकों की सिद्धि स्वयंभू (Harmonics) स्वरों के आधार पर की जाती है। किसी भी एक स्वर द्वारा उसके साथ अनेक स्वर सूक्ष्म रूप में पैदा होते हैं, जिनको उत्स्वर (Upper partials) नाम से पहचानते हैं। ऐसे अनेक उत्स्वरों में से द्वितीय स्वर तार पट्टन, तृतीय पंचम तथा षोडशवा उत्स्वर तीव्र गान्धार अम्भास से सुने जा सकते हैं। पट्टन के साथ वा इन स्वरों का मिश्रण, अनेक वैज्ञानिक कारणों से, सुननेवाले को सुखदायी प्रतीत होता है; अतः इन स्वरों को पट्टन के संवादी कहा जाता है। इनके आगे के उत्स्वर सातवाँ आदि बहुत ही कम सुनाई देते हैं। पट्टन के साथ होनेवाला पंचम का केवल एक ही संवाद शास्त्रकारों को अभी अभी तक ज्ञात था। पट्टन के साथ तीव्र गान्धार का संवाद भी कुछ अंश तक होता है, यह सिद्धान्त जर्मन् विज्ञानवेत्ता हेल्महोल्ट्ज (१८६२ ई०) ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध करने के पश्चात् उन्नीसवीं शती में ही सर्वमान्य हुआ।

वैज्ञानिक स्वरशास्त्र के अनुसार आधारस्वर पट्टन द्वारा प्रथमतः स्वर-त्रितय का ज्येष्ठ सूत्र सिद्ध होता है, एवं तत्पश्चात् उसके प्रमुख सहायी पंचम का स्वर-सूत्र सिद्ध होता है। 'मध्यम' नामक स्वर पट्टन-पंचम का ही व्यत्यास रूप है, अर्थात् सा-प यही म-सा है। स्वर-सप्तक के निर्मिति में उक्त तीन प्रमुख स्वरों के त्रि-स्वर-सूत्र कारण हैं, जो इस प्रकार हैं:—

सा → ग → प  
 ग → प → मा  
 प → नि → रे

(इ) पाणिनीय शिक्षा में 'अलाबु' वीणा का निर्देश है, उसमें 'निर्घोष' शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिससे अनुमान कर सकते हैं, कि अलाबु वीणा का प्रयोग तानपुरे के समान होता होगा -

‘अलाबु-वीणा-निर्घोषो दन्तमूल्य स्वरातुग ॥२३॥’

रशियन् लेखक डॉ० मीरवर्थ ने तानपुरे की ध्वनि को a pleasant humming sound इन शब्दों से वर्णित किया है। (Instru, p 8) यही अभिप्राय 'निर्घोष' शब्द से व्यक्त होता है। अलाबु शब्द से तुबी फल का अर्थ ध्वनित होता है। तानपुरे की पर्यायी सजा 'तबोरा' यह भी तुबीफल की अभिवाचक होगी, यद्यपि अनेक प्रकार की 'तबूर' वीणा ईरानी अरबी सगीत में मध्ययुग में प्रचलित थी।

अलाबु वीणा में दो तार लगाये जाते थे, ऐसा नान्यदेव का कथन है -

‘द्वितन्त्रीका तु विज्ञेया, अलाबूपाङ्ग-सजिता ।’ (-प० १८४)

अलाबु वीणा का निर्देश अन्य ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है।

(उ) तानपुरे को फ्रेन्च प० ग्राँसो (J Grosse) ने तुवरु वीणा बताया है (Enoyol Mus I p 346), कि तु तुवरु वीणा का नाम ही कल्पित है।

1X प० ग्रामिक ससक के शुद्ध गान्धार को दो श्रुति चढ़ा करने से प० ग्रामिक वीणा की म० ग्रामिक वीणा बन जाती थी, इस श्रुति को भरतमुनि ने 'द्विविधैक मूर्च्छना' की विधि कही है। इस विधि से भी सिद्ध होता है कि, भरत-सगीत की वीणाएँ कानून-जातिक थीं तथा उनका स्वरक्षेत्र संकुचित था। अनेक वीणाओं के एक साथ वादन की रीति भरतयुग में 'करण' नाम से प्रचलित थी। प्रायः दो या तीन वीणाओं से दो या तीन सप्तक का क्षेत्र प्राप्त करने के लिये 'करण' का उपयोग किया जाता होगा। संकुचित वीणाओं के कारण ही भरत के समय में मूर्च्छना क्रिया अनिवार्य रूपेण आवश्यक थी। इसी प्रकार मूर्च्छना के संपूर्ण, षड्व, ओडव तथा सान्तरा या सकाकली प्रकार भरतसगीत में पृथक् पृथक् मानते थे, इसमें भी मर्यादित क्षेत्रयुक्त कानून वीणा का कारण होना चाहिए।

तानीकरण में वर्जित स्वर का अर्थात् स्वर की तन्त्री का 'प्रवेश' प्रकर्ष द्वारा याने चढ़ा कर अथवा 'मार्दन' द्वारा याने उतार कर पूर्वोत्तर स्वर में कर लेने को कहा है, यह क्रिया कानून वीणा के लिये ही आवश्यक है। उसी प्रकार ग्रामों में मूर्च्छनाओं के अनेक द्विरुक्त प्रकार तथा तानों के गणितागत असरय प्रकार संकुचित कानून पर अपेक्षित स्वरक्षेत्र स्थापन करने के प्रयत्न रूप पैदा हुए थे। मीरु सगीत में भी यही प्रचार था। (Arta, p 19 20, H, p 26J]

२ च० ६० का वायाध्याय लुप्त है। तान प्रकरण में मतग ने 'पद्मद्वितन्त्री' तथा 'शततन्त्री' इस प्रकार दो वीणाओं का निर्देश किया है -

‘तदेवमेनेया सरणां तान निधान पद्मद्वितन्त्री-यां शततन्त्र्यां चोपलभ्यते ।’ (पृ० ३१)  
नान्यदेव का कथन है कि उक्त वीणाएँ यज्ञ सगीत में प्रयुक्त होती थीं -

‘अथै द्वादश तन्त्र्यां यातां तन्त्र्या शत तथा ।

ता र्थं य इयोमि यो दोष्य वीणाद-नामिन्न (I) ॥’

सितार जैसी पर्देवाली वीणाएँ, 'स्याल' प्रबंध तथा थाट वर्गीकरण आदि अमीर खुसरौ ने निर्माण किया, ऐसा कतिपय विद्वानों ने लिखा है। पर्देवाली वीणा का इतिहास पूर्व में ही देखा जा चुका है। फौल एवम् तराना खुसरौ ने समत तथा सेतार के सहाय से बनाये, ऐसा आर्द्दिने-अकबरी के लेखक ने लिखा है (Aa.-Tg. c, p. 204)। खुसरौ फारसी के कवि थे, जिस कारण से कौलकञ्चाली गीतों की तर्ज बनाने के लिए उन्हें गायकों वा सहाय लेना पड़ा होगा। एक पंडित ने उक्त 'समत' को संगीत 'समिति' तरु बना डाली है। (४०, पृ० ३०८) वीणाएँ तथा श्याट आदि पैदा करने का श्रेय आर्द्दिने-अकबरी ने खुसरौ को नहीं दिया है। इस सम्बन्ध में मुस्लिम गायक-नादकों से सुनी हुई क्रिंवर्दतियों के आधार पर श्री शैरीन्द्रमोहन टागोर तथा कॅ० विलार्ड ने जो कुछ लिखा है, उससे यह अद्भुत कल्पनाओं का जन्म हुआ। तत्पश्चात् हिन्दुस्तानी संगीत शास्त्र के लेखकों ने एव हिन्दुस्तानी संगीत को विकृत दृष्टि से देखनेवाले भारत-संगीत के भक्तों ने भी इन्हीं कपोलकल्पित बातों को इतिहास मान कर दोहराने से इन बातों का अत्यधिक प्रचार हुआ। खुसरौ ने संगीत के कोई आविष्कार किये होते, तो उसने लिखी हुई आत्मचरित्र की पुस्तक में उद्यम उल्लेख वह अनश्य करता। परन्तु वैसा उल्लेख खुसरौ के आत्म-चरित्र में उपलब्ध नहीं है (Khus., p. 238-240)।



### ४ वैज्ञानिक स्वर-सप्तक की सिद्धि

i. वैज्ञानिक (= पाश्चात्य) स्वर-सप्तकों की सिद्धि स्वयंभू (Harmonics) स्वरों के आधार पर की जाती है। किसी भी एक स्वर द्वारा उसके साथ अनेक स्वर सूक्ष्म रूप में पैदा होते हैं, जिनको उत्स्वर (Upper partials) नाम से पहचानते हैं। ऐसे अनेक उत्स्वरों में से द्वितीय स्वर तार पड्ज, तृतीय पंचम तथा षोडश उत्स्वर तीव्र गान्धार अभ्यास से सुने जा सकते हैं। पड्ज के साथ वा इन स्वरों का मिश्रण, अनेक वैज्ञानिक कारणों से, सुननेवाले को सुखदायी प्रतीत होता है; अतः इन स्वरों को पड्ज के संवादी कहा जाता है। इनके आगे के उत्स्वर सातवाँ आदि बहुत ही कम सुनाई देते हैं। पड्ज के साथ होनेवाला पंचम का केन्द्र एक ही संवाद शास्त्रियों को अभी अभी तरु प्राप्त था। पड्ज के साथ तीव्र गान्धार का संवाद भी कुछ अंश तक होता है, यह सिद्धान्त जर्मन विज्ञानवेत्ता हेल्महोल्ड्ज (१८६२ ई०) ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध करने के पश्चात् उन्नीसवीं शती में ही सर्वमान्य हुआ।

वैज्ञानिक स्वरशास्त्र के अनुसार आधारस्वर पड्ज द्वारा प्रथमतः स्वर-त्रितय का ज्येष्ठ स्वर सिद्ध होता है, एवं तत्पश्चात् उसके प्रमुख सप्तमी पंचम का स्वर-सूत्र सिद्ध होता है। 'मध्यम' नामक स्वर पड्ज-पंचम का ही व्यत्यास रूप है, अर्थात् सा-प यही म-सा है। स्वर-सप्तक के निर्मिति में उक्त तीन प्रमुख स्वरों के त्रि-स्वर-सूत्र कारण हैं, जो इस प्रकार हैं:—

सा → ग → प  
 ग → ष → सा  
 प → नि → रे

(इ) पाणिनीय शिक्षा में 'अलावु' वीणा का निर्देश है, उसमें 'निर्घोष' शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिससे अनुमान कर सकते हैं, कि अलावु वीणा का प्रयोग तानपुरे के समान होता होगा :-

‘अलावु-वीणा-निर्घोषो दन्तमूल्यः स्वरनुगः ॥२३॥’

रशियन् लेखक डॉ० मीरचर्य ने तानपुरे की ध्वनि को a pleasant humming sound इन शब्दों से वर्णित किया है। (Instr., p. 8) यही अभिप्राय 'निर्घोष' शब्द से व्यक्त होता है। अलावु शब्द से तुंबी फल का अर्थ ध्वनित होता है। तानपुरे की पर्यायी संज्ञा 'तंबोरा' यह भी तुंबीफल की अभिवाचक होगी, यद्यपि अनेक प्रकार की 'तंबूर' वीणा ईरानी-अरबी संगीत में मध्ययुग में प्रचलित थी।

अलावु वीणा में दो तार लगाये जाते थे, ऐसा नान्यदेव का कथन है:-

‘द्वितन्त्रीका तु विज्ञेया, अलावुपाङ्ग-संज्ञिता ।’ (-प० १८४)

अलावु वीणा का निर्देश अन्य ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं है।

(उ) तानपुरे को फ्रेन्च पं० ग्रॉसो (J. Grosset) ने तुंबरू वीणा बताया है (Encycl. Mus. I, p. 346), किन्तु तुंबरू वीणा का नाम ही कल्पित है।

ix. प० ग्रामिक सप्तक के शुद्ध गान्धार को दो ध्रुति चढ़ा करने से प० ग्रामिक वीणा की म० ग्रामिक वीणा बन जाती थी, इस ध्रुति को भरतमुनि ने 'द्विविधैकमूर्च्छना' की विधि कही है। इस विधि से भी सिद्ध होता है कि, भरत-संगीत की वीणाएँ कानून-जातिक थीं तथा उनका स्वरक्षेत्र संकुचित था। अनेक वीणाओं के एक साथ वादन की रीति भरतयुग में 'करण' नाम से प्रचलित थी। प्रायः दो या तीन वीणाओं से दो या तीन सप्तक का क्षेत्र प्राप्त करने के लिये 'करण' का उपयोग किया जाता होगा। संकुचित वीणाओं के कारण ही भरत के समय में मूर्च्छना-क्रिया अनिवार्य रूपेण आवश्यक थी। इसी प्रकार मूर्च्छना के संपूर्ण, षडव, ओडव तथा सान्तरा या सक्कली प्रकार भरतसंगीत में पृथक् पृथक् मानते थे, इसमें भी मर्यादित क्षेत्रयुक्त कानून वीणा का कारण होना चाहिए।

तानीकरण में वर्जित स्वर का अर्थात् स्वर की तन्त्री का 'प्रवेश' प्रकर्ष द्वारा याने चढ़ा कर अथवा 'मार्दव-' द्वारा याने उतार कर पूर्वोत्तर स्वर में कर लेने को कहा है, यह क्रिया कानून वीणा के लिये ही आवश्यक है। उसी प्रकार ग्रामों में मूर्च्छनाओं के अनेक द्विरुक्त प्रकार तथा तानों के गणितागत असंख्य प्रकार संकुचित कानून पर अपेक्षित स्वरक्षेत्र स्थापन करने के प्रयत्न-रूप पैदा हुए थे। ग्रीक संगीत में भी यही प्रचार था। (Artx., p. 19-20; H., p. 269]

x. च० दे० का वाधाध्याय लुप्त है। तान प्रकरण में मतंग ने 'पट्टपठितत्री' तथा 'शततन्त्री' इस प्रकार दो वीणाओं का निर्देश किया है:-

‘तदेवमेतेषा स्वराणा तान विधाने पट्टपठितन्त्र्यां शततन्त्र्यां चोपलभ्यते ।’ (पृ० ३१)

नान्यदेव का कथन है कि उक्त वीणाएँ यज्ञसंगीत में प्रयुक्त होती थीं :-

‘अष्टौ द्वादश तन्त्र्यश्च यासां तन्त्र्याः शतं तथा ।

ताः सर्वा यज्ञयोगिन्यो वीणा वीणाद-नामिका (?) ॥’

सितार जैसी पर्देवाली बीणाएँ, 'ख्याल' प्रबंध तथा घाट वर्गोंकरण आदि अनौर खुसरो ने निर्माण किया, ऐसा कतिपय सिद्धान्तों ने लिखा है। पर्देवाली बीणा का इतिहास पूर्व में ही देखा जा चुका है। कौल एवम् तराना खुसरो ने समत तथा तैतार के सहाय से बनाये, ऐसा आईने अक्बरी के लेखक ने लिखा है (Aa-Tg c, p 204)। खुसरो फारसी के कवि थे, जिस कारण से कौलक्याली गीतों की तर्ज बनाने के लिए उन्हें गायकों का सहाय लेना पड़ा होगा। एक पद्य ने उक्त 'समत' को संगीत 'समिति' तक बना डाली है। (इ०, पृ० ३०८) बीणाएँ तथा घाट आदि पैदा करने का श्रेय आईने-अक्बरी ने खुसरो को नहीं दिया है। इस सम्बन्ध में मुस्लिम गायक-वादकों से सुनी हुई किंवदंतियों के आवार पर श्री शौरीन्द्रमोहन टागोर तथा फ्रॉं विल्डार्ड ने जो कुछ लिखा है, उससे यह जट्टत बल-गाओं का जन्म हुआ। तत्पश्चात् हिन्दुखानी संगीत शास्त्र के लेखकों ने यह हिन्दुखानी संगीत को विद्वत दृष्टि से देखनेवाले भारत-संगीत के भक्तों ने भी इन्हीं कपोल-कल्पित बातों को इतिहास मान कर दोहराने से इन बातों का अत्यधिक प्रचार हुआ। खुसरो ने संगीत के कोई आविष्कार किये होते, तो उसने लिखी हुई आत्मचरित्र की पुस्तक में उसका उल्लेख वह अवश्य करता। परन्तु वैसे उल्लेख खुसरो के आत्म चरित्र में उपलब्ध नहीं है (Khus, p 238-240)।



### ४ वैज्ञानिक स्वर-सप्तक की सिद्धि

i. वैज्ञानिक (= वाद्यात्म्य) स्वर-सप्तकों की सिद्धि स्वयम् (Harmonics) स्वरों के आधार पर की जाती है। किसी भी एक स्वर द्वारा उसके साथ अनेक स्वर सूक्ष्म रूप में पैदा होते हैं, जिनको उत्स्वर (Upper partials) नाम से पहचानते हैं। ऐसे अनेक उत्स्वरों में से द्वितीय स्वर तार पञ्च, तृतीय पचम तथा चौथवा उत्स्वर तीव्र गान्धार अन्त्यास से सुने जा सकते हैं। पञ्च के साथ का इन स्वरों का मिश्रण, अनेक वैज्ञानिक कारणों से, सुननेवाले को सुखदायी प्रतीत होता है, अतः इन स्वरों को पञ्च के सहायी कहा जाता है। इनके आगे के उत्स्वर सातवाँ आदि बहुत ही कम सुनाई देते हैं। पञ्च के साथ होनेवाला पचम का केवल एक ही सवाद शास्त्रकारों को अभी अभी तक ज्ञात था। पञ्च के साथ तीव्र गान्धार का सवाद भी कुछ अज्ञात तक होता है, यह सिद्धान्त जर्मन विज्ञानवेत्ता हेल्महोल्ट्ज (१८६२ ई०) ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध करने के पश्चात् उन्नीसवीं शताब्दी में ही सर्वमान्य हुआ।

वैज्ञानिक स्वरशास्त्र के अनुसार आधारस्वर पञ्च द्वारा प्रथमतः स्वर-त्रितय का ज्येष्ठ सूत्र सिद्ध होता है, एवं तत्पश्चात् उससे प्रमुख सहायी पचम का स्वर-सूत्र सिद्ध होता है। 'मध्यम' नामक स्वर पञ्च-पचम का ही व्यत्यास रूप है, अर्थात् सा-प यही म-सा है। स्वर-सप्तक के निर्मित में उक्त तीन प्रमुख स्वरों के त्रि-स्वर-सूत्र कारण हैं, जो इस प्रकार हैं:—

सा → ग → प  
 म → प → सा  
 प → नि → रे

इसको वैज्ञानिक म० माग कह सकते हैं। उपरोक्त 1 और 2 में सरसू + तथा - चिन्हों द्वारा निर्दिष्ट किये हैं। ज्येष्ठ तृतीय (=स-ग) + चिन्ह द्वारा एव कनिष्ठ तृतीय (=स-गु) - चिन्ह द्वारा व्यक्त किये गये हैं।

ii वैज्ञानिक सप्तकों की निरोप आवश्यकता हार्मनी संगीत के लिए मानते हैं, तथापि राग-संगीत (melody) में भी वैज्ञानिक सप्तकों का ही प्रयोग अनिष्ट अर्थात् सुरीला होता है, ऐसा सरवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादन है -

'It has been found that, melody, or the pleasing succession of notes, required the choice of notes which are now known to be related by simple frequency ratios' (Sound, p, 193)

iii पञ्जापरित सप्तक में प-भावी ० १८२ रि (=रि<sub>३</sub>) को श्राव्य माननेवाले एक दो पाश्चात्य पंडित भी हैं। उदाहरणार्थ कॉर्नेरूप ने लिखा है -

'I insist my perpendicular tonal zone as described as to make it clear at once that  $d = \frac{19}{9}$  and not  $d = \frac{9}{5}$ , (Acoust, p 24)

१० ऋषभ मध्यमाधारित श्राव्य करने के लिए हेल्महोल्ड्ज ने भी कहा है (H, p 274)। वैज्ञानिक सप्तक में रि-ध-सवाद का अभाव है तथा रि-म सर-तर यद्यत् कनिष्ठ-तृतीय (=सगु) नहीं है, यह उसका वैगुण्य मानना पड़ेगा, किंतु साथ साथ यह भी कहना पड़ेगा कि यह सप्तक ही अत्यधिक सुसवादी है -

'But even in the modern scale all the intervals are not perfectly consonant. It is true that, as we have seen, it lends itself easily to certain naturally harmonious and pleasant combinations, and this is probably all that can be said in its favour'. (Philos, p 136-137)

ऐसे ऐसे मत-प्रदर्शन से यह नहीं माना जाय कि वैज्ञानिक सप्तक के ज्येष्ठ-कनिष्ठ-सूगदि सिद्धान्त निर्बल अथवा मतभेदयुक्त हैं। इस सवध में उपरोक्त लेखकों ने ही लिखा है कि-—

"Colour-blind people are able to perceive but one or two primary colours. The 'interval deafness' of the Pythagoreans rendered them able to hear only two primitive intervals — the Octave and the Fifth. (Acoust, p 24)

iv यूरप में हार्मोनिस (=सवधु) सरो की कल्पना हेल्महोल्ड्ज ने दो श्रुती पहले उद्भूत हुई थी, जो प्रत्येक टेगक मसप्रे (१६३६ ई०) और वूल्फहाउस (१८३५ ई०) आदि लेखकों के लेखों में उपरन्ध होती है। परंतु सामीतिक सरो थी उत्पत्ति, सर-सवाद, सर-विवाद, धरगेन्द्रिय द्वारा सर-महण, इत्यादि क्रियाओं में मूलतः हार्मोनिस ही हैं, यह शैथिलिक आविष्कार और वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा हेल्महोल्ड्ज ने ही सिद्ध किया। मान्ये यह महान् कार्य के लिए ही भगवान् ने उनको पैदा किया था, जैसा एक विद्वान् ने लिखा है -

“It was reserved for Helmholtze to solve the problem (p. 38); This is the great discovery of Helmholtz. In its complete form it is entirely new; it solves a problem of the greatest interest; the demonstration is most conclusive and admirable, and we are justified in pronouncing it perhaps the greatest advance in musical acoustics that has been made since the study of sound assumed a scientific form.” (Philm., p. 47)

हेल्महोल्त्ज़ के इन आविष्कारों ने मानो, संगीत की दुनिया को एक प्रचंड आघात दे कर विरानिद्रा में से जागृत किया ! हेल्महोल्त्ज़ के आविष्कार ग्रंथरूप में प्रथम १८३६ ई० में प्रसिद्ध हुए, उस समय तक संगीतशास्त्र में पडज के मध्यम, पंचम तथा तार पडज यह तीन ही संवाद माने जाते थे ।

v. भारतीय संगीतशास्त्रकारों ने मध्यम और पंचम दो ही संवाद कहे हैं । उन्होंने ने स्वरको अनुष्णनात्मक कहा है; यह अनुष्णन ही हार्मोनिक्स—युक्त होता है एवं सांगीतिक स्वरों के लिए ऐसे अनुष्णन की विशेष आवश्यकता होती है । आवाज के इसी गुण का निर्देश रत्नाकर ने ‘अनुष्वनि’ संज्ञा द्वारा किया भी है :—

“तारानुष्वनि-माधुर्य-रक्ति-गाम्भीर्य-मार्दवैः ।

घनता-क्लिम्बता-कान्ति-प्राचुर्यादि-गुणैर्युतम् ॥ ३।८३ ॥

तत्सुशारीरमित्युक्तं लक्ष्य-लक्षण बोधिवैः ॥ ८४ ॥”

‘कुशारीर’ अर्थात् खरब आवाज का एक लक्षण रत्नाकर ने ‘अनुस्वान-विहीनत्व’ बतलाया है । विज्ञान के अभाव के कारण हमारे संगीतशास्त्रकार इससे आगे प्रगति न कर सके इसमें उनका दोष नहीं है । तानपुरे का प्रचलन होने के पश्चात् भी गत पचास—साठ वर्षों के पूर्व तक तानपुरे में सुनाई देते स्वयंभू गान्धार आदि का पता तक हमारे गायकों को चला नहीं था, यद्यपि तानपुरे की विशिष्ट गूँज को वे चाहते थे तथा उसका महत्त्व समझते थे । तानपूरा आदि वाद्यों के स्वयंभू स्वरों को यथावत् समझनेवाले तथा ऐसे स्वरों का आविष्कार एवं गायन में प्रयोग करनेवाले प्रथम गायक स्व० अवदुलकरीमख़ाँसाहब हुए । निषाद का तानपूरा भी इन्हींका आविष्कार है । स्वयंभू स्वरों पर आधारित आधुनिक ध्रुतिवाद के आद्य प्रणेता स्व० व० देवल ने इन्हीं ख़ाँसाहब के सहकार से ही अपना संशोधनकार्य सिद्ध किया (Study. Mus., p. 4, 7, 14, 32, 46 etc.) ।

vi. भारतीय राग—संगीत में, विशेषतः हिंदुस्तानी रागस्वरों के निर्माण में यही ज्येष्ठ—सूत्र तथा कनिष्ठसूत्र के मूलतत्त्व रहे हैं । ज्येष्ठसूत्र स—ग—प—नि का उदाहरण शंकरा तथा हंसध्वनि राग में उपलब्ध है । स—ग—प तथा प—नि—सं इन दो कनिष्ठसूत्रों के संयोग से भीम-पलासी का आरोहरूप निर्माण हुआ है । ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ स्वरसूत्रों का संयोग अन्य अनेक रागों में विद्यमान है, उदाहरणार्थ—सारंग, सूपाली, तिलंग, मालकौंस, दरबारी, जौनपुरी इत्यादि । संपूर्ण रागों का वर्तव्य भी स्वरसूत्रों पर आधारित है । रत्नाकरोक्त ‘अन्तर-मार्ग’ तथा अधुना-प्रसिद्ध ‘स्वर-संगति’ की क्रिया इन्हीं दो स्वरसूत्रों पर प्रायः आधारित होती है ।

मालकौंस तथा ललित क्रमशः मीमपलास (आरोहरूप) तथा तोड़ी के व्यत्यास (inversion) से अर्थात् पङ्क्ति को मध्यम करने से पैदा हुए हैं।

तीव्रमध्यमयुक्त कतिपय राग तीव्र निषाद को पङ्क्ति करने पर पैदा हुए हैं। इसका अधिक विचार यहाँ नहीं किया जा सकता।



### ५ भरत-संगीत में सप्तक के स्वर-संवाद

i. नौ तथा तेरह ध्रुति पर स्थित होनेवाले स्वर परस्पर संवादी होते हैं, ऐसा नियम भरत से रत्नाकर तक के सभी ग्रंथकारों ने कहा है। इस नियम के अनुसार भरत के स्वरों में मध्यम का निषाद के साथ नौ ध्रुति का तथा अन्तर-गान्धार का काकटी-निषाद से तेरह ध्रुति का संवाद होता है। भरतोक्त द्विविधैक-मूर्च्छना-क्रिया द्वारा भी मध्यम-निषाद का तथा अन्तर-धैवत का परस्पर संवाद अनुमानित हो जाता है:-

द्विविधैक-मूर्च्छना द्वारा पङ्क्ति ग्राहिक गान्धार को दो ध्रुति चढ़ाने से एवं पङ्क्ति को मध्यम मानने से पङ्क्तिग्राम का मध्यमग्राम बन जाता है। इसके विपरीत मध्यमग्रामिक धैवत को दो ध्रुति उतारने से एवं मध्यम को पङ्क्ति मान लेने से म० ग्राम का प० ग्राम बन जाता है:-

१	{	प० ग्रा० → स	३रि	४ग	म	प	३ध	त्रि
		म० ग्रा० → म	३प	४ध	त्रि	स	३रि	ग
२	{	म० ग्रा० → म	३प	२ध	त्रि	सं	३रि	गं
		प० ग्रा० → स	३रि	ग	म	प	३ध	त्रि

भरतोक्त इस प्रयोग के अनुसार अन्तर-गान्धार तथा धैवत परस्पर संवादी प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार मध्यम तथा निषाद भी परस्पर संवादी होते हैं। परन्तु यह एक सुन्दर वा विषय है, कि पङ्क्तिग्राम के इस चतुःध्रुतिक गान्धार को भरत ने न तो अन्तर-गान्धार नाम से संज्ञित किया है, और न मध्यम-निषादों को परस्पर संवादी भी कहा है। भरत ने अिन संवादी स्वरों का उल्लेख किया है, उनमें अन्तर-धैवतों का तथा मध्यम-निषादों का समावेश नहीं है। इसका अर्थ यही होता है, कि यह स्वर यद्यपि परस्पर संवादी प्रतीत होते हैं, परन्तु परस्पर उनका पूर्णतया संवाद नहीं होता था अपना भरतादिकों के स्वर-संवादों के सिद्धान्त कुछ और ही थे।

ii. रत्नाकर के 'निगावन्य-विवादिनी। रिषयोरेव वा साना ती, तयोर्वा रिषावनि ॥१।३।४९॥'

इस वचन की टीका में कर्त्तिनाथ ने मध्यम निषाद के संवाद का स्पष्ट निरदेश किया है:-

"गुणधर्मेष्वम निषादयोः परस्परं संवादिभ्यदन्नादिनाप्रतिषेधेन पञ्चान्तरमाहः- रिषयोरेव वा०' इति।" सिद्धभूषाल ने यह संवाद केवल म० ग्राम में बताया है:- 'निषादन्य



गान्धार मध्यमो, इति । मध्यमस्य षड्ज निपादौ ।' परन्तु स्वयं रत्नाकर ने ग निसवाद का प्रत्यक्ष निर्देश नहीं किया है ।

111. मतग ने सप्तविन्द के सबंध में समश्रुतिकत्व का एक और नियम प्रस्तुत किया है— 'सप्तविन्दस्तु पुन सम श्रुतिकत्वे सति त्रयोदश-नवान्तरत्वे वाऽऽन्योऽन्य बोद्धव्य ।' (पृ० १४)

मतग के स्वीकरणानुसार समश्रुतिक सप्तदी स्वरों की जोड़ियों में से उनको आपस में बदल देने पर अशादि कार्य तथा मूर्च्छना-प्रयोग सफल हो सकता है । षड्ज के बदले मध्यम अथवा पचम, ऋषभ के बदले धेवत, एव गान्धार के बदले निपाद लेने से अथवा इसके विपरीत क्रम पर अशादि व्यवस्था तथा मूर्च्छना व्यवस्था हो सकती है, ऐसा मतग का निवेदन है । ऋषभाश रेवगुप्त राग तथा ध्रुवमाश ककुभ राग इस दृष्टि से परस्परों के प्रतिनिधि होते हैं, ऐसा भी मतग ने उदाहरण दे कर स्पष्ट किया है—

रेवगुप्त —	रि	ग	म,	ऋ	ष	धि	नि
ककुभ —	ध	नि	स,	इ	रि	ग	म

12 मतग ने रेवगुप्त तथा ककुभ का मूर्च्छनाराम्य बताया है, परन्तु इससे ५० ग्रामिक रेवगुप्त के चतुःश्रुतिक पचम पर ४० ग्रामिक ककुभ का त्रिश्रुतिक ऋषभ अधिष्ठित होता है, तथापि यह बाधा मतग को प्रतीत नहीं हुई । इसका अर्थ यह होता है कि, इन ग्रथकारों द्वारा कथित चतुःश्रुतिक स्वरों की भिन्नता केवल औपसक्तिक (Theoretical) थी, प्रत्यक्ष में वह विद्यमान नहीं थी । इस सम्बन्ध में अन्य प्रमाण पहले भी दिये जा चुके हैं ।

कतिपय आधुनिक विद्वान् मानते हैं, कि चार, तीन आदि श्रुतियों क्रमशः षड्ज, ऋषभ आदि स्वरों के पूर्ववर्ती थीं, ये हिंदुस्थानी सप्तक में सगों के परवर्ती होकर बिलावल धाट निर्माण हुआ (भात० क्र० भाग ४, वि० प्र०, पृ० ६) । यह कल्पना सर्व प्रथम सर जोन्स ने तथा बाद में पेंडर्सन ने की है (Tg C, p 143, 180), जो भूल से की गयी है ।



## ६ भरतोक्त सप्तक का वैज्ञानिक मूल्य

वैज्ञानिक स्वरसप्तक, अर्थात् कोमल-तीव्र आदि सभी स्वर, स्वयंभू स्वर-जन्य होते हैं, अर्थात् सप्तक के स्वर पचम भावी एव तीव्रगान्धार भावी होते हैं । वैज्ञानिक सप्तक का स्वीकार श्रुति पंडितों ने भरतसंगीत के लिए किया है, अर्थात् तीव्र गान्धार भावी और पचम भावी स्वरों द्वारा ही भरत संगीत का स्वरसप्तक निर्माण हुआ था, ऐसा उनका सिद्धांत है । यद्यपि उन्होंने वैज्ञानिक स्वरशास्त्र के सहाय से ही भरत का स्वरसप्तक सिद्ध किया है, फिर भी उसमें वैज्ञानिक स्वरशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों का परिपालन यथावत् नहीं हुआ है । वैज्ञानिक स्वरसप्तक का मूल आधार षड्ज (Key note) तथा उसके स्वर-सूत्र हैं, जिसका सम्पूर्ण अनुसरण इनके 'भरतोक्त' स्वर-सप्तक में नहीं हुआ है, उदाहरणार्थ—

( १ ) ५० ग्रामिक पंडितमान्य ऋषभ त्रिश्रुतिक है, परन्तु उसे षड्ज के सप्तक में वास्तविक स्थान नहीं है ।

( २ ) भरतोक्त प० ग्रामिक गन्ति मध्यमभावी हैं, जो प० के सप्तक में अग्रस्थ हैं ।

( ३ ) प० ग्राम को मध्यमप्रधान सप्तक मान लिया, तो भी उसका कोमल गान्धार ( मूलतः निषाद ) मध्यम-भावी होने से अपवैज्ञानिक है ।

( ४ ) म० ग्रामिक सप्तक का भरतोक्त पंचम त्रिश्रुतिक है । मध्यम के स्थायी होने पर यह पंचम उस सप्तक में त्रिश्रुतिक ऋषभ बनता है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से अग्रस्थ है ।

किसी भी स्वर को पट्टज (=स्थायी) मान लेने बाद उसका ऋषभ उक्त पट्टज के पंचम का संवादी ही होना अपरिहार्य है । पट्टजग्राम में यदि मध्यम को स्थायी बनाया जाय, तो निम्नस्व ऋषभ  $\frac{1}{2}$  अनुपात का ब्राह्म होगा; परन्तु उस समय यह ऋषभ वास्तव में धैवत होता है, क्योंकि मध्यम यदि स्थायी हो जाता है, तो उस सप्तक का वह पट्टज ही बन जाता है । इस योजनानुसार म-स्थायीयुक्त प० ग्राम नि<sub>१</sub>-(=मूल प० ग्रामिक ग<sub>१</sub>)-युक्त मेजर मोड बन जाता है ।

म-स्थायीयुक्त म० ग्रामिक सप्तक में प ३ ) यह रि ३ ) बनता है, जो इस सप्तक में भी कृत्रिम अत एव अग्रस्थ स्वर है । भरतोत्तरकाल में स्थायी स्वर की कल्पना संपूर्ण विकसित होने पर शास्त्रकारों के रि ३ ) (= प ३ ) युक्त मध्यमग्राम का भी लोप हुआ । इसी प्रकार पट्टजग्रामिक रि ३ ) सुपर के रि ४ ) होने बाद पट्टजग्रामिक सप्तक काफी घाट बन गया । मध्ययुगीन उत्तर-भारतीय ग्रंथकारों का शुद्ध सप्तक यही था । अहोबिल ने तार के विभाग द्वारा जो शुद्ध सप्तक के अर्थात् काफी घाट के स्वर बताये हैं, उनमें चतुःश्रुतिक अर्थात् प्रचलित तीव्र रे तथा वैज्ञानिक (= प्रचलित ) कोमल गन्ति स्पष्ट और निर्विवाद विद्यमान हैं ।

यहाँ बताया हुई रीति से ही भरतोक्त ग्रामसप्तकों का सरल तथा विज्ञानान्वय अर्थ लग सकता है । इस परिवर्तन को ऐतिहासिक आधार पर्याप्त रूप से प्राप्त है । भरत के सप्तकों का अर्थ करने के लिए भरतसंगीत में स्वयंभू स्वरों की आधुनिक कल्पना घुसाड़ने की आवश्यकता नहीं है । प० रामनाथ आदि ने 'स्वयंभू' शब्द Harmonics के अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया है, तो भी कतिपय आशावादी विद्वान स्वयंभू गान्धार को महाभारत आदि से पैदा करके संतोष मानते हैं ( ऑ०, पृ० ७७ ) । भरतयुग के कलाकार कौनसे स्वर प्रयोग में लेते थे, इस बात के अनुमानों का विचार यहाँ कर्तव्य नहीं है, किन्तु प्राचीन ग्रंथकारों ने बताये हुए स्वरस्थानों का निर्णय उन्हीं के वचनों द्वारा करना है ।

यहाँ यह मानना उचित होगा, कि प्राचीन शास्त्रकार ( theorists ) उस समय के प्रचलित सारस्थान बराबर लिख न सके । भरत-रत्नाकरादि के समय के संगीत में काफी तथा बिजयल के सप्तक में त्रिश्रुतिक ( उतरा तीव्र ) ऋषभ गान्धार-वादे थे ऐसा नहीं मानना चाहिए; किन्तु यह समझना चाहिए कि शास्त्रकारों ने केवल परम्परा के आधार पर तीन ऋषभ के तथा म० ग्रामिक पंचम को 'त्रिश्रुतिक' की उपाधि प्रदान की । ग्राम, श्रुति तथा मूर्च्छना आदि गहबही में पदकर ग्रीक शास्त्रकारों ने भी उनके रागों को असलव्यस्त लिख दिये हैं । परन्तु प्राचीन समय को देखते हुए ऐसी धापट्टी होना स्वाभाविक था, यही मानना पड़ेगा ।

# शुद्धिपत्र

पृष्ठाङ्क		पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२	(नीचे से)	१	सन्तास्तु	सन्तस्तु
३	(ऊपर से)	१३	यादशी	यादशी
"	"	१७	वर्भता	वर्भता
१२	"	१३	प्रचक्षते	प्रचक्षते
१५	"	१२	अध्यायाना	अध्यायाना
१७	" ३ और ४ के बीच में		-----	२ अथ वर्ष-वर्षान प्रकरण द्वितीयम्
२४	(नीचे से)	१	तच्च तुर्यम्	तच्चतुर्यमम्
२५	(ऊपर से)	३	आचार्यः	आचार्याः
"	"	६	शातपथ	शतपथ
"	(नीचे से)	१	सीमन्	सीमन्
२६	"	१	उनका	उसका
"	"	७	कोण	कोन
२७	"	२	अ०	अष्टा०
३०	"	५	होती	होता
३१	"	५	अनुवाक्	अनुवाक
३२	(ऊपर से)	१०	"	"
३८	(नीचे से)	७	कुष्टो	कुष्टो
३९	(ऊपर से)	२	कृष्टस्य	कृष्टस्य
४२	"	३	Begining	Beginning
"	"	९	कृष्टादि	कृष्टादि
"	(नीचे से)	४	कृष्ट	कृष्ट
४७	(ऊपर से)	१४	Consanance	Consonance
"	(नीचे से)	९	und	and
४९	(नीचे से)	५	अभिर्मलि ऋत्विजम्	अभिर्मले ऋत्विजम्
५०	(ऊपर से)	४	सीमन्	सीमन्
५३	"	८	he	be
५७	" १ और २ के बीच में		-----	७ अथ सतानं शब्द-नित्वा- नित्यत्व-प्रकरणम्
५८	"	६	सत्या	सत्या
६२	"	१४	गान्धव	गान्धवे
६३	"	५	-उन्द-	-उन्द-
६४	"	४	गान्धार-सापि	गान्धारथापि
७०	"	२३	हिंसुल	गंधक
७१	"	१०	त्रिष्टुब्	त्रिष्टुब्
७२	"	२	अथ.....	२ अथ.....
"	"	६	श्रुती यथा	श्रुतीर्यथा
७३	(नीचे से)	५	मेरु	मेरु
७४	(ऊपर से)	१५	"	"
७५	"	१९	ibid	ibid
८२	"	१४	निर्देस	निर्देश
८४	"	१७	लेख्यो	लेख्यो
८६	"	७	द्युणोतेः	द्युणोतेः
८७	"	३०	-पुणन	-पुणन
८८	"	३०	बदाई	बदाई
८९	"	९	की नहीं	नहीं की

## शुद्धिपत्र

पृष्ठाङ्क		पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१०	"	७	विलेखत्	लेखत्
"	"	२४	श्रुतियां को	श्रुतियों को
११	"	१०	प्रगट	प्रकट
"	(नीचे से)	२	ध्वनि	ध्वनियों को
१४	(ऊपर से)	७	दधनि	दधनि
"	"	१२	विशप	विशेष
"	"	१४	कृष्टे	कृष्ट
१७	"	२४	धति	श्रुति
१९	(नीचे से)	३	इस	इस
१०४	"	५	प्रवात	पर्याप्त
१०७	(ऊपर से)	३	श्रुतीणां	श्रुतीनां
१०८	"	१६	पइजाख्य प्रामयोः	पइजाख्य-ग्रामयोः
१११	"	६	खरेष्वेवहि	खरेष्वेव हि
११२	"	३	पइजेत्तर-	पइजे त्तर-
११२	"	२०	मूर्च्छना	मूर्च्छना
११३	"	१	४ शुलध्यायः	४ मूर्च्छनाध्यायः
११५	"	१	"	"
"	"	२	पइज-मध्यम-	पइज-मध्यम-
"	"	६	हेयं मौडविते	हेयमौडविते
११७	"	१	४ शुलध्यायः	४ मूर्च्छनाध्यायः
११९	"	"	" - - -	"
१२०	"	"	" - - -	३ अथ तान-प्रकरणं तृतीयम्
१२१	"	"	"	"
१२३	"	"	"	"
१२४	(नीचे से)	३	रागोत्पादक	रागोत्पादक
१२५	"	"	"	"
१२७	"	"	"	"
१२९	"	४	विष्णु	विष्णु
१३१	(ऊपर से)	५	ओडवा	ओडवा
१३१	"	१६	तथा क्षितो	तथाऽऽक्षितो
"	"	"	विभ्रतो	विभ्रतो
१४०	"	१७	नाविन्य	नावीन्य
१४३	(नीचे से)	२	association	association
१४४	(ऊपर से)	२३	we	We
"	"	२४	ae	as
"	"	३०	esthetic	esthetic
१४५	"	३	विहित	विहितः
"	"	१५	पइचनाते	पइचानते
१४९	"	४	क्वचिदका	क्वचित्का
१५४	"	२०	चैवेतेपा	चैवेतेपा
		...	"	वा

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय ग्रंथमाला  
आगामी प्रकाशन

१ : तबला-वादन, भाग २

ले०- श्री. माधवराव अळकुटकर

२ : वेला-वादन

ले०-श्री तुलसीराम देवाइगन

३ : भरतभाष्य, द्वितीय खण्ड